चैत्र मास शुक्ल पक्ष, 22 वर्ष, अंक 309, पृष्ठ 8, मूल्य 3.00

अखंड भारत संदेश

www.akhandbharatsandesh.net

प्रयागराज से प्रकाशित

नगर संस्करण प्रयागराज | शनिवार 09 दिसंबर 2023 | विश्व निर्माण एवं मानव विकास को दुतगति प्रदान करने हेतु क्रियायोग आश्रम एवं अनुसंधान आश्रम की अनुपम भेंट

दिल्ली नगर निगम की विशेष बजट बैठक हुई स्थगित

नई दिल्ली

दिल्ली नगर निगम की शुक्रवार को होने वाली बजट बैठक स्थगित कर दी गई है। यह अब बैठक शनिवार दोपहर दो बजे होगी। दिल्ली नगर निगम की विशेष बजट बैठक में शुक्रवार को कमिश्नर ज्ञानेश भारती को निगम का बजट पेश करना था। इसके लिए दोपहर दो बजे बजट की विशेष बैठक बुलाई गई थी, जिसमें कमिश्नर वर्ष 2023-24 का संशोधित बजट अनुमान और 2024-2025 का बजट अनुमान प्रस्तुत करते। हालांकि मात्र एक घंटे पहले बैठक को स्थगित कर दिया गया। हालांकि शनिवार को छुट्टी का दिन होने के बावजूद विशेष बजट बैठक बुलाई गई है, क्योंकि 10 दिसंबर से पहले बजट को पेश करना जरूरी है। भाजपा पार्षदों का कहना है कि आम आदमी पार्टी की सरकार नियम कानून को ताक पर रखकर बिना किसी तैयारी के काम कर रही है।

सर्राफा बाजार में मामूली तेजी का रुख, दिल्ली में सोना 63 हजार के पार

नई दिल्ली

भारतीय सर्राफा बाजारों में शुक्रवार को तेजी का रुख बना रहा। आज देश के ज्यादातर सराफा बाजारों में 24 कैरेट सोने की कीमत में 200 रुपये प्रति 10 ग्राम तक की तेजी देखी गई। इसी तरह 22 कैरेट सोना भी आज 100 से 150 रुपये प्रति 10 ग्राम तक चढ़ कर कारोबार करता नजर आया। दिल्ली के सराफा बाजार में चांदी ने आज तेज होकर 77,700 रुपये प्रति किलोग्राम के स्तर पर कारोबार किया। देश की राजधानी दिल्ली में आज 24 कैरेट सोना 63,100 रुपये प्रति 10 ग्राम के स्तर पर कारोबार कर रहा है, जबकि 22 कैरेट सोने की कीमत 57,850 रुपये प्रति 10 ग्राम दर्ज की गई। इसी तरह अहमदाबाद में 24 कैरेट सोना आज 63,000 रुपये प्रति 10 ग्राम की कीमत पर और 22 कैरेट सोना 57,750 रुपये प्रति 10 ग्राम की कीमत पर बिक रहा है। चेन्नई में 24 कैरेट सोने की रिटेल कीमत 63,660 रुपये प्रति 10 ग्राम और 22 कैरेट सोने की कीमत 58,350 रुपये प्रति 10 ग्राम दर्ज की गई है।

सवाल के बदले रिश्वत: महुआ की सांसदी गई

पैसे लेकर संसद में सवाल पूछने के आरोपों की जांच कर रही संसद की आचार समिति की रिपोर्ट सौंपने के बाद लोकसभा में यह फैसला लिया

नई दिल्ली

तृणमूल कांग्रेस की नेता महुआ मोइत्रा की लोकसभा सदस्यता रद्द कर दी गई है। पैसे लेकर संसद में सवाल पूछने के आरोपों की जांच कर रही संसद की आचार समिति की रिपोर्ट सौंपने के बाद लोकसभा में यह फैसला लिया गया है। इस रिपोर्ट में महुआ की सांसदी खत्म करने की सिफारिश की गई थी। इससे पहले 15 अक्तूबर में भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने महुआ के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी। दुबे के अनुसार, यह शिकायत सुप्रीम कोर्ट के वकील जय अनंत देहादराई द्वारा मुहैया कराए गए सबूतों के आधारित थी।

पैसे लेकर सवाल पूछने का पूरा मामला क्या है?

तृणमूल कांग्रेस की सांसद महुआ मोइत्रा पर कारोबारी दर्शन हीरानंदानी के कहने पर संसद में सवाल पूछने का आरोप है। भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने उनके खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी और उनके खिलाफ लोकसभा स्पीकर से शिकायत कर जांच की मांग की। उन्होंने दावा किया था कि ये सबूत वकील जय अनंत देहादराई द्वारा प्रदान किए गए थे। लोकसभा स्पीकर को लिखे अपने पत्र में दुबे ने कहा था कि उन्हें वकील और महुआ के पूर्व दोस्त जय अनंत का एक पत्र मिला है, जिसमें उन्होंने मोइत्रा और जाने-माने बिजनेस टाइकून दर्शन हीरानंदानी के बीच सवाल पूछने के लिए रिश्वत के आदान-प्रदान के सबूत साझा किए हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि जय ने एक विस्तृत शोध किया है जिसके आधार पर उन्होंने निष्कर्ष निकाला है कि हाल ही में, मोइत्रा ने संसद में उनके द्वारा पूछे गए कुल 61 में से लगभग 50 प्रश्न दर्शन हीरानंदानी और उनकी कंपनी के व्यावसायिक हितों को बचाने के लिए थे। हालांकि, महुआ मोइत्रा ने जय अनंत का जिक्र करते हुए कहा कि आरोप झूठ पर आधारित थे। आरोप यह भी है कि कारोबारी हीरानंदानी अलग-अलग स्थानों से एवं अधिकतर दुबई से सवाल पूछने के लिए मोइत्रा की ह्यलॉगइन आईडीह्न

महुआ के खिलाफ आचार समिति में क्या हुआ?

पैसे लेकर संसद में सवाल पूछने के मामले की जांच करने वाले लोकसभा की आचार समिति ने 2 नवंबर को पूछताछ की थी। वहीं 9 नवंबर को एक बैठक में भाजपा सांसद विनोद कुमार सोनकर की अध्यक्षता वाली समिति ने रिश्वत लेकर सवाल पूछने के मामले में मोइत्रा को लोकसभा से निष्कासित करने की सिफारिश करते हुए अपनी रिपोर्ट सौंपी थी। कांग्रेस सांसद परनीत कौर सहित समिति के छह सदस्यों ने रिपोर्ट के पक्ष में मतदान किया था। जबकि विपक्षी दलों से जुड़े समिति के चार सदस्यों ने असहमति नोट प्रस्तुत किए थे। विपक्षी सदस्यों ने रिपोर्ट को 'फिक्स्ड मैच' करार दिया और कहा कि भाजपा सांसद निशिकांत दुबे द्वारा दायर शिकायत के समर्थन में कुछ भी सबूत पेश नहीं किया गया।

अब संसद में रखी गई रिपोर्ट में क्या सामने आया है?

आचार समिति की रिपोर्ट को शीतकालीन सत्र के पहले ही दिन (4 दिसंबर) कार्यसूची में शामिल किया गया था। रिपोर्ट में न सिर्फ महुआ की सदस्यता निरस्त करने की, बल्कि उनके कृत्यों को राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा मानते हुए इसकी जांच भी कराने की सिफारिश की गई है। रिपोर्ट पेश होने के बाद शुक्रवार (8 दिसंबर) को महुआ के खिलाफ निष्कासन प्रस्ताव लाया गया।

विपक्षी दलों के सदस्यों ने फैसले का विरोध जताया

वहीं लोकसभा में रिपोर्ट पर चर्चा के बाद सदन ने समिति की सिफारिश के पक्ष में वोट किया जिससे मोइत्रा की संसद सदस्यता खत्म हो गई। हालांकि, विभिन्न विपक्षी दलों के सदस्यों ने इस फैसले के विरोध जताया।

आरोपों पर महुआ का क्या कहना है?

इससे पहले आचार समिति के सामने खुद महुआ ने स्वीकार किया था कि उन्होंने संसद में सवाल पूछने के पोर्टल से जुड़ी अपनी आईडी-पासवर्ड साझा किए थे। हालांकि, महुआ मोइत्रा ने पहले एक बयान में अपने पूर्व साथी जय अनंत का जिक्र करते हुए कहा था कि आरोप झूठ पर आधारित थे।

महुआ की सदस्यता गई, लेकिन आगे क्या?

आचार समिति के पिछले निर्णयों से पता चलता है कि पैनल अनैतिक आचरण के दोषी पाए गए सदस्य के खिलाफ सदन से निलंबन, माफी या निंदा जैसे कदमों की सिफारिश करता है। हालांकि, इसके पास सांसद पर मुकदमा चलाने की दंडात्मक शक्तियां नहीं हैं।

जैसा कि लोकसभा अध्यक्ष ने संसदीय समिति की सिफारिशों को आगे बढ़ाया है और मोइत्रा को निष्कासित कर दिया है। अब इस बात की अधिक संभावना है कि मोइत्रा इस मामले को अदालत में उठायेंगी।

'एआई तकनीक अब नई पीढ़ी के हाथों में है'

नई दिल्ली

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अक को लेकर एक पोस्ट किया है। जिसमें पीएम मोदी ने ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस समिट 2023 के बारे में बात की गई है। पीएम मोदी ने अपने पोस्ट में लिखा, मैं आप सभी को एक आकर्षक कार्यक्रम में आमंत्रित करना चाहता हूं जो एआई और नवाचार में प्रगति का जश्न मनाता है - आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस समिट 2023 पर वैश्विक साझेदारी !शिखर सम्मेलन 12 दिसंबर को शुरू होगा। मुझे विश्वास है कि आप इस जीवंत मंच का हिस्सा बनना पसंद करेंगे। हम एक बहुत ही दिलचस्प समय अवधि में रह रहे हैं। दशकों के तेज गति वाले नवाचार और मानव

प्रयास की शक्ति ने उस चीज को जीवंत कर दिया है जिसे कभी केवल कल्पना के दायरे में माना जाता था। तेजी से चल रहे इस समय में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) एक ऐसा क्षेत्र है जहां इसके अनुप्रयोगों का तेजी से विस्तार हो रहा है। पीएम मोदी ने आगे लिखा कि यह क्रांतिकारी तकनीक अब नई पीढ़ी के हाथों में है - युवा, प्रतिभाशाली दिमाग जो तेजी से इसकी विशाल क्षमता को समृद्ध कर रहे हैं। भारत, एक जीवंत स्टार्ट-अप पारिस्थितिकी तंत्र और एक प्रतिभाशाली कार्यबल के साथ सबसे युवा देशों में से एक के रूप में, एआई के विकास में एक सक्रिय योगदानकर्ता बनने के लिए तैयार है क्योंकि दुनिया बहुत दूर के भविष्य की ओर बढ़ रही है।

अभाविप के राष्ट्रीय अधिवेशन का केन्द्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने किया उद्घाटन

नई दिल्ली

अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के 75वें वर्ष में आयोजित हो रहे चार-दिवसीय 69वें राष्ट्रीय अधिवेशन का उद्घाटन केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह द्वारा दिल्ली के बुराड़ी स्थित डीडीए ग्राउंड में बसाई गई टेंट सिटी इंद्रप्रस्थ नगर के मदनदास देवी सभागार में किया गया। विद्यार्थी परिषद के राष्ट्रीय अधिवेशन उद्घाटन के अवसर पर अमित शाह ने परिषद के थीम सॉग और राष्ट्रीय चेतना पर आधारित पांच पुस्तकों का विमोचन किया। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद

के राष्ट्रीय अधिवेशन के उद्घाटन के अवसर पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य सुरेश सोनी, सह-सरकार्यवाह मुकुंद सीआर, अखिल भारतीय संपर्क प्रमुख रामलाल , अखिल भारतीय प्रचार प्रमुख सुनील आंबेकर, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉ राजशरण शाही, राष्ट्रीय महामंत्री याज्ञवल्क्य शुक्ल, राष्ट्रीय संगठन मंत्री आशीष चौहान, राष्ट्रीय सह-संगठन मंत्री प्रफुल्ल आकांत, राष्ट्रीय अधिवेशन की स्वागत समिति अध्यक्ष निर्मल मिंडा , स्वागत समिति महामंत्री आशीष सूद, अभाविप दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष डॉ अभिषेक टंडन, प्रदेश मंत्री हर्ष अत्री उपस्थित रहे। अभाविप के राष्ट्रीय अधिवेशन में देश के प्रत्येक ज़िले व विश्वविद्यालय-महाविद्यालय परिसर से दस हजार से अधिक छात्रा-छात्र इस महाकुंभ का हिस्सा बनने हेतु दिल्ली के बुराड़ी स्थित डीडीए मैदान पहुंचे।

कांग्रेस सांसद के ठिकानों से करोड़ों बरामद, 'सभी भ्रष्टाचारी एक-एक करके जाएंगे जेल'

नई दिल्ली

भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस सांसद धीरज साहू और उनके करीबियों के ठिकानों पर आयकर विभाग की छापेमारी में करोड़ों रुपये मिलने पर कांग्रेस पर जोरदार हमला बोला है। भाजपा ने कहा कि कांग्रेस भ्रष्टाचार में आकंठ डूबी पार्टी है। सभी भ्रष्टाचारी एक-एक करके जेल जाएंगे। भाजपा प्रवक्ता गौरव भाटिया ने शुक्रवार को पार्टी मुख्यालय में संवाददाता सम्मेलन में कहा कि पूरे विश्व में सबसे भ्रष्टाचारी गांधी परिवार है। जनता के पैसे से कांग्रेस अपना जेब भर रही है। सब भ्रष्टाचारी एक-एक करके जेल जाएंगे। उन्हें पाई-पाई लौटाना पड़ेगा। भाटिया ने कहा कि विपक्षी दलों का गठबंधन आईएनडीआईए लूट का गठबंधन है। यह गठबंधन दीमक की तरह हमारे देश को, नागरिक के अधिकारों को खा रहा है। आईएनडीआई के सभी घटक दल भ्रष्टाचार में संलिप्त हैं। उन्होंने पूछा कि विपक्ष को इस छापे में मिल रहे नकदी के बारे में बताना चाहिए, लेकिन इस पर सोनिया गांधी भी चुप हैं। राहुल गांधी की याददाश्त चली गई है। कांग्रेस अध्यक्ष ने भी अभी तक कोई एक्शन क्यों नहीं लिया। उन्होंने कहा कि भाजपा ने छत्तीसगढ़ चुनाव में महादेव ऐप का मामला उठाया था। छत्तीसगढ़ में जनता ने प्रधानमंत्री मोदी की गारंटी पर मुहर लगाई।

केंद्र ने जमाखोरी रोकने और कीमतों पर नियंत्रण के लिए गेहूं की स्टॉक सीमा घटाई

नई दिल्ली

केंद्र सरकार ने गेहूं की जमाखोरी रोकने और कीमतों पर नियंत्रण रखने के लिए सख्त कदम उठाया है। सरकार ने तत्काल प्रभाव से थोक, खुदरा, बड़े खुदरा विक्रेताओं और प्रसंस्करण फर्मों के लिए गेहूं की स्टॉक सीमा घटा दी है। उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने शुक्रवार को एक बयान में कहा कि तत्काल प्रभाव से व्यापारियों एवं थोक विक्रेताओं के लिए गेहूं भंडारण की सीमा दो हजार टन से घटाकर एक हजार टन की गई है। प्रत्येक खुदरा विक्रेता के लिए भंडारण की सीमा 10 टन से घटाकर पांच टन किया गया है। बड़े खुदरा विक्रेताओं के प्रत्येक डिपो के लिए पांच टन और उनके सभी डिपो के लिए यह सीमा कुल मिलाकर एक हजार टन होगी। मंत्रालय के मुताबिक गेहूं भंडारण करने वाली सभी फर्मों को गेहूं स्टॉक सीमा संबंधी पोर्टल पर अपना पंजीकरण करना होगा। इसके साथ ही प्रत्येक शुक्रवार को अपने स्टॉक के बारे में जानकारी देनी होगी। पोर्टल पर पंजीकृत न कराई गई या स्टॉक सीमा का उल्लंघन करने वाली फर्म के खिलाफ आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 6 एवं 7 के तहत उचित दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। केंद्रीय खाद्य सचिव संजीव चोपड़ा के मुताबिक गेहूं का प्रसंस्करण करने वालीं कंपनी चालू वित्त वर्ष 2023-24 के बाकी महीनों के अनुपात में मासिक स्थापित क्षमता का 70 फीसदी रख सकती हैं।

'फरिश्ते दिल्ली के' योजना के लिए फंड की मांग, एलजी को 'सुप्रीम' नोटिस

नई दिल्ली

सुप्रीम कोर्ट ने फरिश्ते दिल्ली के नामक अपनी योजना के लिए फंड जारी करने की दिल्ली सरकार की याचिका पर उप-राज्यपाल दफ्तर को नोटिस जारी किया है। कोर्ट ने टिप्पणी की कि ये समझ से परे है कि क्यों सरकार के दो धड़े आपस में यूं लड़ते रहते हैं। कोर्ट ने उप-राज्यपाल दफ्तर के साथ-साथ दिल्ली सरकार के स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय और स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के सचिव डॉक्टर नूतन मुड़ेजा को भी नोटिस जारी किया है। दिल्ली सरकार ने अर्जी दायर कर 'फरिश्ते दिल्ली के' नाम वाली अपनी स्कीम के लिए फंड रिलीज करने की मांग की है। इस स्कीम के तहत दिल्ली सरकार सड़क दुर्घटना में घायल लोगों को मुफ्त इलाज मुहैया कराती है।

आरबीआई ने आर्थिक वृद्धि दर का अनुमान बढ़ाकर सात फीसदी किया

मुंबई

रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (आरबीआई) ने चालू वित्त वर्ष 2023-24 के लिए देश के आर्थिक वृद्धि दर का अनुमान बढ़ाकर 7 फीसदी कर दिया है। रिजर्व बैंक ने मजबूत घरेलू मांग तथा विनिर्माण क्षेत्र में क्षमता इस्तेमाल बढ़ने के बीच विकास दर के अनुमान में इजाफा किया है। आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने शुक्रवार को यहां आयोजित प्रेस कांफ्रेंस में कहा कि मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी) ने सर्वसम्मति से रेपो रेट 6.50 फीसदी पर बरकरार रखा है। उन्होंने मौद्रिक समीक्षा बैठक के नतीजे के बारे में बताया कि चालू वित्त वर्ष 2023-24 में आर्थिक वृद्धि दर सात फीसदी रहेगी। दिसंबर तिमाही में जीडीपी वृद्धि दर 6.5 फीसदी और मार्च तिमाही में छह फीसदी रहने का अनुमान है। शक्तिकांत दास ने

कहा कि एमपीसी ने मौद्रिक समीक्षा में अगले वित्त वर्ष 2024-25 की पहली तिमाही के लिए जीडीपी वृद्धि दर 6.7 फीसदी, दूसरी तिमाही के लिए 6.5 फीसदी और तीसरी तिमाही के लिए 6.4 फीसदी रहने का अनुमान जताया है। इससे पहले केंद्रीय बैंक ने वित्त वर्ष 2023-24 में आर्थिक वृद्धि दर 6.5 फीसदी रहने का अनुमान लगाया था। उल्लेखनीय है कि भारत की अर्थव्यवस्था 31 मार्च 2023 को समाप्त वित्त वर्ष में 7.2 फीसदी की दर से बढ़ी थी। देश की वास्तविक जीडीपी वृद्धि चालू वित्त वर्ष 2023-24 की जून और सितंबर तिमाही में सालाना आधार पर क्रमशः 7.8 फीसदी और 7.6 फीसदी रही है। अंतरराष्ट्रीय मुद्राकोष, विश्वबैंक और रेटिंग एजेंसी फिच ने चालू वित्त वर्ष में भारत की आर्थिक वृद्धि दर 6.3 फीसदी रहने की संभावना जताई है, जबकि एसएंडपी ने विकास दर 6.4 फीसदी रहने की उम्मीद जताई है।

विशालकाय नीम के 8 पेड़ों को कटवाकर किया धराशाई

बीट प्रभारी ने ठेकेदार के खिलाफ दर्ज कराया मुकदमा

अखंड भारत संदेश



मऊआइमा। आखिर हम जिस मुहिम के लिए पौधरोपण करते हैं। प्रकृति को हराभरा बनाने की मुहिम चला रखी है उसी को नष्ट करने में थोड़े स्वार्थ के लिए ऐसे ही लोग लगे हैं। जो शायद इतना भी नहीं सोंचते कि एक विशाल वृक्ष का क्या महत्व है। प्रकृति के संतुलन को अस्थिर करने में तुले हुए हैं।

यह मामला मऊआइमा थानाक्षेत्र के ग्राम पूरे फौजशाह उर्फ बघोला का है जहां नीम के आठ विशालकाय वृक्षों को ठेकेदार ने मजदूरों से कटवा कर धराशाई कर दिया। बीट प्रभारी ने ठेकेदार के खिलाफ मुकदमा दर्ज करा दिया है। बता दें कि मऊआइमा थाना क्षेत्र के ग्राम पूरे फौजशाह उर्फ बघोला के मजरा भूरीपुर में प्रदीप कुमार मौर्या ने आठ नीम के वृक्षों को ठेकेदार चिरौंजी लाल विश्वकर्मा पुत्र स्वर्गीय राम अवध के हाथ बेच दिया। आरोप है कि जिसे चिरौंजी लाल ने मजदूरों से कटवाकर धराशाई करवा दिया। बीट प्रभारी रामभजन माली ने मऊआइमा थाने में चिरौंजी लाल के खिलाफ मुकदमा दर्ज करा दिया है।

मऊआइमा के दो अलग अलग गांवों में मार पीट चार जख्मी मुकदमा दर्ज

मऊआइमा। पुरानी रंजिश को लेकर दो अलग अलग गांवों में मार पीट एक युवक और उसकी पत्नी, पुत्र पुत्री को मार पीट कर लहुलुहान कर दिया। पुलिस ने दोनों मामलों में छह के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। मऊआइमा थाना क्षेत्र के ग्राम किरांव निवासी मोहम्मद रसीद पुत्र भुल्लन का आरोप है कि पुरानी रंजिश को लेकर पडोसी उसे और उसकी पत्नी शाहनाज बानों और पुत्री नसरीन को मार पीट कर लहुलुहान कर दिए एंव जान से मारने की धमकी दी। मोहम्मद रसीद ने मऊआइमा थाने में नसीम उर्फ मुन्ना, महबूब अली, परवेज,सबरुन निशां के खिलाफ मुकदमा दर्ज करा दिया है।उधर ग्राम अलावलपुर निवासनीय शहनाज बानों पत्नी हारून का आरोप है कि बच्चों के विवाद को लेकर मारा पीटा गया। शहनाज बानों ने मऊआइमा थाने में बबलू,बल्लू के खिलाफ मुकदमा दर्ज करा दी है।

नायब तहसीलदार के बिगड़े बोल: कहा- जो उखाड़ना है उखाड़ लो!

अखंड भारत संदेश

बारा। बारा तहसील परिसर में उस समय हंगामे की स्थिति बन गई, जब नायब तहसीलदार शंकरगढ़ (बारा तहसील) ने उखाड़ लेने की धमकी दे दी गई। दरअसल, तहसील के एक वरिष्ठ अधिवक्ता किसी कार्य से एनटी के पास पहुंचे थे। इसी दरम्यान दोनों के बीच बहस हुई और बातचीत के दरम्यान ही नायब तहसीलदार शंकरगढ़ आपा खो बैठे। धमकी भरे लहजे में बोले- एक साल से काम कर रहे हैं। कुछ (अधिवक्ता) उखाड़ते-उखाड़ते थक गए। अभी भी उखाड़ रहे हैं। आप भी उखाड़ लो। जहां जाना हो जाओ। नायब तहसीदार शंकरगढ़ के इस वक्तव्य के बाद मौके पर तनावपूर्ण स्थिति बन गई। जो बारा तहसील में चर्चा का विषय बनी हुई है। आरोप है कि शंकरगढ़ की सरकारी जमीन पर कब्जा हटवाना तो दूर की बात, एनटी के द्वारा उखाड़ लेने की दी जा रही है। सरेआम धमकी से अधिवक्ताओं से लेकर तमाम सामाजिक संगठनों में रोष है। पूर्व में भी नायब तहसीलदार द्वारा कूटरचना कर एक वादकारी को फंसाने की कोशिश की जा चुकी है। जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था।

फिलहाल, नायब के बिगड़े बोल को लेकर तहसील में चर्चा बनी हुई है। सीनियर अधिवक्ता ने बार एसोसिएशन से न्याय की गुहार लगाई है।

आपूर्ति ठप्प होने से पेयजल संकट गहराया

मेजा। मेजा तहसील में लगभग चार दशक पूर्व स्थापित जल निगम परियोजना लखनपुर द्वारा कभी सैकड़ों गांव के लोगों की प्यास बुझती थी, वर्तमान में उक्त परियोजना अपने ही अधिकारियों की लूटखसोट के चलते पेयजल आपूर्ति करने में असहाय हो रहा है। एक पखवाड़े से सुबह शाम की जाने वाली आपूर्ति पूरी तरह से ध्वस्त हो चुकी है। दिन में कुछ समय के लिए की जा रही पानी की आपूर्ति भले ही लोगों की जरूरत न पूरी कर रही हो,लेकिन कागजों पर सब कुछ ठीक ठाक दिखाकर लाखों रुपए का वारा-न्यारा किया जा रहा है। एक महीने से आपूर्ति किसी न किसी तकनीकी समस्याओं के चलते बाधित रहती है। यह समस्या एक दिन की नहीं रोजाना की हो गई है। गांव सहित मेजारोड बाजार में पेयजल आपूर्ति के लिए लखनपुर जल निगम इन दिनों अपने ही दुर्दशा पर आंसू बहा रहा है।लोग बताते हैं कि यहां जब शिकायत के लिए जाते हैं तो वहां ताला लटका मिलता है। फोन कोई उठता नहीं।

पेयजल समस्या के बारे में मेजारोड बाजार के व्यापारी राजेंद्र गुप्ता बताते हैं कि पानी की समस्या पिछले कई सालों से जस की तस बनी हुई है बाजार में हैंडपंप ना होने के कारण लोग दूर से पानी लाने को मजबूर हैं।मेजारोड प्रमुख चौराहे पर मिष्ठान की दुकान खोले व्यापारी जीतलाल यादव ने बताया कि पानी की समस्या बाजार में निरंतर बनी रहती है। सुबह-शाम जल निगम से होने वाली पानी की आपूर्ति का इंतजार रहता है, लेकिन हर बार ठगा महसूस होना पड़ता है। व्यापार मंडल अध्यक्ष पप्पू उपाध्याय ने जल निगम विभाग की लापरवाही पर कड़ी नाराजगी व्यक्त करते हुए जल निगम विभाग के कर्मचारियों व अधिकारियों को चेताते हुए कहा कि अगर आपूर्ति जल्द से जल्द ठीक नहीं की गई तो व्यापारी सड़क पर उतरने के लिए बाध्य होंगे।

अरे द्वारपालों कन्हैया से कह दो कि दर पे सुदामा गरीब आ गया है...

जंघई। श्रीमद्भागवत कथा ज्ञान यज्ञ गहरपुर, खखैचा में कथा के सातवें दिन शुक्रवार को कथावाचक आचार्य देवेंद्र मणि त्रिपाठी महाराज ने श्रीकृष्ण-सुदामा की मित्रता का प्रसंग सुनाकर श्रद्धालुओं को मंत्रमुग्ध कर दिया।सुदामा चरित्र, राजा परीक्षित मोक्ष, द्वारिका लीला, यदुवंश को श्राप, शुकदेव जी की विदाई आदि के सुंदर प्रसंग बताने के साथ भागवत कथा का विश्राम हो गया।पत्नी सुशीला के बार बार कहने पर सुदामा अपने बाल सखा कृष्ण के पास जाते हैं द्वारपाल उन्हें महल के द्वार पर रोक लेते हैं तो सुदामा अपना परिचय देते हैं इसके बावजूद द्वारपालों द्वारा सुदामा का उपहास उड़ाया गया।कृष्ण सुदामा के आने की सूचना पर नंगें पांव दौड़ कर आते हैं।भगवान कृष्ण-सुदामा को अपने साथ रथ पर बैठाकर महल के अंदर लेकर पहुंचे और मित्र को सिंहासन पर बैठाकर खुद नीचे बैठ गए।भगवान श्रीकृष्ण को नीचे बैठा देखकर उनकी रानियां भी दंग रह गई, कि कौन है जिन्हें भगवान सिंहासन पर बैठाकर खुद नीचे बैठे हैं। भगवान कृष्ण ने आंसुओं से मित्र के पैर धोए और पैर से कांटे निकाले।राजा परीक्षित के मोक्ष के प्रसंग का बखान करते हुए कथा वाचक ने कहा कि मोक्ष की कामना प्रत्येक मनुष्य करता है, लेकिन सभी को सही राह नहीं मिलती है। भागवत महापुराण कथा एक ऐसा मार्ग है जो प्रत्येक को मोक्ष की ओर ले जाती है। राजा परीक्षित को मिले श्राप से हुई मृत्यु के बाद भी कथा सुनने से उन्हें मोक्ष की प्राप्ति हुई थी।परीक्षित को ऋषि के श्राप के कारण तक्षक नाग ने काटा और उनके जीवन का अंत हो गया।कथा के प्रभाव से उन्हें मोक्ष प्राप्त हुआ और नाम अजर-अमर हो गया। कथा के पश्चात आयोजकों द्वारा आरती प्रसाद वितरण किया गया।इस अवसर पर शिवशंकर दुबे, त्रिभुवन नाथ दुबे, प्रमोद दुबे, मनोज दुबे, राहुल दुबे, दीपक दुबे, चेतन दुबे, केशव प्रसाद मिश्रा, विजय नाथ तिवारी, मूलचंद्र मिश्रा, आचार्य धीरज द्विवेदी, ओम नारायण दुबे, सरयू प्रसाद तिवारी, ब्रह्म प्रसाद तिवारी, आदित्य तिवारी, अजय तिवारी, प्रकाश दुबे, आकाश दुबे, प्रदीप दुबे, संदीप दुबे, डॉ प्रवीण दुबे, प्रकाश दुबे, विकास दुबे, दिलीप दुबे, अनुराग दुबे, अनुपम, राज, आयुष, आर्यन, यश, कृष्णा, खुशहाल, रुद्र, ध्रुव, वंश, वीर, अद्वैत सहित तमाम लोग मौजूद रहे।मुंबई के सुप्रसिद्ध गायक कलाकार मुकेश त्रिपाठी एवं शक्ति सिंह सिंह, अभिषेक उपाध्याय की संगीतमय मनमोहक प्रस्तुति से एक सप्ताह पूरा क्षेत्र भक्तिमय ?वातावरण से गुंजायमान हो उठा।

घर घर पहुंचेगा श्रीराम जन्मभूमि का पूजित अक्षत व रामलला दर्शन निमंत्रण

जंघई। श्रीराम जानकी मंदिर जंघई में संघ विचार परिवार जंघई मंडल के प्रमुख कार्यकताओं बैठक शुक्रवार को संपन्न हुई। श्रीराम जन्मभूमि प्राण प्रतिष्ठा के अवसर पर 1 जनवरी से 15 जनवरी तक राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ता व रामभक्त प्रत्येक घर में संपर्क करके श्रीराम लला के पूजित अक्षत को देकर दर्शन हेतु आमंत्रित करेगें।बैठक में खंड संघचालक हृदय नारायण ने कहा कि प्राण प्रतिष्ठा के अवसर पर प्रत्येक गांव में रामोत्सव, भजन व दीपोत्सव का कार्यक्रम करके प्रभु श्रीराम लला प्राण प्रतिष्ठा की खुशियां मनाई जाएगी।बैठक में राजेश सिंह राजू भाई साहब, अमित पाठक, विक्की जायसवाल, किशन पाठक, आयुष जायसवाल, मनोज मौर्य, सुनील जायसवाल, शंकर लाल, रोहित, आशीष, धीरज, सुजीत, पवन, महेंद्र, बंटी, नीरज आदि लोग उपस्थित रहे।

साहब कैसे हो गेहूँ की बुवाई नही मिल रहा खाद-पानी और दवाई

लालापुर। इन दिनों बारा तहसील क्षेत्र के किसानों की दुर्दशा पर किसी भी अधिकारी व जनप्रतिनिधि का ध्यान नही पड़ रहा है।क्षेत्र के किसानों को गेहू की बुवाई के समय नहरे बंद कर दी गयी है।क्षेत्र के पंडुवा गांव में यमुना नदी में स्थित कमला पम्प कैनाल को एक एक पखवाड़े से नहर व मायनरों की सफाई के नाम पर बंद कर दिया गया है।जिससे बिना पलेवा गेहूँ की बुवाई पीछे हो गयी है।जिससे किसानी प्रभावित हो जाएगी और फसल की उपज में भी गिरावट आएगी।साथ ही क्षेत्र के साधन सहकारी समितियों से खाद ,बीज ,दवाइयां भी गायब हो गयी है। लालापुर के किसान आशीष मिश्र ,चंद्र निधान पांडेय,गोइसरा के अखिलेश पांडेय, चिल्ला के किसान सुनील यादव,ब्रिजेश यादव,गिधार के मंगला प्रसाद तिवारी,अमिलिया के देवेंद्र उर्फ. राजू,पप्पू गर्ग,नौढ़िया के शेष नारायण दिवेदी,पंडुवा के दीपेश मिश्र,अबरार अहमद,प्रतापपुर के मुनकेश कुमार,राजेश मिश्र,भड्डे महराज,सेमरी तरहार के सूरज त्रिपाठी,पीएन श्रीवास्तव,डेराबारी के जगतराज पटेल ,वरिष्ठ समाज सेवी शेर सिंह ने बताया कि सरकार का रवैया किसानों के प्रति ठीक नहीं है।साथ ही उनके अधिकारी - कर्मचारियों की उदासीनता के चलते किसानों की दशा दयनीय हो गयी है।पहले से बुवाई के समय नहरों को बंद किया गया और क्षेत्र के साधन सहकारी समितियों पर डीएपी व यूरिया खाद भी गायब कर दी गयी है।जिससे क्षेत्र का किसान बिचौलियों के हाथों महंगे दामो पर खाद व बीज खरीदने को मजबूर हो गया है।किसानों ने मांग किया है की अगर एक सप्ताह के अंदर नहरों में पनी नहीं छोड़ा गया तो लोग सड़क पर आने को बाध्य होंगे।

कल्याणपुर मार्ग बना तालाब पूर्व में जा चुकी है कई जानें

पीडब्ल्यूडी विभाग गहरी नींद में सोया, ग्रामीणों में भारी आक्रोश

मऊआइमा। सोरांव से प्रतापगढ़ की ओर जाने वाली कल्याणपुर, हरखपुर, सरैंया आदि दर्जनों गांवों के लिए सड़क पर भरे पानी नरकीय हो गया है। उक्त मार्ग के दोनों ओर नाला न बनने से ग्रामीणों का जीना मुश्किल हो गया है। मिली जानकारी के अनुसार सोरांव के रामलीला मैदान से आयी कल्याणपुर, गदियानी, सरैंया, गदियानी,महरौंडा, हरखपुर, जोगीपुर, बालाडीह आदि होते हुए प्रतापगढ़ को जाने वाली सड़क इन दिनों जानलेवा साबित हो रही है। बताया गया है कि सड़क के दोनों ओर बने नाले उखाड़ गए हैं जिससे घरों का पानी और गत दिनों हुई बरसात से पूरा मार्ग ताल तलैया का रूप धारण कर लिया है। वाहनों के गुजरने पर उसके छींटें आस पास घरों पर पड रहे हैं।यही नहीं पूर्व में सड़क पर पानी भरे होने के कारण कई जानें जा चुकी है। ग्रामीणों ने पीडब्ल्यूडी विभाग से फरियाद लगाते लगाते अब कोस रहे हैं। ग्रामीणों ने शासन और प्रशासन से शीघ्र निर्माण की मांग की है।

ईश्वरदीन छेदीलाल इण्टर कालेज जसरा में नेत्र शिविर का हुआ आयोजन

जसरा। केसरवानी शिक्षा समिति की ओर से श्री ईश्वरदीन छेदीलाल इंटर कॉलेज जसरा में नेत्र शिविर का आयोजन किया गया। शिविर का शुभारंभ समिति के संस्थापक स्वर्गीय केदारनाथ गुप्त के चित्र पर माल्यार्पण के उपरांत प्रारंभ किया गया। उक्त शिविर में 100 से अधिक नेत्र रोगियों का नेत्र परीक्षण हरि नेत्रालय प्रयागराज की ओर से आए नेत्र चिकित्सक डॉ० राम सिंह एवं डॉ० मनोज। कुमार के द्वारा किया गया। परीक्षणोंपरांत कुल 16 मरीजों का चयन ऑपरेशन हेतु किया गया। सभी मरीजों को समिति की ओर से दवा, भोजन आदि की। निः शुल्क समुचित व्यवस्था की गई। विद्यालय के उप प्रबन्धक सतीश कुमार केसरवानी और प्रधानाचार्य डा० योगेंद्र सिंह ने रोगियों का स्वागत किया। इस अवसर पर शिक्षक कुलभूषण मिश्रा,विकास केसरी, सुनील साहू, अचलेन्द्र जायसवाल, जय सिंह, रामलखन प्रजापति, चन्द्रशेखर, सुरेश कुमार, राजकुमार, श्याम सिंह, श्याम जी आदि ने रोगियों का सहयोग किया।

अल्ट्राटेक सीमेंट द्वारा शिल्पकार संगम कार्यक्रम का आयोजन जंघई में

जंघई। अल्ट्राटेक सीमेंट द्वारा शुक्रवार को पांडेय बिल्डिंग मैटेरियल स्टोर जंघई में राज मिस्त्रियों एवं ग्राहकों के मध्य संगोष्ठी का आयोजन किया गया।जिसमें उपस्थित विशिष्ट अतिथियों एवं राज मिस्त्रियों को कंपनी द्वारा उपहार देकर सम्मानित किया गया। अल्ट्राटेक सीमेंट कंपनी के ग्राहक सेवा अधिकारी देवेश, अखिलेश द्वारा उपस्थित लोगों को सीमेंट की गुणवत्ता के बारे में जानकारी दी गई । इसके अलावा अल्ट्राटेक सीमेंट से बने हुए भवनों की मजबूती के बारे में विस्तारपूर्वक कई महत्वपूर्ण जानकारी दी गयी। इस अवसर पर पांडेय बिल्डिंग मैटेरियल के प्रोपराइटर विनोद पांडेय, बृजेश मिश्रा, हरिशचंद्र मिश्र, रोहित तिवारी, विजय मिश्रा, मनोज पांडेय, कृष्णा मिश्रा, बब्बू मिश्रा, गुंजन पांडेय, संजय पांडेय, अंकित पांडेय सहित तमाम लोग मौजूद रहे।

विधायक करछना ने पूर्व प्रधान के श्रद्धांजलि कार्यक्रम हुए शामिल

करछना। विधायक करछना पियूष रंजन निषाद शुक्रवार को ग्राम पंचायत भरहा में श्रंद्धाजलि सभा में पहुंचे विधायक पूर्वप्रधान राजेन्द्र प्रसाद की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर भावपूर्ण श्रद्धांजलि दी करछना तहसील के अंतर्गत ग्राम सभा भरहा के भूतपूर्व प्रधान एवम समाज सेवी राजेन्द्र प्रसाद पटेल के स्मृति शेष श्रध्दांजली दिवस पर कविओं ने उनकी जीवन परिचय का गुणगान किया इस मौके पर ग्राम सभा के वरिष्ठ जनों में नन्हे उर्फ लक्ष्मी शंकर,ओपी सिंह,गुलाब सिंह , डॉ अमरनाथ पटेल , विद्या भूषण डॉ विजय पटेल, अपना दल एस के राष्ट्रीय कार्यकारिणी के फूलचंद पटेल , मौजूद रहे इस मौके पर डॉ अमरनाथ पटेल के द्वारा रचित जीवन के सुर काव्य ग्रंथ भेट की इस मौके पर गांव के गणमान्य लोग उपस्थित रहे।

प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के अन्तर्गत कैबिनेट मंत्री ने किया भूमि पूजन व बांटे स्वीकृति पत्र

अखंड भारत संदेश

प्रयागराज। शुक्रवार को विकसित भारत संकल्प यात्रा कार्यक्रम में प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के अन्तर्गत 5026 नये स्वीकृत आवासों के भूमि पूजन एवं स्वीकृति पत्र वितरण का कार्यक्रम मुख्य अतिथि नंद गोपाल गुप्ता 'नन्दी जी', कैबिनेट मंत्री, उत्तर प्रदेश सरकार व अन्य जन प्रतिनिधियों की गरिमामयी उपस्थित में राम लीला ग्राउंड छीयूँकी रेलवे स्टेशन के पास किया गया । माननीय मंत्री जी द्वारा लाभार्थियों को संबोधित करते हुए बताया गया कि इस क्षेत्र में 597 नए आवासों की स्वीकृति के सापेक्ष आज भूमि पूजन का कार्यक्रम किया जा रहा है । उक्त कार्यक्रम में मुख्य अतिथि जी द्वारा श्रीमती कोमल और श्रीमती संतोष कुमार सिंह श्रीमती आशा यादव श्रीमती किरन यादव एवं श्रीमती इंदू के आवासों का भूमि पूजन किया गया एवं स्वीकृति पत्र वितरण किया गया ।उक्त कार्यक्रम में पार्षदगण के अतिरिक्त अरविंद राय, अपर नगर आयुक्त, नगर निगम, श्रीमती वर्तिका सिंह ,परियोजना अधिकारी, डूडा, शहर मिशन प्रबंधक, सामुदायिक आयोजक, डूडा टीम योजनाओं के लाभार्थियों व अन्य लोग उपस्थिति रहे।

कड़ाही में गिरने से मासूम बच्चे की मौत, मचा कोहराम

मांडा मे परनानी के तेरहवीं में शामिल होने आया था नाती

मांडा-प्रयागराज। क्षेत्र के मांडा खास (पहाड़ी पर)निवासी अनिल कुमार यादव की दादी सोना देवी का 26 नवम्बर को देहान्त हो गया था। जिनकी तेरहवीं का कार्यक्रम 8 दिसम्बर को होना था। तेरहवीं कार्यक्रम के लिए भोजन , मिष्ठान आदि की तैयारी चल रहा था कि सात दिसम्बर को अचानक अनिल कुमार यादव का भांजा छह वर्षीय छोटू यादव उबल रहा मिठाई बुदिया के बर्तन में गिर गया।

उक्त दौरान आनन फानन में उसे नजदीकी अस्पताल में इलाज के लिए ले जाया गया। जहां कि डॉक्टर ने मासूम बच्चे को मृतक घोषित कर दिया। घटना की जानकारी पर मासूम बच्चा के घर व ननिहाल में कोहराम मच गया। वहीं बच्चे की मां निशा यादव, पिता भीम यादव का रो रो कर बुरा हाल हो गया है। तेरहवीं का कार्यक्रम पुनः मातम में बदल गया और हर कोई के आंखे नम हो गई।

थाने में किशोरियों को सशक्ति एवं निडरता का पढ़ाया गया पाठ

यूनिसेफ के सौजन्य से दर्जनों बच्चियों को सरायइनायत थाना व पोस्ट आफिस का कराया गया विजिट

अखंड भारत संदेश

हनुमानगंज। यूनिसेफ द्वारा संचालित नई पहल (बाल संरक्षण) परियोजना के अंतर्गत शुक्रवार को एक्शन एड एसोसिएशन द्वारा दर्जनों किशोरियों को सरायइनायत थाने का भ्रमण कराया गया। पुलिस कर्मियों द्वारा बच्चियों के मन से पुलिस का डर दूर करते हुए उन्हें मित्रवत सशक्त एवं निडर बनने की शिक्षा दी गई। बहादुरपुर ब्लॉक के नीबी कलां, छिबैयां, रामनगर, दरियापुर उर्फ गुलालपुर तथा कांदी ग्राम पंचायत की करीब तीन दर्जन बच्चियां थाने पर पहुंची थी। किशोरियों को उपनिरीक्षक अनीस भरद्वाज ने पुलिस एवं थाने की दिनचर्या के बारे में बताया। यह भी बताया कि बच्चियां कैसे छेड़छाड़, बाल हिंसा, लैंगिक हिंसा, यौन हिंसा, बाल अपराध, घरेलू हिंसा आदि से निडरतापूर्वक सामना करते हुए अपराधिओं को पास्को एक्ट, जेजे एक्ट व महिला उत्पीडन एक्ट आदि की धाराओं में सजा दिला सकती है। दारोगा अनीस भरद्वाज ने बच्चियों को मोबाइल का सही उपयोग करने, सोशल मीडिया के दुरुपयोग से बचने तथा साइबर क्राइम के बारे में भी जागरूक किया। महिला डेस्क की कांस्टेबल पूजा शर्मा ने महिला हेल्पलाइन 1090, मुख्यमंत्री हेल्पलाइन 1076, एम्बुलेंस 108, फायर हेल्पलाइन 101 आदि की जानकारी दी। उन्हें यह भी बताया कि शिकायतकर्ता का नाम व पहचान गुप्त रखकर शिकायत का समाधान किया जाता है। जिला समन्वयक रवि कुमार ने पोस्ट आफिस की कार्यप्रणालियों से भी बच्चों को अवगत कराया। रवि कुमार ने बताया बच्चों को बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम, बाल श्रम प्रतिषेध अधिनियम, बाल तस्करी, घरेलू हिंसा, बाल हिंसा, लैंगिक हिंसा, यौन हिंसा व बाल अपराध की जानकारी दी गई है।

न्यूज झरोखा

खड़ी ट्रक में घुसी अनियंत्रित कार चालक घायल

सहसों। भोपतपुर नेशनल हाईवे टोल प्लाजा के पास खड़ी ट्रक में कौशांबी की तरफ से आ रही तेज रफ्तार कार घुस जाने से कार चालक गंभीर रूप से घायल हो गया। स्थानीय लोगों ने परिजनों को सूचित करते उपचार हेतु पास के निजी चिकित्सालय में भर्ती कराया। प्राप्त जानकारी के अनुसार अंकित सिंह पुत्र राम सिंह उम्र 35 वर्ष निवासी मनिकापुर थाना सराय इनायत ने कार द्वारा नेशनल हाईवे से कौशांबी की तरफ से शुक्रवार को दोपहर 2 बजे अपने घर वापस आ रहे थे। जैसे ही वह अपनी कार से थरवई थाना क्षेत्र के भोपतपुर नेशनल हाईवे टोल प्लाजा के समीप पहुंचे कि कार अनियंत्रित होकर खड़ी ट्रक में पीछे की तरफ से जा घुसी जिससे सिर, नाक व हांथ में चोट लग जाने से वह गंभीर रूप से घायल हो गए। मौके पर पहुंचे स्थानीय लोगों ने थरवई पुलिस व परिजन को सूचित करते पास के ही निजी चिकित्सालय में उपचार के लिए भर्ती कराया। थरवई पुलिस मौके पर पहुंचकर लिखा पढ़ी करते हुए जांच पड़ताल किया।

वोटर लिस्ट में नाम बढ़वाने को चलाया वृहद अभियान

प्रयागराज। मीरपुर में लोगों को जागरुक करते हुए मतदाता सूची में नाम बढ़वाने के उद्देश्य से चल रहे वोटर चेतना अभियान के तहत मीरापुर मंडल में विद्यालयों में एवम जनसंपर्क के माध्यम से घर घर जाकर जिनका नाम अभी तक नही जुड़ पाया है उनका नाम मतदाता सूची में जोड़ने के लिए फॉर्म भरवाने का कार्य किया गया। जनसंपर्क में प्रमुख रूप से महानगर उपाध्यक्ष एवं जिला मतदाता सूची प्रमुख प्रमोद जयसवाल मोदी, मंडल मतदाता सूची प्रमुख अनिल पांडेय, वार्ड अध्यक्ष सुभाष तिवारी, शक्ति केंद्र संयोजक अरुण निषाद, सोशल मीडिया संयोजक मधुमिता नाथ, रंजित इत्यादि उपस्थित रहे।

भदोही के पूर्व सांसद का राजापुर, मांडा में स्वागत

मांडा। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत पुनःविश्व गुरु बनने की दिशा में अग्रसर है मोदी जी ने देश के गरीब किसान वंचितों के उत्थान के साथ ही दुनिया में देश का मान सम्मान बढ़ाने का काम किया । उक्त बातें मिजार्पुर भदोही के पूर्व सांसद नरेंद्र कुशवाहा ने राजापुर मांडा में कार्यकताओं को संबोधित करते हुए कहा पूर्व सांसद कुशवाहा ने तीन दिन पूर्व ही बसपा छोड़कर लखनऊ में भाजपा की सदस्यता ग्रहण करने के बाद राजापुर आगमन पर भाजपा नेता भगवान दास कुशवाहा के नेतृत्व में स्वागत किया गया। इस अवसर पर भाजपा जिला महामंत्री विक्रमादित्य मौर्य, रामराज मौर्य ,राम सुख कुशवाहा, राजापुर प्रधान राजू सिंह, धर्मदास मौर्य, अजय कुशवाहा , जगदीश पासी , श्याम दास एडवोकेट आदि मौजूद रहे।

पुष्प वाटिका के श्रृंगारिक प्रसंग सुनकर भावविह्वल हुए श्रोता

अभिमन्यु शाखा पार्क में सेवा भारती प्रयागराज विभाग की ओर से आयोजित नौ दिवसीय श्रीराम कथा का चौथा दिन

अखंड भारत संदेश

नैनी। नैनी सेवा भारती प्रयागराज विभाग की ओर से नैनी के अभिमन्यु शाखा पार्क में आयोजित नौ दिवसीय श्री रामकथा अमृत वर्षा के चौथे दिन बड़ी संख्या में श्रोता पहुंचे। कथा में कथावाचक आचार्य शांतनु जी महाराज ने विभिन्न प्रसंगों का वर्णन कर सभी को भावविभोर कर दिया। कथा में कथावाचक शांतनु महाराज ने कहा कि गुरुदेव विश्वामित्र जी के साथ भगवान राम और लक्ष्मण जनकपुर में प्रवेश किए। जनकपुर क्या है, जनकपुरी विशेष प्रकार का नगर है जिसमें साक्षात भक्ति महारानी बैठी और भगवान भक्ति को प्राप्त करने के लिए जा रहे हैं। इसलिए जब भी जीवन में भक्ति अध्यात्म की यात्रा करनी हो तो गुरु का सानिध्य चाहिए। भगवान राम और लक्ष्मण जनकपुर भ्रमण के लिए गुरु की आज्ञा से चले और इनके इस रूप को देखकर पूरे जनकपुर में शोर हो गया। भगवान ने सब को दर्शन देकर आनंदित किया। पुष्प वाटिका के श्रृंगारिक प्रसंग को सुनाते हुए महाराज जी ने कहा पुष्पवाटिका वह स्थल है जहां पर भगवान और भक्ति का पहली बार मिलन हुआ, जिनको भी भगवान का दर्शन करना है उनको बाग में आना ही पड़ेगा और बाग मानस में संतों की सभा को कहा है। जब भगवान का प्रवेश हुआ तो सभी राजा अपनी भावना के अनुसार भगवान का दर्शन करने लगे। धनुष यज्ञ के प्रसंग में का सुंदर विवाह महाराज जनक के आंगन में हुआ। भगवान और भक्ति का मिलन हो गया और सखियों ने मंगल गीत गाकर बधाई दी। महाराज जी ने जानकी के विदाई प्रसंग में कहा कि बेटियां ही घर की लक्ष्मी होती है। चौथे दिन के यजमान रामजी मिश्र, पृथ्वीपाल सिंह, सत्यविजय, प्रमोद मिश्र सपत्नीक रहे। इस अवसर पर विश्व हिंदू काशी प्रांत अध्यक्ष पूर्व आईजी केपी सिंह, सेवा भारती प्रयागराज विभाग के प्रमुख सुजीत सिंह, अरविंद जी, महापौर गणेश केसरवानी, गुरुप्रकाश राव, सत्य प्रकाश मिश्र, अरवल बिहार के जिला पंचायत अध्यक्ष संध्या देवी, प्रतिनिधि सुधीर शर्मा, मंटू सिंह, विनय सिंह, मोनू सिंह, बंटी बाबू बिहार, टुनटुन पांडे, दयाराम पाल, राजन शुक्ल, नीरज त्रिपाठी, बलभद्र पांडेय रहे।

भारतगंज में निकाली गई विकसित भारत संकल्प यात्रा जागरूकता रैली

अखंड भारत संदेश

मांडा। शासन द्वारा योजनाओं के संतृप्तीकरण के लिए आउटरीच गतिविधियों के माध्यम से जनजागरूकता बढ़ाने के लिए 15 नवम्बर 2023 से 26 जनवरी 2024 तक विकसित भारत संकल्प यात्रा का आयोजनजिलाधिकारी के निर्देशानुसार निर्धारित 8 दिसम्बर 2023 को नगर पंचायत भारतगंज द्वारा विकसित भारत संकल्प यात्रा के माध्यम से सक्रिय जनभागीदारी के माध्यम से जन सुविधाओं व सरकारी योजनाओं का लाभ कमजोर लोगों तक प्रभावी ढंग से पहुँचाने हेतु जागरूक किया गया। संकल्प यात्रा में सरकार द्वारा संचालित प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी), पी0एम0 स्वानिधि योजना, पी0एम0 विश्वकर्मा योजना आदि योजनाओं से लोगों को जागरूक किया गया। नगर विकास विभाग द्वारा संचालित योजनाओं का लाभ संकल्प यात्रा के माध्यम से वंचितों, कमजोरों एवं पात्र लोगों तक पहुँचे, इस पर विशेष रूप से प्रकाश डाला गया। संकल्प यात्रा में ई0ओ0 बंटी कुमारी, लिपिक चंदन कुमार पटेल, कम्प्यूटर आपरेटर समशाद अहमद, विनोद कुमार, अफरोज, राज, शशिभूषण, मो0 हुसैन, मानिक चन्द, मो0 शाहिद, आदि लोग मौजूद रहे।

धूमधाम से मनाया गया एमपी बिरला शिक्षा भवन का वार्षिकोत्सव

झूंसी। छतनाग स्थित एमपी बिरला एवं शिक्षा भवन एवं इण्टर कालेज का 36 वाँ स्थाप ?ना दिवस शुक्रवार को बड़े ही धूमधाम एवं हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित महापौर गणेश केसरवानी ने सरस्वती प्रतिमा पर माल्यार्पण कर कार्यक्रम का आरंभ किया। कक्षा 6 से 8 के बच्चों के नृत्य की मनमोहक प्रस्तुति दी। जिसके बाद सांस्कृतिक कार्यक्रम, योगा, पीटी के बाद खेल में शामिल छात्र-छात्राओं को सम्मानित किया गया। मुख्य अतिथि ने प्रथम विजेता ग्रीनहाउस को शील्ड देकर सम्मानित किया। तत्पश्चात प्रबंधक नीलिमा वर्मा, प्रधानाचार्य रीता पांडे ने महापौर गणेश केशरवानी को बुके देकर सम्मानित किया। उप प्रधानाचार्य सुरेंद्र शर्मा वार्षिकोत्सव समारोह में उपस्थित सभी का आभार प्रकट किया। आखिर में प्रथम विजेता ग्रीन हाउस को शील्ड प्रदान किया गया। इस अवसर पर पार्षद छतनाग शिवनारायण यादव घुंनु, संस्कार सहित समस्त शिक्षक गण उपस्चित रहे।

एटीएम से 14 हजार का हुआ फ्राड

झूंसी। सिविल लाइंस की रहने वाली नीतू सिंह के एटीएम से शातिरो ने झूंसी के एक एटीएम बूथ से सारा एकाउंट खाली कर दिया। पीड़ित की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर सीसी टीवी फुटेज खगाल रही है। नीतू सिंह के पति रविश कुमार सिंह ने पुलिस से लिखित शिकायत करते हुए बताया कि वह अपनी पत्नी का एटीएम लेकर झूंसी के लाल चौक पर स्थित एक एटीएम बूथ से पैसे निकालने गए थे एटीएम कार्ड मशीन में फस गया। काफी प्रयास के बाद नही निकला उन्होंने ने बैंक में कस्टमर केयर के माध्यम से कंप्लेन कर चले गए थोड़ी देर बाद मैसेज आया कि खाते से 14 हजार निकल गए। रविश भाग कर एटीएम बहुचे वहा न तो एटीएम कार्ड मिला न ही कोई आदमी मिला। पीड़ित की शिकायत पर पुलिस माला दर्ज कर जांच कर रही है।

जल शक्ति मंत्री द्वारा 'गंगा सम्मान' से सम्मानित हुई एषा सिंह

अखंड भारत संदेश

प्रयागराज। प्रदेश में गंगा और उसकी सहायक नदियों की अविरलता, निर्मलता एवं संरक्षण हेतु पृथक-पृथक जनपदों से गंगा व सहायक नदियों के लिए उत्कृष्ट कार्य कर रही महिलाओं को राज्य सरकार द्वारा 'गंगा सम्मान' से राजधानी लखनऊ में सम्मानित किया गया। माननीय मंत्री स्वतंत्र देव सिंह द्वारा यह सम्मान प्रदान किया गया। प्रयागराज जनपद से गंगा स्वच्छता, संरक्षण एवं अन्य सामाजिक कार्यों में अपना अमूल्य योगदान देने के लिए एषा सिंह को 'गंगा सम्मान' प्रदान किया गया। जिला गंगा समिति वन विभाग में जिला परियोजना अधिकारी नमामि गंगे पद पर है । कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि प्रमुख सचिव नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति विभाग अनुराग श्रीवास्तव एवम परियोजन निदेशक डॉक्टर बलकार सिंह मौजूद रहे । गंगा सम्मान के मौके पर जलशक्ति मंत्री ने कहा नदियों का संरक्षण रखना हम लोग का कर्तव्य है। राज्य सरकार ने निर्मल गंगा अविरल गंगा जन गंगा जैसे प्रमुख पहलुओं पर ध्यान करते हुए एक सराहनीय कार्य और मिशन संचालन किया है। गंगा स्वच्छता पर कार्य कर रही नारी शक्ति व मातृ शक्ति का अभिनंदन और सराहना करते है जिनके साथ अथक प्रयासों से पूर्ण समर्पण से गंगा स्वच्छता में व्यापक परिवर्तन आया है' पिछली कई वर्षो से निरंतर सामाजिक कार्य में अपना योगदान देने वाली एषा सिंह ने नमामि गंगे परियोजना के अंर्तगत विभिन्न जन जागरूकता कार्यक्रम कराए जिसमें मुख्य रूप से गंगा किनारे गांवों के युवाओं को गंगा स्वच्छता एवं संरक्षण हेतु चौपल, प्रभात फेरी, नुक्कड़ नाटक, विभिन्न स्कूलों में प्रतियोगिताएं, कार्यशालाएं, गंगा आरती, श्रमदान आदि रहे। जिला गंगा समिति के पर्यावरण संबंधित महत्वपूर्ण कार्यक्रम को आयोजित कर लोगों को गंगा स्वच्छता में सक्रिय योगदान करने हेतु प्रेरित करने का सरहनीय प्रयास किया है।

जीटी रोड से बसमहुआ व हाईवे लिंक मार्ग खस्ताहाल, राहगीर बेहाल

सहसों। सहसों चौराहा से फाफामऊ जीटी रोड स्थित बसमहुआ, कादीपुर गांव व नेशनल हाईवे एन एच 19 से जोड़ने वाली संपर्क मार्ग बेहद खस्ताहाल हो चुकी है। जिससे ग्रामीण, किसान सहित अन्य राहगीर आए दिन दलदल हो चुकी मार्ग पर फंसकर, गिरकर चोटिल होते हुए घायल हो रहे हैं। जानकारी के अनुसार इस मार्ग की मरम्मत लगभग 30 वर्षों से नहीं कराई गई है। उधर गांव गांव में बन रहे जल जीवन मिशन के अंतर्गत पानी की टंकी से सप्लाई के लिए पाइपलाइन बिछाने के लिए मार्ग के दोनों तरफ खुदाई करके छोड़ दिया गया है। जोकि इधर दो दिनों से हुई बरसात के कारण बची खुची सड़क भी दलदल में तब्दील हो गई। जिससे दैनिक जीवन से जुड़े व्यवसाय, विद्यालय एवं किसी आकस्मिक जरूरत पड़ने पर अस्पताल जाने के लिए आवागमन पूरी तरह से बाधित हो गई है। जबकि इस मार्ग से भारी संख्या में खेतों में काम करने के लिए किसान, विद्यालय जाने के लिए बच्चे सहित आम राहगीर हलाकानी के शिकार हो रहे हैं। मार्ग पर चार पहिया, दो पहिया, तीन पहिया, बाइक व साइकिल से चलना तो दूर लोगों का पैदल चलना भी दुश्वार हो रहा है। इस संबंध में कई बार ग्रामीणों ने समय-समय पर ग्राम प्रधान, क्षेत्रीय विधायक, सांसद व लोक निर्माण विभाग के जिम्मेदार अधिकारियों को कार्यालय पर जाकर मौखिक तथा लिखित शिकायत कर चुके हैं परंतु किसी की नजर इस मार्ग पर नहीं पड़ रही है। पिछले वर्ष भी बारिश के कारण इस मार्ग की हालत खराब हो चुकी थी जिस पर लोगों द्वारा उप जिलाधिकारी फूलपुर को अवगत कराया गया था तथा दो बार किसान सभा द्वारा ज्ञापन भी सोपा गया था। परंतु अब तक किसी ने भी इस मार्ग की जिम्मेदारी नहीं ली है।

भू-माफियाओं नाला की जमीन पर ने किया अवैध कब्जा

ग्रामीणों ने एसडीएम से की शिकायत

झूंसी। फूलपुर तहसील क्षेत्र के नैका कनिहार गांव में भूमाफियाओं द्वारा अवैध तरीके से नाला की जमीन पर कब्जा कर पक्का निर्माण कराया जा रहा है। ग्रामीणों ने फूलपुर एसडीएम को शिकायती पत्र देकर अतिक्रमण ध्वस्त कराने की मांग की है। ग्रामीणों के मुताबिक अतिक्रमण किया जा रहा नाला काफी पुराना है। उक्त नाला न सिर्फ दर्जनों गांवों के जल निकासी का मुख्य स्रोत है बल्कि फूलपुर इफको फैक्ट्री से निकलने वाला जल भी इसी नाले से होकर गंगा नदी में समाहित होता है। उक्त ऐतिहासिक नाले पर किए जा रहे अतिक्रमण का विरोध करते हुए उपजिलाधिकारी को शिकायती पत्र देकर भूमाफियाओं के विरुद्ध कार्रवाई की मांग की है।

लिया संकल्प भारत को बनायेंगे आत्मनिर्भर विकसित राष्ट्र

जन-जन से विकास योजनाओं का लाभ उठाने की अपील

अखंड भारत संदेश

शंकरगढ़। केंद्र सरकार की तरफ से निकाली गई विकसित भारत संकल्प यात्रा शुक्रवार को यमुनापार के शंकरगढ़ में थी। प्रथम पहर में क्षेत्र के मवइया पहलवान और दूसरे पहर अकौरिया में जनसभा के माध्यम से ग्रामीणों को विभिन्न योजनाओं की जानकारी देने के साथ-साथ उनका लाभ उठाने का आह्वान किया गया। एलईडी स्क्रीन वाले प्रचार वाहन के जरिए लोगों को लाभ उठाने का प्रोसेस भी समझाया गया, साथ ही भारत को आत्मनिर्भर और विकसित राष्ट्र बनाने की शपथ भी दिलाई गई। प्रयागराज सांसद डा. रीता बहुगुणा जोशी के प्रतिनिधि के रूप में आलोक गुप्ता ने संकल्प यात्रा का स्वागत किया और यात्रा से जुड़े विभिन्न पहलुओं पर रोशनी डाली। आलोक गुप्ता ने कहा कि किसी भी योजना के संचालन का उद्देश्य तभी पूरा होता है, जब वह पात्रों के काम आए। विकसित भारत संकल्प यात्रा इसी उद्देश्य को पूरा करने के लिए निकाली गई है। आलोक ने कहा, केंद्र और प्रदेश सरकार के द्वारा हर वर्ग और क्षेत्र की जरूरतों के अनुसार विविध प्रकार की योजनाओं का संचालन किया जा रहा है। जरूरत है कि उसके प्रचार-प्रसार और उसका लाभ जन-जन तक पहुंचाने की। ग्राम विकास अधिकारी बलवंत सिंह ने संकल्प यात्रा के स्वागत में आए ग्रामीणों को उन्होंने ग्रामीण आजीविका मिशन, आवास, पेंशन, उज्ज्वला, मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना, आयुष्मान कार्ड, गर्भवती महिलाओं को मिलने वाली सुविधाओं, विधवा-विकलांग पेंशन आदि की जानकारी दी।मवइया पहलवान में निर्मित अमृत सरोवर पर आयोजित कार्यक्रम में राजस्व, स्वास्थ्य, विकास, शिक्षा विभाग के द्वारा लोगों को जागरुक किया गया। इसी क्रम में अकौरिया में भी विकसित भारत संकल्प यात्रा का जोरदार स्वागत किया गया। मवइया पहलवान में एडीओ सहकारिता लल्लन प्रसाद, वीडीओ बलवंत चौहान, कृषि विभाग से अनिल कुमार, केशव प्रसाद, स्वास्थ्य विभाग से अभिषेक जायसवाल, सिंधू सिंह, गुलाब सिंह, भुवाल सिंह, शेख असलम, अखिलेश, मनीष राजेंद्र सिंह समेत तमाम लोग मौजूद रहे।

तेजी से रामपुर खास के विकास से जुड़ी हर योजनाओं का जारी रहेगा संचालनः मोना

जनसमस्याओं पर विधायक ने की सुनवाई

अखंड भारत संदेश

लालगंज, प्रतापगढ़। क्षेत्रीय विधायक एवं कांग्रेस विधानमण्डल दल की नेता आराधना मिश्रा मोना ने शुक्रवार को अपने निर्वाचन क्षेत्र का दौरा कर क्षेत्र में संचालित हो रही विकास योजनाओं की प्रगति का जायजा लिया। वहीं विधायक आराधना मिश्रा ने जगह जगह लोगों से मुलाकात कर जन समस्याओं की भी जानकारियां ली और इनके निदान कराए जाने का लोगों को भरोसा दिलाया।

विधायक आराधना मिश्रा ने एकादशी पर बाबा घुइसरनाथ धाम पहुंचकर देवाधिदेव महादेव तथा श्री तिरूपति बालाजी महराज के समक्ष भी जनकल्याण की कामना के साथ

जनसमस्याओं की सुनवाई करती विधायक मोना।

मत्था टेका। यहां संत महात्माओं व श्रद्धालुओं द्वारा विधायक मोना के द्वारा हालिया विधानसभा सत्र में धार्मिक स्थलों के विकास के लिए प्रदेश में वृहद प्राधिकरण बनाए जाने से सम्बन्धित सदन में दिये गये वक्तव्य की जमकर सराहना की। विधायक मोना ने विधानसभा में धार्मिक स्थलों के सांस्कृतिक तथा पर्यटन को आध्यात्मिक महत्वता को दृष्टिगत रखते हुए अलग अलग प्राधिकरणों की जगह एक मुश्त वृहद प्राधिकरण के गठन में आस्था की स्थली बाबा घुइसरनाथ धाम के भी विकास से जुडी जनआकांक्षाओं को शामिल किये जाने पर जोर दिया है। बाबा घुइसरनाथ धाम के धार्मिक एवं सांस्कृतिक तथा पर्यटन से जुड़ी जनसुविधाओं के विकास को बडे प्राधिकरण में शामिल कराए जाने के आराधना मिश्रा मोना के द्वारा विधानसभा में सरकार को दिये गये सुझावों को लेकर यहां लोग प्रसन्नचित भी देखे गये।

वहीं विधायक मोना का जिले की सीमा अगई मोड पर कार्यकताओं द्वारा गर्मजोशी से स्वागत भी हुआ दिखा। वह अर्जुनपुर तथा करमाईन गांव भी पहुंची और लोगों को भरोसा दिलाया कि रामपुर खास के निरंतर विकास में हर जरूरी परियोजनाएं इसी तेजी के साथ संचालित होती दिखेंगी। लालगंज नगर में विधायक आराधना मिश्रा मोना कांग्रेस विधि प्रकोष्ठ के अध्यक्ष सत्येन्द्र बहादुर लाल श्रीवास्तव के संयोजन में आयोजित कार्यक्रम में भी शामिल हुई। इस मौके पर ब्लाक प्रमुख इं. अमित सिंह पंकज, प्रतिनिधि भगवती प्रसाद तिवारी, चेयरपर्सन प्रतिनिधि संतोष द्विवेदी, पप्पू तिवारी, आशीष उपाध्याय, पूर्व प्रमुख ददन सिंह, छोटे लाल सरोज, रोहित शुक्ल, प्रीतेन्द्र ओझा, सांगीपुर प्रमुख अशोक सिंह, सुधाकर पाण्डेय, मुरलीधर तिवारी, अभिनव शुक्ला, सत्येन्द्र सिंह, राजू मिश्र, दारा सिंह, पवन शुक्ला, प्रभात ओझा आदि रहे। वहीं मीडिया प्रभारी ज्ञानप्रकाश शुक्ल के मुताबिक कांग्रेस विधानमण्डल दल की नेता आराधना मिश्रा मोना आज शनिवार को सवा दो बजे लालगंज कैम्प कार्यालय पर जनसमस्याओं का निराकरण करेंगी।

कथा में भगवान जगन्नाथ की महिमा का गुणगान सुनकर मंत्रमुग्ध हुए श्रद्धालु

देवली में भजन संकीर्तन के साथ श्रीमदभागवत कथा का हुआ विश्राम

अखंड भारत संदेश

लालगंज, प्रतापगढ़। लीलापुर क्षेत्र के सेनानी ग्राम देवली में श्रीमदभागवत कथा में शुक्रवार को श्रद्धालु भगवान श्री जगन्नाथ जी की महिमा का गुणगान सुनकर मंत्रमुग्ध हो उठे। जगन्नाथपुरी धाम से पधारे स्वामी श्री इन्दिरारमणाचार्य पीठाधीश्वर ने कहा कि मनुष्य को जीवन में मयार्दा पुरूषोत्तम श्रीराम तथा भगवान श्रीकृष्ण की कर्मसाधना के संदेश को आत्मसात करना चाहिए।

उन्होंने कहा कि भगवान श्रीजगन्नाथ जगत के कल्याण और जगत के पालन के लिए हमें निष्काम निर्मल मन से प्रभु आराधना का शाश्वत संदेश दिया है। कथा के समापन दिवस पर भगवान को समर्पित मनमोहक भजनों पर श्रद्धालु मगन दिखे। कथा के दौरान स्वामी श्री योगेश्वराचार्य, आचार्य प्रभाकर, आचार्य राहुल, पूर्व मंत्री अवधेश मिश्र का संयोजक धमार्चार्य ओमप्रकाश पाण्डेय अनिरूद्ध रामानुजदास ने सम्मान किया। इस मौके पर रामकृष्ण मिश्र, राघवेन्द्र शुक्ल, हरिहर ओझा, जवाहर लाल, कृष्ण कुमार दुबे, सौरभ दुबे, सर्वेश उपाध्याय, सरला ओझा, निर्मला समदरिया आदि रहे।

रोजगार मेले का आयोजन 12 को

अखंड भारत संदेश

प्रतापगढ़। जिला सेवायोजन अधिकारी ने बताया है कि जिला सेवायोजन कार्यालय प्रतापगढ़ परिसर में दिनांक 12 दिसम्बर 2023 को पूर्वान्ह 10 बजे से रोजगार मेले का आयोजन किया गया है जिसमें निजी क्षेत्र की कम्पनियों क्रमशः बजाज कैपिटल इन्श्योरेन्स ब्रोकिंग लिमिटेड द्वारा जनपद प्रतापगढ़, सुल्तानपुर, प्रयागराज में सेल्स एक्जीक्यूटिव के पद पर एवं एलआईसी ऑफ इण्डिया द्वारा प्रतापगढ़ में इन्श्योरेन्स एडवाइजर के पद पर बेरोजगार अभ्यर्थियों का चयन किया जाना है। रोजगार मेले में प्रतिभाग करने हेतु सेवायोजन पोर्टल पर पंजीकरण होना अनिवार्य है। इच्छुक अभ्यर्थी मेले में अपने साथ पंजीयन प्रपत्र, मूल शैक्षिक प्रमाण पत्र, सी0वी0 एवं पासपोर्ट साइज फोटो के साथ सम्मिलित हो सकते है। अधिक जानकारी हेतु किसी भी कार्य दिवस में जिला सेवायोजन कार्यालय में सम्पर्क कर सकते है।

लूट के दो आरोपियों को पुलिस ने दबोचा, आठ हजार रुपये बरामद

अखंड भारत संदेश

प्रतापगढ़। पुलिस अधीक्षक सतपाल अंतिल एवं अपर पुलिस अधीक्षक पश्चिमी रोहित मिश्रा एवं सीओ सदर अमरनाथ गुप्ता के निर्देश पर जेठवारा पुलिस लूट के मामले में फरार चल रहे अभियुक्त को कस्टडी में लेकर उनके निशानदेही पर आठ हजार रुपये बरामद करते हुए पुलिस ने दो अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है।

थाना अध्यक्ष अभिषेक सिंह सिरोही उप निरीक्षक विनीत उपाध्याय की पुलिस टीम की सतर्कता के वजह से शतिर लुटेरे पुलिस के गिरफ्त में आए। बता दें कि सीओ सदर अमरनाथ गुप्ता को मुखबिर द्वारा सूचना प्राप्त हुई की शतिर लुटेरे जेठवारा थाना क्षेत्र के जूड़ापुर नहर पटरी के पास खड़े होकर आपस में बात कर रहे हैं सीओ ने तुरंत प्रभारी निरीक्षक को सूचना दिया तुरंत मौके पर पुलिस ने पहुंचकर अभियुक्त को धर दबोचा।

गिरफ्तार किए गए अभियुक्तों में खुर्शीद अहमद पुत्र लतीफ व एकलाख पुत्र मुस्ताक बताया जा रहा है। पुलिस इनसे पूछताछ कर रही है। उधर पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ श्री सतपाल अंतिल के कुशल निर्देशन में अपराध एवं अपराधियों पर अंकुश लगाने हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में जनपद के थाना देल्हूपुर के उ0नि0 उमाशंकर सिंह मय हमराह द्वारा देखभाल क्षेत्र/चेकिंग के दौरान थानाक्षेत्र देल्हूपुर के चाँदपुर मोड़ के पास से एक व्यक्ति संदीप पटेल पुत्र रामबहादुर पटेल निवासी ग्राम कटवर सिंधौर थाना लीलापुर जनपद प्रतापगढ़ को 01 अदद नाजायज तमन्चा 12 बोर 02 अदद जिन्दा कारतूस 12 बोर, एक अदद प्लेटिना यूपी 72 एस 7883 मोटर साइकिल के साथ गिरफ्तार किया गया। मोटर साइकिल को धारा 207 एमवी एक्ट में सीज किया गया। उक्त बरामदगी के सम्बन्ध में अभियुक्त के विरुद्ध थाना देल्हूपुर में मु0अ0सं0 190/2023 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट व 207 एमवी एक्ट अभियोग पंजीकृत किया गया है।

तोड़फोड़ व धमकी को लेकर चार पर दर्ज हुआ मुकदमा

अखंड भारत संदेश

लालगंज, प्रतापगढ़। रंजिश में हुई तोडफोड व धमकी की घटना को लेकर पुलिस ने चार लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। लालगंज कोतवाली के पयागीपुर निवासी अजय प्रताप पुत्र स्वर्गीय पितईराम ने पुलिस को दी गई तहरीर में कहा है कि रंजिश को लेकर गांव के संतोष व शिवमूरत पुत्रगण रामलाल तथा रामलाल व श्यामलाल पुत्रगण दमई छः दिसंबर को सुबह आठ बजे उसे गाली देने लगे। पीड़ित के विरोध करने पर आरोपियों ने जान से मारने की धमकी दी और उसकी लोहे की सरिया को तोड़कर क्षतिग्रस्त कर दिया। घटना की जांच के बाद गुरूवार की रात पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है।

किसानों की समस्याओं को लेकर कांग्रेसियों ने सौंपा ज्ञापन

डीएपी के दामों में बढ़ोत्तरी व किल्लत से है नाराजगी

अखंड भारत संदेश

प्रतापगढ़। उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रदेश अध्यक्ष पूर्व मंत्री अजय राय के निर्देश पर कांग्रेस कार्यकताओं ने यूथ कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष डॉ0 नीरज त्रिपाठी के नेतृत्व में किसानों की समस्याओं को लेकर राज्यपाल को सम्बोधित ज्ञापन उपजिलाधिकारी (प्रशासनिक अधिकारी) को सौंपा गया।

ज्ञापन देने के उपरान्त एक बैठक जिला कांग्रेस कार्यालय पर सम्पन्न हुई। बैठक की अध्यक्षता यूथ कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष डॉ. नीरज त्रिपाठी एवम संचालन

पार्टी कार्यालय पर प्रदर्शन करते कांग्रेसी।

नगर कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष इरफान अली ने किया। अध्यक्षता कर रहे डॉ0 नीरज त्रिपाठी ने कहा कि प्रदेश की भाजपा सरकार की उदासीनता एवं अव्यवस्था के चलते प्रदेश में किसानों को बुआई के इस मौसम में सुबह से शाम तक भूखे प्यासे खाद्य वितरण केंद्रों पर लाइन में खड़े रहने के बाद भी डी.ए.पी खाद नहीं मिल पा रही है और डी.ए.पी के दामों में बढ़ोतरी कर दी गई है। खाद न मिल पाने के कारण किसानों को समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है जिसके कारण किसान बदहाल एवं परेशान हैं। वरिष्ठ उपाध्यक्ष डॉ.वी.के.सिंह ने कहा कि कुंभकरणीय नींद में सोई प्रदेश की भाजपा सरकार किसानों के दुख दर्द को समझने को तैयार नहीं है।

ऐसे में यदि हमारी मांगे पूरी नहीं होती है तो हम कांग्रेस जन आंदोलन करने को मजबूर होंगे। संचालन कर रहे नगर अध्यक्ष इरफान अली ने कहा कि जिला प्रशासन किसानों को डी.ए.पी खाद जल्द से जल्द उपलब्ध कराए अन्यथा हम कांग्रेस जन सड़क पर उतरकर आंदोलन करने को बाध्य होंगे। ज्ञापन देने में मुख्य रूप से कार्यालय प्रभारी/कोषाध्यक्ष वेदान्त तिवारी, महासचिव आशुतोष तिवारी, दानिश माबूद, हरिश चन्द्र सरोज, इंद्रानंद तिवारी, कांग्रेस सेवादल के उपाध्यक्ष राम रतन तिवारी, मोहम्मद जावेद, बेलाल अहमद,राम अवध यादव, यश शर्मा, सुधीर तिवारी ,योगेश यादव, सुभाष तिवारी, मोहम्मद यूसुफ, पृथ्वीराज गौतम, राम धन यादव सहित दर्जनों लोग उपस्थित रहे।

पूर्व सांसद जया प्रदा ने होटल का किया उद्घाटन

होटल का उद्घाटन करतीं पूर्व सांसद जया प्रदा।

अखंड भारत संदेश

प्रतापगढ़। शहर से पांच किमी दूर कटरा मेदनीगंज में आज एक होटल के उद्घाटन समारोह में मुख्य अतिथि के रुप में अभिनेत्री तथा पूर्व सांसद जया प्रदा पहुंचीं। उनके साथ विशिष्ट अतिथि के रुप में अभिनेत्री लरीसा बोनेसी मौजूद रहीं। इस दौरान सांसद संगम लाल गुप्ता ने उनका स्वागत किया। जया प्रदा के नाम पर काफी भीड़ इकट्ठा थी। इस मौके पर पुलिस अधीक्षक सतपाल अंतिल, सांसद के भाई दिनेश गुप्ता, विवेक उपाध्याय सहित बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहे।

अवशेष वेतन की मांग को लेकर शिक्षकों ने दिया ज्ञापन

अधिकारी को ज्ञापन देते राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ के पदाधिकारी।

अखंड भारत संदेश

16 माह का अवशेष वेतन देने का हुआ है शासनादेश

प्रतापगढ़। अवशेष वेतन की मांग को लेकर राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ माध्यमिक के जिला अध्यक्ष प्रभात कुमार त्रिपाठी के नेतृत्व में सैकड़ो शिक्षकों ने शुक्रवार को जिला विद्यालय निरीक्षक को ज्ञापन सौंपा। इस दौरान जिला अध्यक्ष ने कहा कि 16 माह 9 दिन का अवशेष वेतन देने का शासनादेश हुआ है। इस अवशेष वेतन को शिक्षकों को तत्काल दिया जाए। उन्होंने कहा कि वेतन रुका होने की वजह से सभी शिक्षकों का मानसिक, शारीरिक व आर्थिक रुप से उत्पीड़न हो रहा है, जिसके कारण हम तदर्थ शिक्षक एवं शिक्षकों का परिवार आर्थिक एवं मानसिक रुप से परेशान है। यदि इसी तरह हम तदर्थ शिक्षकों का मानसिक उत्पीड़न बढ़ता रहा तो शिक्षक या उसके परिवार के साथ अप्रिय घटना घटित हो सकती है, जिसकी सम्पूर्ण जिम्मेदारी आपकी और वित्त लेखाधिकारी की होगी। इस अवसर पर सत्येंद्र सिंह, विक्रांत शुक्ल, हेमन्त सिंह, मुन्ना सिंह, दिलीप कुमार शुक्ल, राजेश यादव, सुर्यबली यादव, राकेश तिवारी, गौरव पांडेय, विजय द्विवेदी, रमेश सिंह राकेश सिंह आदि मौजूद रहे।

हेमवती नंदन बहुगुणा में सख्ती से हो रही सेमेस्टर परीक्षा

अखंड भारत संदेश

प्रतापगढ़। हेमवती नंदन बहुगुणा पी जी कालेज लालगंज में विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित बीए और एम ए सेमेस्टर परीक्षा प्राचार्य प्रोफेसर शैलेन्द्र कुमार मिश्र की देख रेख में कड़ाई से संम्पन्न कराई जा रही हैं।

कालेज गेट की तलाशी से लेकर कमरों तक की तलाशी में कालेज उड़ाका दल पूर्ण मुस्तेद दिख रहा है। हेमवती नंदन बहुगुणा पी जी कालेज जनपद में अद्वितीय कालेज माना जाता है, जहां नकल के माम्मले में परिंदा पर नही मार सकता है,

परीक्षा कक्ष का निरीक्षण करते प्राचार्य प्रो0 शैलेन्द्र मिश्र।

इसी लिए बीच बीच विश्वविद्यालय अन्य कोर्सो की परीक्षा आयोजित करता रहता है। यह कालेज पठन पाठन के साथ छात्रो का रचनात्मक कार्यों में भी गुणात्मक बिकास करता रहता है। उड़ाका दल प्रभारी-प्रोफेसर राजेन्द्र मिश्र अपनी टीम के साथ कमरों का निरीक्षण बराबर करते रहते हैं। उक्त सूचना कालेज जनसूचनाधिकारी डॉ फणीन्द्र नारायण मिश्र ने दी।

राजीव प्रताप बने निर्विरोध जिला सहकारी बैंक के अध्यक्ष

अखंड भारत संदेश

राजीव सिंह का फूल-मालाओं से स्वागत करते लोग।

प्रतापगढ़। जिला सहकारी बैंक के नये अध्यक्ष युवा भाजपा नेता राजीव प्रताप सिंह नंदन निर्विरोध अध्यक्ष बने। अब ब्लॉक प्रमुख के साथ ये भी पद भाजपा युवा नेता संभालेंगे। बता दें कि चचेरे भाई बाले की मृत्यु के बाद सहकारी अध्यक्ष का पद खाली था। राजीव प्रताप पूर्व कैबिनेट मंत्री राजेंद्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह के पुत्र हैं। नंदन के सहकारी अध्यक्ष बनते ही एक बार फिर से जिले में साबित हुआ कि पूर्व कैबिनेट मंत्री मोती सिंह का दबदबा कायम है। इस जीत पर भाजपा वरिष्ठ नेता बलवंत सिंह ने खुशी व्यक्त करते हुए बधाई दी। आज हुए नामांकन में पट्टी चेयरमैन अशोक जायसवाल, ढकवा अध्यक्ष राकेश सिंह, ब्लॉक प्रमुख आसपुर देवसरा कमलाकांत यादव, भाजपा के पूर्व युवा मोर्चा अध्यक्ष रवि गुप्ता, सड़वा चंडिका से अभय सिंह पिंटू एवं भारी संख्या में प्रधान एवं बीडीसी एवं कार्यकर्ता मौजूद रहे।

हत्या के आरोप में दो आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा

मुकदमे के दौरान एक आरोपी की हो चुकी है मृत्यु

अखंड भारत संदेश

प्रतापगढ़। जिला एवं सत्र न्यायाधीश अब्दुल शाहिद ने हत्या कर शव को छिपाने के आरोप में अभियुक्तगण शैलेन्द्र उर्फ मिथुन गौतम सुत राम मनोहर निवासी देवली थाना कोतवाली नगर व राजेश कुमार सुत छोटेलाल निवासी पूरे पितई, थाना कोतवाली नगर को आजीवन कारावास की सजा तथा 20-20 हजार रुपये से दण्डित करने का आदेश पारित किया।

घटना के बारे में बताया जाता है कि तीन अप्रैल 2015 को मानधाता थाना क्षेत्र के देवली मजरे छितपालगढ़ में सुबह कुछ लोग खेत पर गये थे तो सड़क के किनारे ग्राम सभा गनईपुर में दो व्यक्तियों का शव पड़ा था और वहां काफी भीड़ लगी थी। काफी देर तक पहचान नहीं हो पाई। इन दोनों उम्र 30 वर्ष व 35 वर्ष बताई गई। बताया गया कि दोनों की हत्या कर शव को यहां फेंक दिया गया है। बाद में पहचान होने पर पता चला कि मृतकों में सर्वेश कुमार सुत छोटेलाल, बसेहड़ा इलाहाबाद व अनुपम श्याम श्रीवास्तव सुत अशोक कुमार श्रीवास्तव न्यू कालोनी बाबागंज, कोतवाली नगर हैं। अभियुक्त जितेन्द्र कुमार गौतम सुत कालूराम निवासी देवली की मुकदमे के दौरान मृत्यु हो चुकी है। दूसरे अभियुक्त को सजा भुगतनी होगी। राज्य की ओर से पैरवी शासकीय अधिवक्ता योगेश कुमार व

आटो चालक के खिलाफ मारपीट का मुकदमा दर्ज

लालगंज, प्रतापगढ़। युवक के साथ हुई मारपीट की घटना को लेकर पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। नगर कोतवाली के सिविल लाइन्स करनपुर निवासी राजेन्द्र गुप्ता पुत्र बाबूलाल गुप्ता घरों व दुकानों पर आरओ के पानी की सप्लाई किया करता है। पीड़ित का आरोप है कि छः दिसम्बर को वह पानी के वितरण को लेकर लीलापुर इलाके में गया हुआ था। दोपहर करीब सवा तीन बजे वापस लौटते समय लीलापुर में आटो चालक सचिन पता अज्ञात ने उसकी गाड़ी में टक्कर मार दिया। युवक के विरोध करने पर आटो चालक ने साथियों के साथ मिलकर गाली देते हुए उसे मारापीटा व जान से मारने की धमकी भी दी।

एएसपी विद्यासागर मिश्र को दी गई विदाई

अखंड भारत संदेश

प्रतापगढ़। आईपीएस विद्यासागर मिश्र का विदाई समारोह पुलिस लाइन के सई काम्प्लेक्स में सम्पन्न हुआ। बता दें कि अपर पुलिस अधीक्षक पूर्वी के पद से गौतम बुध्द नगर के लिए स्थानांतरित होने के बाद विदाई समारोह हुआ। समारोह में जिलाधिकारी संजीव रंजन, पुलिस अधीक्षक सतपाल अंतिल, सीओ सिटी, सदर व रानीगंज, पुलिसकर्मियों के साथ ही जूनियर बार एसोसिएशन के पदाधिकारियों, अधिवक्ताओं व पत्रकारों ने श्री मिश्र के व्यक्तित्व पर प्रकाश डाला व किए गए जनहित के कार्यों की जमकर सराहना के साथ उज्ज्वल भविष्य की कामना की। विदाई समारोह का संचालन अपर पुलिस अधीक्षक पश्चिमी रोहित मिश्र ने किया, स्थानान्तरणाधीन आईपीएस विद्यासागर मिश्र ने विभागीय कर्मचारियों, अधिवक्ताओं व पत्रकारों का सहयोग के लिए आभार जताया।

कूड़ा फेकने के विवाद में हुई मारपीट

अखंड भारत संदेश

लालगंज, प्रतापगढ़। कूड़ा फेंकने को लेकर हुई मारपीट की घटना में पुलिस ने तीन लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। उदयपुर थाना क्षेत्र के पूरे बसावन राहाटीकर निवासी रामधनी पुत्र रामपाल ने पुलिस को दी गई तहरीर में कहा है कि गुरूवार सुबह लगभग आठ बजे गांव के पटटीदार बब्बन, भुल्लन व घनश्याम पुत्रगण रामपाल एकराय होकर उसके दरवाजे पर कूड़ा फेंकने लगे। पीड़ित के मना करने पर आरोपितों ने उसे लाठी डण्डे से मारापीटा। पीड़ित के शोर मचाने पर गालीगलौज व जान से मारने की धमकी देते लोग भाग निकले। एसओ उदयपुर निकेत भारद्वाज का कहना है कि मामले की जांच के बाद मुकदमा दर्ज किया गया है।

कक्षा 9-10 के छात्र/छात्राएं 02 जनवरी तक करें आनलाईन आवेदन

अखंड भारत संदेश

प्रतापगढ़। जिला समाज कल्याण अधिकारी ने बताया है कि पूर्वदशम छात्रवृत्ति योजनान्तर्गत (कक्षा 9-10) में आनलाइन आवेदन से लेकर वितरण हेतु पुनः संशोधित समय सारिणी निर्गत की गयी है। उन्होने बताया है कि छात्रवृत्ति हेतु कक्षा 9-10 के छात्र/छात्रायें दिनांक 02 जनवरी 2024 तक आनलाइन आवेदन कर सकते है। विद्यालय द्वारा 15 जनवरी 2024 तक आवेदन पत्र को आनलाइन सत्यापित एवं अग्रसारित किया जायेगा। 20 फरवरी 2024 तक जिला विद्यालय निरीक्षक (कक्षा 9-10) द्वारा वर्गवार वास्तविक छात्र संख्या आदि की प्रमाणिकता को आनलाइन सत्यापित किया जायेगा।

आज विविध कार्यक्रमों में शामिल होंगे प्रमोद तिवारी

अखंड भारत संदेश

लालगंज, प्रतापगढ़। राज्यसभा में विपक्ष के उपनेता प्रमोद तिवारी आज शनिवार को रामपुर खास के एक दिवसीय दौरे पर आयेंगे। वह पूर्वान्ह साढे ग्यारह बजे ननौती में कार्यकताओं से मुलाकात करेंगे। इसके बाद दिन में सवा दो बजे बाबा घुइसरनाथ धाम में दर्शन पूजन करेंगे। इसके अलावा राज्यसभा सदस्य प्रमोद तिवारी क्षेत्र के उपाध्यायपुर, राजमतीपुर, कटेहटी, पूरे नरायनदास, सराय सेतन, रायपुर तियाई में भी विविध कार्यक्रमों में शामिल होंगी। यह जानकारी मीडिया प्रभारी ज्ञानप्रकाश शुक्ल ने दी है।

घायल महिला की हुई मौत पर सात आरोपियों के खिलाफ हत्या का केस दर्ज

अखंड भारत संदेश

लालगंज, प्रतापगढ़। संदिग्ध दशा में घायल महिला की हुई मौत की घटना को लेकर कोतवाली पुलिस ने सात लोगों के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज किया है। लालगंज कोतवाली के पूरे अनिरूद्ध पूरे बहादुर गांव निवासी जटाशंकर यादव पुत्र रामपाल यादव ने पुलिस को दी गई तहरीर में कहा है कि जमीन के विवाद को लेकर गांव के शिव कुमार पुत्र रामलखन, दिनेश कुमार व राम बहादुर पुत्रगण रामकृपाल तथा रामकृपाल पुत्र देवतादीन अपने तीन अज्ञात साथियों के साथ बीती सात दिसंबर की शाम विवादित जमीन पर जुताई करने लगे। जानकारी होने पर पीड़ित की पत्नी ननकुल्ला 55 ने विरोध किया तो आरोपियों ने लाठी डण्डे से उसे जमकर मारापीटा। गंभीर चोट लगने से ननकुल्ला की मौत हो गयी। कोतवाल अवन कुमार दीक्षित का कहना है कि शव को पीएम के लिए भेजा गया है। तहरीर के आधार पर आरोपियों के खिलाफ हत्या के प्रयास आदि धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है, शीघ्र ही आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा जाएगा।

शिक्षक को मिली पीएचडी, साथियों ने जतायी खुशी

लालगंज, प्रतापगढ़। शिक्षक को पीएचडी की उपाधि मिलने पर साथियों ने खुशी जतायी है। मनगढ़ कुण्डा निवासी गिरीश कुमार मौर्य सांगीपुर ब्लाक अन्तर्गत एक विद्यालय में हिन्दी विषय के प्रवक्ता हैं। शिक्षक गिरीश कुमार मौर्य के अनुसार हिन्दी साहित्य के विकास में आज कल पत्रिका का योगदान विषय पर उनके शोध पर लखनऊ विश्वविद्यालय के दीक्षान्त समारोह में उन्हें पीएचडी की उपाधि हासिल हुई है। शिक्षक गिरीश कुमार मौर्य की इस उपलब्धि पर विद्यालय के उप प्रबन्धक प्रवीण त्रिपाठी, प्रधानाचार्य अरूण कुमार सिंह, शिक्षक मनीष श्रीवास्तव, आलोक मिश्र, संदीप मौर्य, अनीता पाल, राकेश प्रजापति, अशोक शुक्ल, दिनेश पाण्डेय आदि ने खुशी जतायी।

गैर बिरादरी की लड़की से अवैध संबंधों में युवक की हुई थी हत्या

पुलिस ने हत्या में शामिल पांच आरोपियों को आलाकत्ल के साथ किया गिरफ्तार

अखंड भारत संदेश

कौशाम्बी। संदीपन घाट थाना क्षेत्र के नई बस्ती कोइलहा के वीरू रैदास उम्र 19 वर्ष पुत्र राकेश रैदास मंगलवार को किसी से फोन करने के बाद अचानक लापता हो गया था परिवार वाले उसकी खोज कर रहे थे लेकिन बीरू रैदास का कहीं सुराग नहीं लगा गुरुवार की सुबह वीरू रैदास की की लाश प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के पीछे पुराने ईट भट्टे के पास रक्त रंजित हालत में मिली थी परिजनों की तहरीर पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज करने के बाद हत्या के खुलासे का प्रयास शुरू किया पुलिस के हाथ अहम सुराग लगे वीरू का गैर बिरादरी की लड़की से अवैध संबंध थे जिससे गैर बिरादरी के लोग उससे दुश्मनी मानते थे वीरू को बुलाने के बाद उसकी बेरहमी से कत्ल कर पुराने ईट भट्टे के पास झाड़ियों में उसकी रक्त रंजित लाश फेंक दी गई थी गुरुवार को पुलिस ने लाश बरामद कर लिया है वीरू की हत्या के आरोप में पप्पू पुत्र रामनाथ सोनू उर्फ सोना पुत्र लल्लू बबलू धर्मेंद्र अंगद को आला कत्ल के साथ पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है गिरफ्तार अभियुक्तों ने पूछताछ में वीरू की हत्या का जुर्म कबूल कर लिया है लिखा पढ़ी करने के बाद पुलिस ने गिरफ्तार पांचो आरोपियों को अदालत में पेश किया है।

विकसित भारत संकल्प यात्रा कार्यक्रम के माध्यम से दी गयी जनकल्याणकारी योजनाओं की जानकारी

कौशाम्बी। जनपद की ग्राम पंचायत-कसिया, सैदनपुर, सिकन्दरपुर बजहां, सरांय यूसुफ, कनैली, लौगावां, रघुनाथपुर, एड़हरा, लोहरा, रसूलपुर टप्पा, महॅगूपुर एवं जाफरपुर महावां में विकसित भारत संकल्प यात्रा कार्यक्रम का आयोजन किया गया विकसित भारत संकल्प यात्रा कार्यक्रम में सरकार की विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं की जानकारी तथा छूटे हुए पात्र लाभार्थियों को विभिन्न योजनाओं से लाभान्वित किया गया। कार्यक्रम में बैंक के स्टॉल के माध्यम से कृषकों की ई-केवाईसी, आधार सीडिंग, केसीसी एवं लोन से सम्बन्धित अन्य समस्याओं का निस्तारण किया। किसानों को रासायनिक उर्वरकों के वैकल्पिक उर्वरकों यथा-नैनो यूरिया के विषय में जागरूक किया गया। स्वास्थ्य विभाग एवं कृषि विभाग आदि विभागों के स्टॉल भी लगायें गयें। ह्लमेरी कहानी मेरी जुबानीह्व के तहत विभिन्न योजनाओ के लाभार्थियों ने योजना के लाभ से जीवन में आये परिवर्तन एवं उन्नति का अनुभव सभी से साझा किया। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के लाभार्थियों को प्रमाण-पत्र भी वितरित किया गया। कार्यक्रम में उपस्थित ग्रामवासियों ने प्रधानमंत्री का रिकार्ड किया गया संदेश भी सुना।

न्यूज झरोखा

दिव्याँग बच्चों को दिया गया उपकरण उपस्कर

ब्लॉक संसाधन केन्द्र रक्सराई कौशाम्बी में समग्र शिक्षा अभियान समेकित शिक्षा

कौशाम्बी। दिव्याँग बच्चों हेतु एलिम्को कानपुर के सहयोग से आयोजित उपकरण उपस्कर वितरण कैंप में 14 ट्राई साइकिल, 08 व्हील चेयर,07 सी पी चेयर,16 बैसाखी तथा एल्बो क्रच, रौलेटर, ब्रेल किट, कान की मशीन, कैलीपर आदि उपकरण वितरित किया गया कार्यक्रम के मुख्य अतिथि बृजेश सिंह खंड शिक्षा अधिकारी रक्सराई कौशाम्बी द्वारा सरस्वती की मूर्ति पर माल्यार्पण के बाद एलिम्को कानपुर के प्रतिनिधि निलय कुमार सिंह ऑडियोलॉजिस्ट आदर्श द्विवेदी हंजला इरशाद के देखरेख में उपकरण वितरण किया गया है कार्यक्रम के मुख्य अतिथि द्वारा परिषदीय विद्यालय में अध्यनरत दिव्यांग बच्चों को उपकरण उपस्कर वितरित किया गया डॉ कमलेंद्र कुमार कुशवाहा जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी के कुशल निर्देशन में वीरेंद्र कुमार जिला समन्वयक समेकित शिक्षा के संयोजकत्व में कार्यक्रम संपन्न हुआ। कार्यक्रम में राम बहादुर कुशवाहा, राजीव कुमार तिवारी, फिजियोथैरेपिस्ट पंकज साहू एवं स्पेशल एजुकेटर शारदा कुमार सिंह पुश्पेन्द्र द्विवेदी , कृष्ण कुमार तिवारी, इरशाद हुसैन,राजीव तिवारी वशिष्ठ शुक्ल इन्दू बाला, श्रद्धा शुक्ला, आशुतोश श्रीवास्तव,रवि, पुश्पेन्द्र सिंह, अनिल, प्रदीप, अभिषेक,मो अफसर आदि का विशेष सहयोग रहा।

कुंडा नेत्र शिविर में कौशांबी के लोगों ने भी कराई जांच

भरवारी कौशाम्बी प्रतापगढ़ के कुंडा क्षेत्र के हथिगवां बजरंग डिग्री कॉलेज में शुक्रवार को कुशल चिकित्सकों की देखरेख में नेत्र शिविर का आयोजन किया गया था इस नेत्र शिविर में कौशांबी जनपद के भरवारी और उसके आसपास के तमाम लोगों ने भी अपने नेत्र की परीक्षण कराई है इस नेत्र शिविर में 500 लोगों के नेत्रों की जांच कुशल नेत्र विशेषज्ञ चिकित्सकों द्वारा की गई जिसमें लगभग 200 लोगों के नेत्रों के ऑपरेशन नेत्र चिकित्सकों द्वारा किए गए नेत्र ऑपरेशन के बाद लोगों को नई जिंदगी मिली है इस नेत्र शिविर में जनसत्ता दल पार्टी के प्रधान महासचिव एवम पूर्व सांसद शैलेंद्र कुमार विधायक विनोद सरोज हरी ओम श्रीवास्तव प्रमुख संतोष सिंह विनोद पटेल प्रमुख राम चंद्र केशरी जी अधिवक्ता आदि लोग मौजूद रहे।

राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन 9 दिसम्बर को

कौशाम्बी राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, नई दिल्ली व उ.प्र. राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशन में जिला जज/अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की अध्यक्षता में दीवानी न्यायालय, कौशाम्बी में दिनांक 09 दिसम्बर 2023 को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जायेंगा। यह जानकारी अपर जनपद न्यायाधीश/सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण ने देते हुए बताया कि राष्ट्रीय लोक अदालत में मोटर दुर्घटना दावा याचिकाओं, पारिवारिक वाद, बैंक वसूली, एनआईएक्ट, विद्युत के मामले,श्रम सम्बन्धी, लेबर सम्बन्धी, जमीन सम्बन्धी,चालानी व अन्य प्रकार से सम्बन्धित शमनीय वादों का निस्तारण किया जायेंगा।

अधिशासी अधिकारी पर आयोग ने लगाया 25000 का जुर्माना

महेवाघाट कौशांबी। जन सूचना अधिकार अधिनियम के तहत नगर पंचायत पूरब पश्चिम शरीरा के अधिशासी अधिकारी ने सूचना मांगने वाले कमलेश लोधी को सूचना नहीं उपलब्ध कराई जिस पर आयोग के सामने अपील की गई लेकिन फिर भी नगर पंचायत के अधिशासी अधिकारी की हीलाहवाली बराबर जारी रही जिस पर आयोग ने मामले को गंभीरता से लिया और आयोग द्वारा नगर पंचायत पूरब पश्चिम शरीरा के अधिशासी अधिकारी को आरटीआई ना देने के लापरवाही पर 25000 का जुमार्ना लगाया है।

तीन वारंटी अभियुक्त को पुलिस ने किया गिरफ्तार

कौशाम्बी। थाना कड़ाधाम और महेवाघाट पुलिस टीम द्वारा तीन वारंटी अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है कड़ा धाम थाना में मुकदमा अपराध संख्या 241 सन 1987 के वारंटी अभियुक्त रामराज वा धनराज पुत्रगण रामसेवक निवासी शादीपुर थाना कड़ा धाम को गिरफ्तार किया गया। विधिक कार्यवाही के पश्चात वारंटी अभियुक्तों को पुलिस ने न्यायालय भेज दिया है। इसी तरह अभियुक्त भेद कुमार पुत्र मुखिया निवासी घोघपुर थाना महेवाघाट वारंटी अभियुक्त को महेवाघाट थाना पुलिस ने गिरफ्तार कर अदालत में पेश किया है।

दुर्घटना के मामले में अभियुक्त को ढाई हजार रुपए अर्थ दंड की सुनाई गई सजा

कौशाम्बी। सराय अकिल थाना क्षेत्र में लापरवाही से वाहन चलाते हुए दुर्घटना करने के मामले में पंजीकृत मुकदमा की सुनवाई करते हुए अदालत ने अभियुक्त को ढाई हजार रुपए जुमार्ना की सजा सुनाई है प्रभावी पैरवी करते हुए पुलिस ने दुर्घटना कारित करने वाले अभियुक्त सादात पुत्र रौदुज्जमा निवासी घोसिया थाना सराय अकिल को 2500/- रुपए के अर्थदण्ड की सजा से दंडित कराया अर्थ दण्ड अदा ना करने पर 15 दिन की कारावास की सजा भुगतना पड़ेगा

समस्त थाना पुलिस ने पैदल गस्त कर सुरक्षा व्यवस्था का लिया जायजा

कौशाम्बी। शांति व्यवस्था बनाए रखने हेतु समस्त थाना पुलिस ने क्षेत्र में पैदल गस्त किया। इस दौरान संदिग्ध वाहन और व्यक्तियों की तलाशी ली गई। पैदल गस्त कर पुलिस ने लोगों को सुरक्षा व्यवस्था का एहसास दिलाया। पुलिस के गस्त से सड़कों पर चलने वाले ओवरलोड वाहन और बिना हेलमेट के दो पहिया वाहन से चलने वाले लोगों में हड़कंप मचा रहा।

पीएम आवास में किसी भी प्रकार की कोई धनराशि देय नहीं

कौशाम्बी। उप जिलाधिकारी परियोजना अधिकारी,डूडा ने जनपद के समस्त नगर पालिका परिषद एवं नगर पंचायतों के प्रधानमंत्री आवास योजना-शहरी के अन्तर्गत चयनित समस्त लाभार्थियों को सूचित किया है कि इस योजना में किसी भी प्रकार की कोई धनराशि देय नहीं हैं। यह पूर्णयता निःशुल्क है, यदि किसी भी कर्मचारी व बिचौलियों द्वारा इस योजना में किसी भी प्रकार का प्रलोभन या धनाराशि की मांग की जाती है,तो सम्बन्धित लाभार्थी उसकी शिकायत विकास भवन,मंझनपुर में स्थित कार्यालय जिला नगरीय विकास अभिकरण (डूडा) में दर्ज करा सकतें हैं।

दहेज लोभियों ने विवाहिता को मार पीट कर घर से भगाया

चरवा, कौशाम्बी। पिपरी थाना क्षेत्र के लोकीपुर गांव की रामरती पत्नी राम किशन ने दिए गए शिकायती प्रार्थना पत्र में बताया कि मेरी लड़की सोनिया की शादी डेढ़ वर्ष पूर्व महेश पुत्र बगडू निवासी सैय्यद सरावां थाना चरवा के साथ हुई है। अपनी हैसियत के अनुसार दान दहेज देकर अपनी लड़की को विदा किया था। शादी के कुछ दिन बाद से ही मेरे लड़की के पति सहित ससुराली जनों ने दहेज में अपाची मोटरसाइकिल सोने की चैन व एक लाख रुपए नकद की मांग करने लगे। दहेज की मांग पूरी न होने पर आए दिन गाली गलौज देते हुए मार पीट करते थे। 4 दिसम्बर को उक्त ससुराली जनों ने दहेज की खातिर विवाहिता को मार पीट कर घर से भगा दिए हैं। विवाहिता अपनी मां के साथ चरवा थाना पहुंच कर पति समेत ससुराली जनों के विरुद्ध लिखित शिकायती प्रार्थना पत्र दिया। शिकायती प्रार्थना पत्र पाते ही चरवा पुलिस जांच में जुट गई है।

कौशाम्बी जिले के अधिकांस किसानों को नहीं मिल रहा मृदा परीक्षण योजना का लाभ

कागज मे चल रही कृषि विभाग की तरफ से मृदा परीक्षण योजना

कौशाम्बी।अच्छी और जल्द फसल तैयार करने के लिए कौशाम्बी के किसान अपने खेतों में रसायनिक खाद का अंधाधुंध प्रयोग कर रहे हैं जिसके कारण उनके खेतों की उर्वरक शक्ति में कमी आई है। किसान के खेतों की उर्वरक शक्ति की पहचान के लिए सरकार द्वारा मृदा परीक्षण योजना लागू की गई है। इस योजना के तहत कृषि विभाग के अधिकारी कर्मचारी को किसान के खेतों में जाकर मिट्टी का नमूना लेकर परीक्षण करना होता है जांच बाद खेत में उचित पोषक तत्व डालने की सलाह कृषि विभाग के अधिकारी द्वारा कृषकों को देना होता है जिससे किसान के खेत की उर्वरक शक्ति में बढ़ोत्तरी हो सके। कृषि विभाग के अधिकारी कर्मचारी कृषकों के खेत में ना गए और ना ही खेत की मिट्टी का नमूना एकत्र किए फिर भी कागज पर मिट्टी परीक्षण का कार्य हो रहा है। कृषि विभाग के अधिकारी उत्तर प्रदेश सरकार के मंसूबे पर पानी फेरने के लिए कागजों पर मृदा परीक्षण कर योगी सरकार की महत्वाकांक्षी योजना से लोगों को वंचित कर रहे हैं। कृषि विभाग के अधिकारियों की लापरवाही के चलते जिले के अधिकांस कृषकों को सरकार द्वारा लागू की गई मृदा परीक्षण योजना की जानकारी ही नहीं है।

आज आयोजित होगा विकसित भारत संकल्प यात्रा कार्यक्रम

ग्राम पंचायत-जमाल मऊ, कोतारी पश्चिम, सुखदा, किशुनपुर अम्बारी, धरमपुर, नगरेहा कला, मलाक भायल, लहना, अरई सुमेरपुर, चिरारी, छेंकवा एवं पुनवार में होगा कार्यक्रम

अखंड भारत संदेश

कौशाम्बी। जनपद की ग्राम पंचायत-जमाल मऊ, कोतारी पश्चिम, सुखदा, किशुनपुर अम्बारी, धरमपुर व नगरेहा कला में प्रातः 10 बजे से दोपहर 12:30 बजे तक तथा मलाक भायल, लहना, अरई सुमेरपुर, चिरारी, छेंकवा व पुनवार में 02 बजे से सायं 4:30 बजे तक दिनांक 09 दिसम्बर 2023 को ह्लविकसित भारत संकल्प यात्राह्व कार्यक्रम का आयोजन किया जायेंगा। ह्लविकसित भारत संकल्प यात्राह्व कार्यक्रम में सरकार की विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं की जानकारी तथा छूटे हुए पात्र लाभार्थियों को विभिन्न योजनाओं-आयुष्मान भारत, पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना, दीनदयाल अंत्योदय योजना-राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, पीएम आवास योजना(ग्रामीण), पीएम उज्ज्वला योजना, पीएम विश्वकर्मा योजना, पीएम किसान सम्मान निधि योजना, किसान क्रेडिट कार्ड, पीएम पोषण अभियान, हर घर जल-जल जीवन मिशन, गॉवों का स्वामित्व, जनधन योजना, जीवन ज्योति बीमा योजना, सुरक्षा बीमा योजना, अटल पेंशन योजना एवं पीएम स्वनिधि योजना आदि से लाभान्वित किया जायेंगा। बैंक के स्टॉल के माध्यम से कृषकों की ई-केवाईसी, आधार सीडिंग, केसीसी एवं अन्य लोन से सम्बन्धित समस्याओं का निस्तारण किया जायेंगा। समस्त सहकारी समितियों द्वारा अभियान चलाकर अधिक से अधिक लोगों को सदस्य बनाया जायेंगा तथा रासायनिक उर्वरकों के वैकल्पिक उर्वरकों यथा-नैनो यूरिया के विषय में जागरूक किया जायेंगा। स्वास्थ्य विभाग एवं कृषि विभाग आदि विभागों के स्टॉल लगायें जायेंगे। विभिन्न योजनाओं के सफल लाभार्थी ह्लमेरी कहानी मेरी जुबानीह्वके तहत अपने अनुभव/फीडबैक साझा करेंगे। वैन के माध्यम से मा0 प्रधानमत्री जी का रिकार्ड किया गया संदेश आमजन को सुनाया जायेंगा। विकसित भारत के लिए संकल्प वीडियो प्रसारित किया जायेंगा। सत्त कृषि गतिविधियों पर सत्र-ड्रोन प्रदर्शन, प्राकृतिक खेती और मृदा स्वास्थ्य कार्ड पर प्रगतिशील किसानों/विषय विशेषज्ञों की वार्ता एवं चर्चा होगी। महिला एसएचजी सदस्यों/स्कूली छात्रों/स्थानीय कलाकारों द्वारा सांस्कृतिक प्रस्तुतियॉ-ह्लधरती कहे पुकारह्व एवं स्वच्छता गीत आदि प्रस्तुत किये जायेंगे। स्थानीय प्राथमिक/उच्च प्राथमिक एवं माध्यमिक विद्यालय के प्रधानाचार्यों द्वारा क्विज प्रतियोगिता का आयोजन किया जायेगा।

तीन दिन से लगातार हरे पेडों पर चल रही कुल्हाड़ी व मशीन वन विभाग अनजान

अखंड भारत संदेश

कोखराज कौशाम्बी। सिराथू क्षेत्र में इन दिनों लगातर हरे फलदार व कीमती लकड़ी के पेड़ों को काट कर लगातार लकड़ी माफिया मालामाल हो रहे हैं और इस अवैध कमाई से वन विभाग के अधिकारियों को भी हिस्सा पहुँचा रहे हैं पीपल नीम ,शीशम आम ,महुआ, जामुन जैसे हरे भरे पेड़ों को काट कर मोटी रकम वसूल कर वन विभाग के कर्मचारियों ने कई महीने से अपनी जेब भरना सुरु कर दिया है अभी ताजा मामला भरवारी पुलिस चौकी के अंतर्गत बहेरिया के पास का है तीन दिनों से लकड़ी माफियाओं की पेट्रोलिंग आरा मशीन और कुल्हाड़ी चटक रही है लेकिन पुलिस से लेकर वन विभाग तक को जानकारी नहीं मिल पाई विशाल पुराने पीपल के पेड़ को बिना परमिशन के काट कर माफिया उठा ले गए हिंदू संगठन के लोगों को जानकारी हुई तो उन्होंने हो हल्ला मचाया मामले की सूचना पुलिस अधिकारियों को दी मौके पर पहुंची पुलिस ने एक व्यक्ति को पकड़ लिया है लेकिन अन्य लोगों को पुलिस ने अभी तक गिरफ्तार नहीं किया है पीपल का पेड़ काटने के बाद हिंदू संगठन के लोगों में आक्रोश व्याप्त है बताया जाता है कि पेड़ के कटान में आधा दर्जन से अधिक लोग लगे थे लेकिन एक व्यक्ति को गिरफ्तार करने के बाद मामले को रफा दफा करने में वन विभाग और पुलिस लगी हुई है जानकारी के अनुसार लकड़ी माफिया सलीम लगातार हरे पेडों को काट कर बेसकीमती लकड़ी उठा ले जा रहा है

पुराना पीपल का विशाल वृक्ष काट दिए जाने के बाद हिंदू संगठन के लोगों में जबरदस्त आक्रोश, पुलिस और वन रेंजर लगातर हरियाली को लकड़ी माफियाओं से कटवा कर मोटी रकम वसूल कर भर रहे जेब

इस माफिया ने इस क्षेत्र में तीन दिनों से लगातार हरे पेड़ की कटान जारी रखी है और अभी तक लकड़ी माफिया पर कार्यवाही नहीं हुई है इस संबंध में सिराथू रेंजर से बात की गयी तो वह गोलमोल बात कर अपनी गिरेबान बचाने में लगे रहे। पीपल के वृक्ष काट दिए जाने के बाद हिंदू संगठन के लोगों में आक्रोश व्याप्त है।

चौपाल में केन्द्र एवं राज्य सरकार द्वारा संचालित योजनाओं के बारे में दी गई जानकारी

डॉ. रवि किशोर त्रिवेदी मुख्य विकास अधिकारी कौशाम्बी द्वारा बाल विकास पुष्टाहार विभाग द्वारा संचालित अन्नप्रासन्न, गोद-भराई कार्यक्रम सम्पन्न किया

कौशाम्बी। डॉ. रवि किशोर त्रिवेदी मुख्य विकास अधिकारी कौशाम्बी द्वारा दिनांक 08 दिसम्बर, 2023 को ग्राम पंचायत लौगावॉ विकास खण्ड सरसवॉ में ग्राम चौपाल की गयी उक्त चौपाल कार्यक्रम में सुरेश कुमार गुप्ता जिला कार्यक्रम अधिकारी डा. अजीत कुमार सिंह पशुचिकित्साधिकारी सरसवॉ, प्रभारी चिकित्साधिकारी सरसवॉ, सहायक विकास अधिकारी(पंचायत), वैज्ञानिक कृषि विज्ञान केन्द्र, सहायक विकास अधिकारी(स0/क0), बाल विकास परियोजना अधिकारी सरसवॉ, पूर्ति निरीक्षक सरसवॉ एवं सचिव व ग्राम प्रधान उपस्थित थे। चौपाल कार्यक्रम में केन्द्र एवं राज्य सरकार द्वारा संचालित योजनाओं के बारे में ग्रामवासियों को जानकारी दी गयी। पशु चिकित्सा अधिकारी सरसवॉ द्वारा वर्तमान में चल रहे मुहपका-खूरपका टीकाकरण के बारे में ग्रामवासियों को जानकारी दी गयी एवं कृत्रिम गभार्धान के लाभ बताये गये तथा पशुपालन विभाग द्वारा संचालित अन्य योजनाओं के बारे में विस्तृत जानकारी भी दी गयी। पूर्ति निरीक्षक द्वारा भी अपने योजनाओं के बारे में जानकारी दी गयी है। समाज कल्याण विभाग के अन्तर्गत मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना, परिवारिक लाभ योजना एवं निराश्रित महिला पेंशन, विकलांग पेंशन व वृद्धावस्था पेंशन के बारे में जानकारी दी गयी। डॉ. रवि किशोर त्रिवेदी मुख्य विकास अधिकारी कौशाम्बी द्वारा बाल विकास पुष्टाहार विभाग द्वारा संचालित अन्नप्रासन्न, गोद-भराई कार्यक्रम सम्पन्न किया गया। उक्त चौपाल कार्यक्रम जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी कौशाम्बी उपस्थित नहीं हुये और न ही उनके प्रतिनिधि के रूप खण्ड शिक्षा अधिकारी सरसवॉ ही उपस्थित थे। इस सम्बन्ध में डॉ0 रवि किशोर त्रिवेदी मुख्य विकास अधिकारी कौशाम्बी द्वारा नाराजगी व्यक्त करते हुए जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी कौशाम्बी को कारण बताओ नोटिस जारी की गयी और खण्ड शिक्षा अधिकारी सरसवॉ का दिनांक 08.12.2023 एक दिन का वेतन भी अवरूद्ध कर दिया गया विभिन्न विभागों द्वारा चौपाल कार्यक्रम में अपनी-अपनी योजनाओं के स्टाल लगाये गये थे, जिसमें से स्वास्थ्य विभाग द्वारा 94 मरीजो का परीक्षण किया गया। 09 पेंशन के आवेदन प्राप्त हुय तथा कृषि विभाग के अन्तर्गत 32 सम्मान निधि के आवेदन प्राप्त किये गये।

तहसील चायल के समर्थन में मंझनपुर में भी अधिवक्ताओं ने किया हड़ताल

घर जा रहे चायल तहसील के अधिवक्ता की रास्ते में पिटाई का मामला

कौशाम्बी। तहसील चायल के अधिवक्ताओं के समर्थन में शुक्रवार को मंझनपुर तहसील के अधिवक्ताओं ने भी हड़ताल जारी कर अपना आक्रोश व्यक्त किया है। जानकारी के मुताबिक चरवा थाने के बलीपुर टाटा गांव के समीप एक सप्ताह पूर्व तहसील से घर जा रहे अधिवक्ता की पिटाई मामले में शुक्रवार को भी अधिवक्ताओं का गुस्सा जारी रहा। मामले में मुकदमा दर्ज होने के बाद आरोपियों की गिरफ्तारी न होने से नाराज वकीलों ने तहसील में प्रदर्शन कर तहसील परिसर में कलम बन्द हड़ताल कर विरोध जाहिर किया। इस दौरान प्रशासन को तत्काल कार्रवाई करने की चेतावनी दी। अनिश्चित काल कलम बन्द हड़ताल रहकर वकील न्यायिक कार्य से विरत हो गए। जिसके समर्थन में शुक्रवार को तहसील मंझनपुर के अधिवक्ताओं ने भी लिखित हड़ताल जारी कर दिया है। गौरतलब है कि चरवा थाना के पूरे कलापत गांव निवासी दिव्यमणि सिंह पेशे से अधिवक्ता हैं। वह तहसील चायल में प्रैक्टिस करते हैं। उनके अनुसार 20 नवंबर को वह बाइक से घर लौट रहे थे। इसी दौरान बलीपुर टाटा गांव के समीप घात लगाकर बैठे दबंगों ने जमीनी विवाद से अधिवक्ता की पिटाई के मामले को लेकर अधिवक्ताओं में काफी रोष है।अधिवक्ता को मार पीट में काफी चोटें आई थीं। शोर सुनकर जुटे लोगों ने बीच बचाव कर मामला शांत कराया। घायल अधिवक्ता ने थाने जाकर मामले की तहरीर दी थी जिस पर प्राथमिकी दर्ज हो गई थी लेकिन कई दिन बीत जाने के बाद भी पुलिस ने आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं की। पुलिस द्वारा गिरफ्तारी न होने से नाराज साथी अधिवक्ताओं का गुस्सा शुक्रवार को भी जारी रहा।तहसील अध्यक्ष लखन लाल गर्ग और महामंत्री अविनाश तिवारी की अगुवाई में चायल तहसील के समर्थन में अधिवक्ताओं ने तहसील मंझनपुर में प्रदर्शन कर कहा कि जब तक आरोपी की गिरफ्तारी सुनिश्चित नहीं कराई जाती तब तक अधिवक्ता हड़ताल पर रहेंगे। इस दौरान वरिष्ठ अधिवक्ता सुशील श्रीवास्तव, अधिवक्ता सुरेन्द्र कुमार मिश्र, अधिवक्ता संजय कुमार मिश्र , अधिवक्ता दीपक कुमार मिश्र , अधिवक्ता हरिमोहन मिश्र, अधिवक्ता रामबाबू मिश्र , अधिवक्ता रविशंकर दुबे, अधिवक्ता शेषनारायण दुबे, अधिवक्ता दुर्गा प्रसाद सिंह , अधिवक्ता आलोप पाण्डेय आदि सैकड़ो अधिवक्ता मौजूद रहें।

शाम को आनी थी युवती की बारात परिजन कर रहे थे तैयारी

युवती ने भागकर प्रेमी से मंदिर में रचा ली शादी

अखंड भारत संदेश

कौशाम्बी। जिले में प्रेम परवान चढ़ा तो युवती ने अपने प्रेमी को अपनाने के लिए घर से भागकर मंदिर में शादी रचा ली,वही शाम को ही युवती की शादी की पूरी तैयारी कर रखी थी और शाम को ही बारात आनी थी,लेकिन ऐसा हुआ कि सारे परिजन ताकते रह गए और प्रेमिका युवती ने अपने प्रेमी के साथ मंदिर में जाकर शादी कर ली,वही आत्मरक्षा के लिए प्रेमी जोड़े ने पुलिस से सुरक्षा की गुहार भी लगाई है।

जिले में शादी वाले दिन घर से भागकर एक युवती ने मंदिर में प्रेमी के साथ शादी रचा ली,वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ मंदिर के पुजारी ने विवाह सम्पन्न कराया, सात फेरे लेने के बाद युवती प्रेमी को लेकर सीधे थाने पहुंच गयी और पुलिस को तहरीर देते हुए कहा कि मेरी उम्र 20 साल है,मैं बालिग हूं और मुझे अपना जीवन साथी चुनने का अधिकार है, प्रेम विवाह करने से मेरे पिता बेहद खफा हैं और वो मेरे प्रेमी को जान से मारने की धमकी दे रहे हैं,उसने पुलिस से अपने प्रेमी की जान माल के सुरक्षा की गुहार लगाई है। जानकारी के मुताबिक करारी थाना क्षेत्र के इब्राहिमपुर गुवारा गांव की एक युवती अपने गांव के एक युवक से प्रेम करती थी, दोनों एक दूसरे से शादी करना चाहते थे, लेकिन जैसे ही इस बात की जानकारी युवती के घरवालों को हुई तो उन्होंने बंदिशे लगा दी, युवती के पिता इस रिश्ते के खिलाफ थे, वह अपनी बेटी की शादी जबरन किसी और युवक से करना चाह रहे थे,जब उसने युवती के मर्जी के बिना किसी और युवक से उसका रिश्ता तय किया तो बात बहुत आगे बढ़ गई गुरुवार को युवती की शादी थी, घर वाले शादी की तैयारियों में जुटे थे, तभी भोर पहर युवती घर से भागकर अपने प्रेमी के पास पहुंची और एक मंदिर में दोनों ने शादी रचा ली, मंदिर के पुजारी ने वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ शादी सम्पन्न कराई,मंदिर में सात फेरे लेने के बाद प्रेमिका युवती अपने प्रेमी को साथ लेकर करारी थाने पहुंची और अपने पिता के खिलाफ थाने में तहरीर देते हुए पिता से प्रेमी के जान को खतरा बताया।युवती का कहना है कि उसका पिता इस प्रेम विवाह से बहुत नाराज है, उन्होंने प्रेमी को जान से मारने की धमकी दी है, ऐसे में अब युवती पुलिस से अपने प्रेमी के जान माल के सुरक्षा की गुहार लगा रही है। वहीं इस पूरे मामले में सीओ मंझनपुर अभिषेक सिंह ने बताया कि एक वीडियो संज्ञान में आया है, जिसमे एक प्रेमी युगल ने मंदिर में शादी की है।जानकारी करने पर ज्ञात हुआ कि दोनों थाना करारी क्षेत्र के रहने वाले है, दोनों एक ही जाति के हैं और एक ही गांव के रहने वाले हैं,जो कि बालिग भी है, जानकारी करने पर यह तथ्य प्रकाश में आया है कि यूवती की गुरुवार को शादी थी, लेकिन उसने घर से भागकर अपने प्रेमी के साथ मंदिर में शादी कर ली,इसको लेकर युवती के पिता की कुछ नाराजगी थी,दोनों पक्षो को पुलिस के द्वारा समझाया बुझाया गया है,कानून व्यवस्था के दृष्टिगत थाना प्रभारी और चौकी प्रभारी को निर्देशित किया गया है कि प्रकरण को संज्ञान में लेकर सतर्क दृष्टि रखें और आवश्यक कार्रवाई करें।

हाउस टैक्स वापस न लेने पर होगा नगर पालिका का घेराव : राज बहादुर चौधरी

भरवारी कौशाम्बी। कांग्रेस नेता राज बहादुर चौधरी ने गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि कविता पासी को नगर पालिका परिषद भरवारी का अध्यक्ष बने मात्र छह महीने बीते है और नगर पालिका की जनता का उत्पीड़न शुरू हो गया है उन्होंने कहा कि आमजनता पर काफी पुराना समय का हाउस टैक्स लगाया जा रहा है जो पूरी तरह से गलत है उन्होंने कहा कि नगर पालिका भरवारी की लगभग सत्तर फीसदी जनता के पास दो जून खाने को रोटी नहीं पहनने को कपड़ा नहीं है रहने को घर नही है ऐसे में गरीब जनता हाउस टैक्स कहा से जमा कर पाएगी इसी हाउस टैक्स को लेकर शिशु मंदिर कॉलोनी निवासी कांग्रेस नेता राज बहादुर ने लगाए जा रहे टैक्स को लेकर अपने तल्ख तेवर दिखाते हुए कहा कि नगर पालिका के अध्यक्ष एवम अधिशाषी अधिकारी को गृह कर वापस लेना होगा उन्होंने साथ ही यह भी कहा की यदि एक सप्ताह में टैक्स की नोटिस वापस नहीं लिए गया तो नगर पालिका का घेराव कर जिलाधिकारी का भी घेराव किया जाएगा। उन्होंने कहा कि नगर पालिका की जनता ने अध्यक्ष के ऊपर भरोसा करते हुए भारी मतदान करके जीत देकर नगर पालिका भेजा था कि नई महिला अध्यक्ष से विकास को गति मिलेगी लेकिन उक्त नगर अध्यक्ष जनता के विश्वास में खरी नहीं उतरी उन्होंने कहा कि वही आज तक किसी पूर्व अध्यक्ष के द्वारा ऐसा कोई कदम नहीं उठाया गया जिससे गरीब जनता पर बोझ पड़े 'राज बहादुर ने यह भी कहा कि पूरे मोहल्ले में नाली नाला बजबजा रहा है कूड़ा सड़को पर पड़ा रहता है उस पर ध्यान न देकर नगर पालिका की आय बढ़ाने की बात अध्यक्ष करती है जिसका जनता खुलकर विरोध करेगी। उन्होंने कहा कि इतना ही नहीं जबसे कविता पासी अध्यक्ष बनी है उसके बाद से आरओ का पानी पांच रुपए में मिलता था अब वही डिब्बा पच्चीस रुपए में कर दिया जिससे आय बढ़ाने के बजाय लोगो ने आरओ पानी का डिब्बा लेना ही बंद कर दिया एक हफ्ते में गृह कर की नोटिस को वापस नहीं लेती है तो सभी पार्टियों के साथ उग्र आंदोलन होगा फिर क्यो न जिलाधिकारी तक का घेराव करना पड़े इस मुददे पर सभी पार्टी सहित जनता भी नगर पालिका का घेराव के लिए तैयार है।

संपादक की कलम से

नेहरू पर लंबे विमर्श की जरूरत

विधानसभा चुनावों के परिणामों से गदगद प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने संसद के शीतकालीन सत्र के पहले दिन विपक्षी सांसदों को नसीहत दी थी कि वे सकारात्मक रहें, हार का गुस्सा संसद में न उतारें। विपक्ष के साथ-साथ शायद श्री मोदी को अब अपने सांसदों को भी नसीहत दे देनी चाहिए कि जब जनता लगातार हम (भाजपा) पर भरोसा दिखा रही है, तो अब उस भरोसे पर उतरने के काबिल खुद को बनाएं और बार-बार नेहरू की बुराइयां तलाशना बंद करें। दरअसल बुधवार को संसद में एक बार फिर पं.नेहरू को कोसा गया। लोकसभा ने बुधवार को जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन (संशोधन) विधेयक पारित कर दिया और इस दौरान गृहमंत्री अमित शाह ने कहा कि पीओके और कश्मीर के मसले को संयुक्त राष्ट्र में ले जाना नेहरूजी की बड़ी भूल थी। इसके साथ ही श्री शाह ने नेहरू के साथ ब्लंडर शब्द का इस्तेमाल करते हुए ये भी कहा कि कश्मीर में जनमत संग्रह के प्रस्ताव के लिए नेहरू ही जिम्मेदार थे।

देश के पहले प्रधानमंत्री पं.नेहरू को संसद में इस तरह पहली बार नहीं कोसा गया है। खुद श्री मोदी सदन के भीतर यह टिप्पणी कर चुके हैं कि गांधी परिवार के लोग नेहरू उपनाम क्यों नहीं लगाते, उन्हें नेहरू उपनाम से शर्मिंदगी क्यों होती है। देश के प्रधानमंत्री पद पर बैठे व्यक्ति के मुंह से ऐसी टिप्पणी अशोभनीय थी, लेकिन देश के प्रधानमंत्री पद पर बैठे व्यक्ति के मुंह से ऐसी टिप्पणी अशोभनीय थी, लेकिन इस पर किसी तरह का कोई अफसोस नहीं देखा गया। जबकि दुनिया भर के नेता पं. नेहरू की उदार, शांतिप्रिय, लोकतांत्रिक नीतियों, बुद्धिमत्ता और नेतृत्व क्षमता का लोहा मानते थे।

अमेरिका में ट्रंप सरकार के कार्यकाल में हुए हाउडी मोदी कार्यक्रम में अमेरिकी सीनेटर स्टेनी हॉयर ने श्री मोदी के सामने पं.नेहरू और गांधीजी को याद किया था। पिछले साल सिंगापुर की संसद में पीएम ली सीन लूंग ने जवाहरलाल नेहरू की तारीफ करते हुए कहा था कि देश में लोकतंत्र को कैसे काम करना चाहिए। ये कुछ मिसालें हैं, जो बताती हैं कि मौत की आधी सदी गुजर जाने के बाद भी नेहरू जी को लोग सम्मानपूर्वक याद करते हैं। भाजपा वैचारिक मतभेदों के कारण भले ही नेहरूजी को याद न करे, लेकिन इस तरह झूठे तथ्यों के साथ उनकी गलतियां गिनाकर उनका अपमान करना भी गलत है।

अमित शाह के संसद में नेहरूजी पर लगाए इल्जाम से पहले विधानसभा चुनावों के नतीजों वाले जिन भाजपा के ट्विटर हैंडल पर नेहरूजी की एक तस्वीर प्रकाशित की गई थी, जिसमें वे एक महिला के साथ सिगरेट पीते दिख रहे हैं। सिगरेट पीना कोई अच्छी बात नहीं है, लेकिन ये उस दौर की बात है जब सार्वजनिक धूम्रपान किया जाता था। आप उस आदत की आलोचना कर सकते हैं, लेकिन भाजपा ने चरित्रहनन के लिहाज से यह तस्वीर डाली थी। जब भाजपा जीत रही थी, उस वक्त अपनी खुशी जाहिर करने के लिए क्या उसे यही तरीका सूझा था, या फिर इसका कोई और मकसद था। और अभी संसद में फिर से नेहरूजी के जिम्मे गलतियां थोप कर भी भाजपा क्या हासिल करना चाहती है, यह समझना होगा।

जम्मू-कश्मीर में विशेष राज्य का दर्जा समाप्त हो चुका है, अनुच्छेद 370 मोदी सरकार ने हटा दिया है, राज्य दो हिस्सों में बंट गया है, लेकिन अब तक वहां चुनाव नहीं कराए गए हैं। सरकार सब कुछ सामान्य होने का दावा करती है, तो फिर अब चुनाव कराने का फैसला क्यों नहीं ले पाई है। कश्मीर के हालात के लिए नेहरूजी पर सारी जिम्मेदारी डालकर अपनी जिम्मेदारियों से कैसे बरी हुआ जा सकता है, ये सवाल भाजपा से पूछा जाना चाहिए। संसद में नेहरू के दो तथाकथित ब्लंडर जब श्री शाह गिना रहे थे, तो वे शायद इस तथ्य को भूल गए कि कश्मीर मसले पर अकेले नेहरू काम नहीं कर रहे थे, इतिहास में दर्ज है कि इसमें सरदार पटेल, लार्ड माऊंटबेटन, शेख अब्दुल्ला, वी के कृष्ण मेनन इन सबकी अहम भूमिकाएं थीं। भाजपा अगर इतिहास के पन्नों को पलटेगी तो देखेगी कि जनमत संग्रह का प्रस्ताव नेहरू की ओर से पहले नहीं आया था। इस मामले में भारत के तत्कालीन गवर्नर जनरल माउंटबेटन ने मोहम्मद अली जिन्ना से भी मुलाकात की थी, जिसके बाद 2 नवंबर 1947 को नेहरू को लिखे एक खत में माऊंटबेटन ने कहा कि

मैंने मिस्टर जिन्ना से पूछा कि आप कश्मीर में जनमत संग्रह का इतना विरोध क्यों करते हैं। उन्होंने उत्तर दियाः कारण यह है कि कश्मीर पर भारतीय उपनिवेश का अधिकार होते हुए और शेख अब्दुल्ला के नेतृत्व में नेशनल कांफ्रेंस के वहां सत्तारूढ़ होते हुए, वहां के मुसलमानों पर प्रचार और दबाव का ऐसा जोर डाला जाएगा कि औसत मुसलमान कभी पाकिस्तान के लिए वोट देने की हिम्मत नहीं करेगा। यानी जनमत संग्रह का डर जिन्ना को था, नेहरू को नहीं। वहीं भारत के गवर्नर जनरल की हैसियत से लॉर्ड माऊंटबेटन ने सबसे पहले संयुक्त राष्ट्र की निगरानी में जनमत संग्रह कराने की पेशकश जिन्ना से की थी। माऊंटबेटन के शब्दों में- 'मैंने सुझाया कि जनमत संग्रह का कार्य हाथ में लेने के लिए हम संयुक्त राष्ट्र संघ को निमंत्रित कर सकते हैं और मुक्त तथा निष्पक्ष जनमत संग्रह के लिए आवश्यक वातावरण उत्पन्न करने के लिए हम राष्ट्र संघ से ऐसी विनती कर सकते हैं कि वह पहले से अपने निरीक्षकों और संगठनों को कश्मीर भेज दे. मैंने दोहराया कि मेरी सरकार यह कभी नहीं चाहेगी कि कपटपूर्ण जनमत संग्रह द्वारा कोई झूठा परिणाम प्राप्त किया जाए।'

इस चिी से साफ होता है कि नेहरू ने न पहले जनमत संग्रह की बात की, इस मुद्दे को संरा तक ले जाने की पेशकश उनकी थी। मगर भाजपा आधी-अधूरी बातों को सदन के सामने रख रही है। पं.नेहरू तो अपना पक्ष रखने के लिए इस दुनिया में नहीं हैं, लेकिन शेख अब्दुल्ला के बेटे फारुख अब्दुल्ला ने इस पर प्रतिक्रिया दी है कि उस समय सेना पुंछ और राजौरी को बचाने में लगी थी। अगर ऐसा नहीं किया जाता तो पुंछ और राजौरी भी पाकिस्तान में चले जाते। तब इसके अलावा कोई रास्ता नहीं था। उन्होंने यह भी कहा कि लॉर्ड माऊंटबेटन और सरदार वल्लभभाई पटेल ने भी सुझाया था कि यह मामला संयुक्त राष्ट्र में जाना चाहिए। इसी तरह राजद सांसद प्रो.मनोज झा ने एक सटीक उपाय सुझाया है कि मोदी सरकरा को नेहरूजी के नाम का एक विभाग बना देना चाहिए। और यह भी कहा है कि यदि समस्या है तो नेहरू पर एक दिन 12 घंटे की चर्चा कर लें, सब दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। यह सुझाव भले ही तंज में दिया गया है, लेकिन अगर भाजपा इस पर अमल करने की हिम्मत दिखा दे तो सच में इतिहास के मोड़ के रखे गए पन्ने एक बार फिर जनता के सामने होंगे और जनता खुद तय कर लेगी कि नेहरूजी ने देश को संभालने और दिशा देने में कहां, कौन सी भूलें कीं।

रुपये में लगातार गिरावट गंभीर चिंता का विषय

नन्तू बनर्जी

रुपये की लगातार गिरावट में योगदान देने वाले कई कारक हैं। भारतीय अमीरों द्वारा विदेशी मुद्रा की फिजूलखर्ची उनमें से एक है। अन्य में मुद्रास्फीति, मुद्रास्फीति से असंबद्ध ब्याज दर, अंतरराष्ट्रीय व्यापार और भुगतान का घाटा संतुलन, उच्च विदेशी ऋण, राजकोषीय घाटा और सरकारी उधार शामिल हैं। मुद्रास्फीति, अंतर अनुमानित दरें और विदेशी विनिमय दरें सहसंबद्ध हैं। अपने हालिया 'मन की बात' रेडियो प्रसारण में, प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि वह कुछ 'बड़े परिवारोंइ द्वारा विदेश में शादियाँ आयोजित करने की प्रवृत्ति से परेशान थे, और लोगों से भारतीय धरती पर ऐसे समारोह आयोजित करने का आग्रह किया ताकि देश का पैसा देश से बाहर न जाये।' अब शादी का सीजन भी शुरू हो गया है। कुछ व्यापारिक संगठनों का अनुमान है कि इस शादी के सीजन में करीब 5 लाख करोड़ रुपये का कारोबार हो सकता है। आप सभी को शादियों की खरीदारी करते समय भारत में बने उत्पादों को ही महत्व देना चाहिए,' प्रधानमंत्री ने कहा।

प्रधानमंत्री का विचार बिल्कुल सही है। हालांकि, सवाल यह है कि घरेलू मुद्रा रुपये के बदले खरीदी गई विदेशी मुद्रा की ऐसी फिजूलखर्ची पर सरकार कब तक मूकदर्शक बनी रहेगी? जिस तरह से देश के अमीर भारत के गरीब किसानों, छोटे पैमाने के निर्यातकों और विदेशों में काम करने वाले प्रवासी श्रमिकों की मेहनत की विदेशी मुद्रा को बर्बाद करने के लिए विदेशों में पैसा खर्च कर रहे हैं, वह एक तरह से पूरे देश के लिए शर्म की बात है। कुछ साल पहले ही बॉलीवुड एक्टर दीपिका पादुकोण और रणवीर सिंह ने उत्तरी इटली के लेक कोमो के नजदीक एक रिसॉर्ट में शादी की थी। पिछले साल, साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट ने बताया था कि विदेशों में एक बड़ी भारतीय शादी के लिए वियतनाम का फुक्वोक अरबपति की पसंद क्यों है। शायद, अब समय आ गया है कि धनाढ्य भारतीयों द्वारा मौज-मस्ती और मनोरंजन के लिए विदेशी खर्च पर अंकुश लगाया जाये ताकि रुपये के मूल्य को आंशिक रूप से संरक्षित किया जा सके, जिसमें तब से लगातार गिरावट देखी जा रही है जब से सरकार ने विदेशी यात्रा खर्च नियमों में भारी ढील देने का फैसला किया है। 1980 के दशक के मध्य तक, विदेश जाने वाले भारतीय पर्यटकों को अधिकतम 500 अमेरिकी डॉलर की अनुमति थी, जब एक अमेरिकी डॉलर का विनिमय मूल्य केवल आठ रुपये के आसपास था। भारत के हजारों हज यात्रियों को उनकी महीने भर की हज यात्रा के दौरान सऊदी अरब में खर्च करने के लिए प्रत्येक को 300 डॉलर दिए गये थे। उन्होंने बॉम्बे बंदरगाह से जेद्दा तक जाने के लिए राज्य के स्वामित्व वाले मुगल लाइन जहाजों का इस्तेमाल किया। उन दिनों, अधिक कमाई करने वाले बॉलीवुड फिल्म आइकन भी खुशी-खुशी अपने विवाह समारोह घर पर आयोजित करते थे।

अंधाधुंध विदेशी खर्च और घरेलू साज-सज्जा सहित विलासिता की वस्तुओं के बढ़ते आयात के कारण, इस सदी की शुरूआत से ही भारतीय मुद्रा का मूल्य नीचे की ओर बढ़ रहा है। रुपये का मूल्य लगभग हर हफ्ते या हर महीने गिर रहा है। मई 2004 में एक अमेरिकी डॉलर की कीमत 45.32 रुपये थी। 2014 में वर्तमान सरकार के सत्ता में आने पर यह 62.33 रुपये तक पहुंच गया। मई 2014 और अब के बीच, अमेरिकी डॉलर के मुकाबले रुपये का विनिमय मूल्य 21 पायदान गिरकर 83.32 रुपये पर आ गया है। भारतीयों द्वारा रुपये के बदले में विदेशी धन की अंधाधुंध फिजूलखर्ची भारतीय मुद्रा के मूल्य में निरंतर गिरावट का एकमात्र कारण नहीं है, इसके अलावा कई अन्य कारण भी हैं। फिर उन सभी को सरकार द्वारा उचित रूप से नियंत्रित किया जा सकता है।

परन्तु दुर्भाग्य से ऐसा नहीं हो रहा है। सरकार रुपये के मूल्य की रक्षा के लिए पहल की कमी कर रही है। भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) के अनुसार, भारतीयों ने अकेले दिसंबर 2022 में यात्रा पर 1137 मिलियन डॉलर खर्च किये। इससे अप्रैल और दिसंबर 2022 के बीच सीमा पार छुट्टियों पर कुल खर्च 9947 मिलियन डॉलर या लगभग 10 अरब डॉलर हो गया। ऐसे देश के लिए जहां 800 मिलियन गरीबों को हर साल सरकार द्वारा मुफ्त अनाज दिया जाता है, यह आश्चर्यजनक लग सकता है। अमीर भारतीयों द्वारा साल-दर-साल बड़े पैमाने पर सोने के आयात का मामला भी ऐसा ही है। सोने की मांग और कीमतें लगातार बढ़ रही हैं क्योंकि अमीरों का भारत की कागजी मुद्रा के मूल्य में विश्वास खो रहा है। 2022-23 में, भारतीयों ने $35 अरब का सोना आयात किया। चांदी के आयात का मूल्य $5.29 अरब था। यह उस समय था जब देश में $267 अरब का व्यापार घाटा देखा गया था। चिंता की बात है कि वार्षिक व्यापार घाटा बढ़ रहा है, और भारतीय मुद्रा के मूल्य को कमजोर कर रहा है। भारत के मेहनतकश किसानों और प्रवासी श्रमिकों की विदेशी मुद्रा आय देश के अमीरों द्वारा किये जाने वाले विदेशी खर्च का भुगतान कर रही है। 2022-23 में, भारत का कृषि निर्यात 53.2 अरब डॉलर के सार्वकालिक उच्च स्तर को छू गया। विदेशों में काम करने वाले भारतीयों ने पिछले साल रिकॉर्ड विदेशी मुद्रा भारत भेजा। विश्व बैंक के नवीनतम प्रवासन और विकास आंकड़ों के अनुसार, भारत ने 2022 में देश में विदेशी मुद्रा प्रेषण में 24 प्रतिशत से अधिक की वृद्धि दर्ज की और यह रिकॉर्ड $111 अरब तक पहुंच गया।

हालांकि, विश्व बैंक ने भविष्यवाणी की कि भारत 2023 में केवल 0.2 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज कर सकता है। जुलाई 2022 तक, भारत से 1.3 मिलियन लोग काम करने के लिए पलायन कर गये। मापी गई समय अवधि के दौरान संयुक्त अरब अमीरात, संयुक्त राज्य अमेरिका और सऊदी अरब ने सबसे अधिक संख्या में भारतीय श्रमिकों की मेजबानी की। रुपये की लगातार गिरावट में योगदान देने वाले कई कारक हैं। भारतीय अमीरों द्वारा विदेशी मुद्रा की फिजूलखर्ची उनमें से एक है। अन्य में मुद्रास्फीति, मुद्रास्फीति से असंबद्ध ब्याज दर, अंतरराष्ट्रीय व्यापार और भुगतान का घाटा संतुलन, उच्च विदेशी ऋण, राजकोषीय घाटा और सरकारी उधार शामिल हैं। मुद्रास्फीति, अंतर अनुमानित दरें और विदेशी विनिमय दरें सहसंबद्ध हैं। इनमें से प्रत्येक कारक दूसरे को प्रभावित कर सकता है। जबकि कम मुद्रास्फीति और उच्च ब्याज दर किसी देश में विदेशी फंड को आकर्षित कर सकती है, इसकी विनिमय दर को मजबूत कर सकती है, उच्च मुद्रास्फीति और नियंत्रित ब्याज दर स्थानीय मुद्रा के मूल्य को नीचे ला सकती है। बड़े सार्वजनिक ऋ ण वाले देशों की मुद्राओं की विनिमय दरों में गिरावट देखी जा सकती है क्योंकि उन्हें जोखिम भरे निवेश स्थलों के रूप में देखा जाता है।

विशेषज्ञ चालू खाता घाटा- किसी देश के खर्च और कमाई के बीच का अंतर- को सबसे महत्वपूर्ण घाटे के मापदंडों में से एक के रूप में देखते हैं।

इसका मतलब है कि देश जितना कमाता है उससे ज्यादा खरीदारी पर खर्च कर रहा है। देश की निर्यात आय उसके बढ़ते आयात का भुगतान करने के लिए पर्याप्त नहीं है। इस अंतर को पूरा करने के लिए इसे विदेश से पैसा उधार लेना होगा। विदेशी मुद्रा की उच्च मांग घरेलू मुद्रा की विनिमय दर को कम कर देती है। एक बड़ा सार्वजनिक ऋण, घरेलू या विदेशी, उच्च मुद्रास्फीति का नुस्खा है। इससे देश की मुद्रा कमजोर हो जाती है। सरकार और रिजर्व बैंक को मिलकर रुपये के मूल्य की रक्षा के लिए एक मजबूत संकल्प लेना चाहिए, भले ही इससे देश के कुछ अमीर लोगों के बीच प्राधिकरण अलोकप्रिय हो जाये।

शकुनि के पांसों से खेलेंगे तो शकुनि ही जीतेगा

कुछ विद्वानों की ईमानदार समझदारी है कि साम्प्रदायिकता की काट करने के लिए उसके बारे में कुछ भी बोलने के बजाय चुप रहा जाना चाहिए और सारी शक्ति आर्थिक और दैनंदिन जीवन से जुड़े विषयों पर संघर्षों में लगाई जानी चाहिए। यह समझदारी अधूरी है, इसलिए कि विषबेल की जड़ और शाखाओं को निशाने पर लिए बिना सिर्फ कुछ पत्तियों को हिलाने से कुछ हासिल नहीं होता। यह बात इन चुनाव नतीजों में भी उजागर हुई।

ज्यादातर राजनीतिक विश्लेषकों ने विधानसभा चुनाव परिणामों - खासकर छत्तीसगढ़ और मध्यप्रदेश के नतीजों - को अप्रत्याशित बताया है । अनेक के अनुसार चुनाव से पहले राजस्थान में भी इस तरह का अंतर दिखाई नहीं दे रहा था। जितनी चौंकाने वाली यह जीत है उतना ही चौंकाने वाला इस जीत के बाद - खासकर मध्यप्रदेश में - पसरा सन्नाटा है। इतनी भारी भरकम जीत के बाद भी न कहीं कोई उल्लास है, न जनता में ही कहीं कोई जोश है।

किसी भी घटना विकास का कोई एकमात्र कारण नहीं होता, अनेक वजहें होती हैं जिनका जोड़ समुच्य अंततः परिणाम को निर्धारित करता है। अनेक ईंटें मिलाकर किसी इमारत को खड़ी करती हैं - मगर मुख्य होती बुनियाद और ईंटों को जोड़ने वाला सीमेंट!! निर्णायक वही होती है, मध्यप्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान के नतीजों के पीछे वह बुनियाद और सीमेंट क्या है इसे अब तक उपलब्ध कुछ उदाहरणों के जरिये समझा जा सकता है।

इनमें से एक है डाक मतपत्र ; सार्वजनिक क्षेत्र और संगठित क्षेत्र के मजदूर कर्मचारी इन दिनों अपने उद्योगों के अस्तित्व के संकट से गुजर रहे हैं। निजीकरण, वेतन समझौतों का लगातार टाला जाना और नई भर्ती पर रोक के चलते हुई काम बाढ़ और बढ़ती औद्योगिक असुरक्षा ने इन उद्योगों की तस्वीर ही बदल कर रख दी है। विधानसभा चुनाव में मध्यप्रदेश और छत्तीसगढ़ के जितने भी पब्लिक सेक्टर की बसाहटों के इलाके थे उनमें उसी पार्टी को ज्यादा वोट मिले जो यह सब भयानक तेजी के साथ कर रही है। क्यों?

छत्तीसगढ़ और राजस्थान की सरकारें पुरानी पेंशन योजना (ओपीएस) को लागू कर चुकी थीं । मध्यप्रदेश में मुख्य विपक्षी पार्टी कांग्रेस ने सरकार में आते ही ओपीएस को लागू करने का वायदा किया था। इसके बावजूद अब तक मिली जानकारी के मुताबिक इन तीनों ही प्रदेशों में कर्मचारियों के एक तिहाई, कहीं-कहीं इससे भी अधिक हिस्से ने वोट्स पेंशन बंद करने वाली भाजपा को दिए। क्यों?

एक बड़ा तबका मध्यम वर्गीय, निम्न मध्यमवर्गीय समुदाय का है; वह समुदाय जिसमें हर घर में दो या तीन बेरोजगार या अर्ध-बेरोजगार हैं। महीने के खर्च निकालने में पसीना निकल आता है, बैंक कर्ज की किश्तें चुकाने की चिंता में नींद हराम हुई पड़ी है, इसके बाद भी वह उन्हीं का बटन दबा कर आया है जिसकी वजह से ये मुश्किलें पैदा हुईं। क्यों?

मप्र में आदिवासियों के लिए आरक्षित आधे से ज्यादा और बस्तर की दो तिहाई और सरगुजा की सभी की सभी सीट्स जीत हासिल करती है, बाकी आदिवासी सीट्स पर भी उसके वोट्स बढ़ते हैं। क्यों?

महंगाई की आग का प्रत्यक्ष अनुभव करने वाली महिलाओं का बड़ा हिस्सा, सस्ते गैस सिलेंडर के वायदों के बावजूद अचानक उसी बटन को दबाकर आ जाता है जिन पर वह लानत भेज रहा था। क्यों?

इन सभी क्यों का एक ही जवाब है, इन सभी समानताओं का एक ही साम्य है; इसका नाम है हिंदुत्व!! वह हिंदुत्व जो धर्म की चाशनी में डुबोकर धतूरा मिली अफीम है। इसी का असर था कि जो सभी आपस में बैठते समय भाजपा सरकार की नीतियों पर गुस्सा उतारते हैं, उसके लिए उसे धिक्कारते हैं। इनमें से किसी भी शिकायत का जवाब दिए बिना, बल्कि इनकी पुष्टि करते हुए कोई चतुर सुजान धीरे से बोलता है कि 'कुछ भी कहो, हिन्दुओं को तो बचाया है।' और इस एक वाक्य से अंगुली सीधे उस जगह पहुंच जाती है, जहां वह खुद नहीं दबाना चाहता। मध्यप्रदेश में चुनाव की गरमागरमी शुरू होने के पहले ही सभी गांवों में एक एक बाबा- साधू-पुजारी की विधिवत ड्यूटी लगाई गई। इन पंक्तियों के लेखक ने स्वयं एक शुद्ध आदिवासी गांव में देखा कि दुर्गा पूजा के नाम पर एक चबूतरे पर एक अस्थायी मन्दिर बना है और एक पुजारी जी उसमें उन आरतियों को गवा रहे हैं जिनका न दुर्गा के साथ कोई रिश्ता है, न आदिवासी संस्कृति के साथ कोई संबंध हैं। पुजारी से बात करने से पता चला कि उनकी 'जिम्मेदारी' में यह गांव और यह काम है। इसके लिए वे हर शाम कोई 45 किलोमीटर दूर से सिर्फ यही कर्मकाण्ड कराने आते हैं और रात में फिर 45 किलोमीटर लौट जाते हैं। आदिवासियों को जनेऊ, चोटी का महत्व समझाते हैं और इस तरह इस कदर संस्कारित करते हैं कि इन दिनों अब उन्हें भी अपनी बच्चियों और महिलाओं को घर से बाहर जाने देना कुसंस्कार लगने लगा है।

ये वे गांव हैं जिनमें भले पीने के पानी के लिए हैण्डपम्प तक नहीं है - मगर मेड इन चाइना हैंडी लाउडस्पीकर्स में एक जैसी पेन ड्राइव से एक जैसे गीत और प्रवचन हैं, और उन्हें निश्चित समय पर बजाने वालों की तैनाती है। लगभग हर बड़े गांव के प्रवेश द्वार पर पंचायतों और ग्रामीण विकास के लिए आये फण्ड से पिछली कुछ वर्षों में नए-नए भगवानों की विशालकाय मूर्तियां खड़ी कर दी गईं हैं। यह प्रक्रिया आदिवासियों के हिन्दूकरण की महापरियोजना के तहत शुरू हुई थी - अब उनके उग्र हिन्दुत्वीकरण तक पहुंच गई है। जनमानस के विवेक को हर लेने, उसकी दृष्टि को संकुचित कर देने वाले इस नफरती कोहरे से सारे वातावरण को पाट दिया गया है। यही विवेक शून्यता है जो सब कुछ जानने समझने के बाद भी उसी अंधेरे कुंए में धकेल रही है, जिससे बाहर आने के लिए वह बाकी 4 वर्ष 364 दिन छटपटाता रहता है। सवाल यह है कि इसका मुकाबला कैसे किया गया? इतिहास का सबक है कि शकुनि के पांसों से खेलने की 'चतुराई' शकुनि की जीत को ही पक्का करती है !! उग्र हिंदुत्व और नर्म हिंदुत्व का रूपक तेज धधकती आग को सुलगती आग से ही बुझाने की कपोलकल्पना है। धार्मिक होना एक अलग बात है मगर धर्म का राजनीतिक इस्तेमाल एक बिलकुल ही अलग तरह का काण्ड है। साम्प्रदायिकता के उन्मादी प्रचार की काट और उसका तर्कसंगत जवाब ढूंढने की बजाय उन्हीं के उस अखाड़े में जाकर खेलना जिसके वे उस्ताद हैं- ऐसी कार्यनीति है जो साख और पहचान को ही धुंधला कर देती है। ऐसा करना सिर्फ धर्मनिरपेक्षता की समझदारी के ही उलट नहीं हैं बल्कि उस कथित सर्व धर्म समभाव की धारणा के भी खिलाफ है जिसे पिछले कुछ दशकों से इस देश की अनेक धर्मनिरपेक्ष पार्टियों ने अपनाया हुआ है। सांड को सींग से पकड़ना होता है। पूंछ से पकड़ने पर वही स्थिति होती है जो हुई है। कुछ विद्वानों की ईमानदार समझदारी है कि साम्प्रदायिकता की काट करने के लिए उसके बारे में कुछ भी बोलने के बजाय चुप रहा जाना चाहिए और सारी शक्ति आर्थिक और दैनंदिन जीवन से जुड़े विषयों पर संघर्षों में लगाई जानी चाहिए। यह समझदारी अधूरी है, इसलिए कि विषबेल की जड़ और शाखाओं को निशाने पर लिए बिना सिर्फ कुछ पत्तियों को हिलाने से कुछ हासिल नहीं होता।

आसमान में सूराख कैसे करेगी कांग्रेस

सर्वमित्रा सुरजन

कांग्रेस को अगर वाकई देश के लोकतंत्र को बचाना है तो उसे जनता को यह समझाना होगा कि छह दिसंबर 1992 को देश ने क्या खोया है। और इसमें केवल भाजपा की बुराई या श्री मोदी का मखौल उड़ाने से काम नहीं चलेगा। कांग्रेस को ये भी साबित करना होगा कि उसके शासन में अभी से बेहतर क्या हो सकता है। छह दिसंबर 1992 का दिन था, जब ऐतिहासिक बाबरी मस्जिद को तोड़कर, भाजपा की सत्ता की नींव देश में मजबूती से रख दी गई थी। अब उस जगह पर भव्य राम मंदिर बन कर लगभग तैयार है, जिसका उद्घाटन कर अगले कई दशकों तक भाजपा अपनी सत्ता को पक्का बना लेना चाहती है। 1956 के बाद 1992 को बाबा अंबेडकर की दोबारा मौत हुई थी। एक बार स्वाभाविक मृत्यु आने के बाद, दूसरी बार बाबा साहब के सपनों को कुचलकर मौत देने से उन्हें कितनी तकलीफ हुई होगी, यह बताने के लिए वे भौतिक तौर पर उपस्थित नहीं हैं। लेकिन आसपास नजर उठाकर देख लीजिए, गैरबराबरी के शिकार लोगों की तकलीफें उसी पीड़ा को अभिव्यक्त करेंगी, जो डॉ.अंबेडकर और पूरी संविधान सभा के लोगों को हुई होगी। छह दिसंबर को बाबरी मस्जिद प्रत्यक्ष तौर पर तोड़ी गई थी, मगर उसके साथ-साथ संविधान को भी तहस-नहस किया गया था। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, विश्व हिंदू परिषद, भाजपा और यहां तक कि कांग्रेस में भी बहुत से लोग होंगे, जो इस दिन को भारत के लिए गौरवशाली मानते होंगे, मगर आने वाली पीढ़ियां शायद इस बात को समझेंगी कि संवैधानिक मूल्यों को सहेज कर न रख पाने की कितनी बड़ी कीमत देश को चुकानी पड़ रही है। अभी पांच राज्यों के विधानसभा चुनाव खत्म हुए हैं और इसके बाद आम चुनाव की चर्चा तेज हो गई है। पांच में से तीन राज्यों में जीत कर भाजपा अब हैट्रिक की बात करने लगी है। ये हैट्रिक तीन राज्यों की जीत की नहीं, बल्कि सत्ता में लगातार तीसरी बार आने के लिए कही जा रही है। प्रधानमंत्री मोदी ने तो इस बार लालकिले से ही ऐलान कर दिया था कि मैं ही अगली बार भी झंडा फहराने आऊंगा। तब विधानसभा चुनाव होने वाले थे और उससे पहले कर्नाटक में भाजपा मात खा चुकी थी, फिर भी श्री मोदी इस तरह के दावे कर रहे थे और अब तो तीन जीतों के साथ यह दावा और पुख्ता हो गया है। हालांकि ये बात तब भी लोकतंत्र के खिलाफ थी और अब भी है कि बिना चुनाव हुए ही, किसी की जीत या सत्ता वापसी की मुनादी कर दी जाए। दरअसल अब चुनाव में प्रचार और रणनीतियां जमीनी तौर पर कम और दिमागी तौर पर अधिक असर करने वाली बनाई जाने लगी हैं। यह हिटलर के सहयोगी गोएबल्स का तरीका है कि किसी झूठ को सौ बार दोहराओ तो वो सच लगने लगता है। इस समय देश में भी झूठ और सच सब आपस में गड्ड-मड्ड हो गए हैं। फिलहाल सच यही है कि छत्तीसगढ़, मध्यप्रदेश और राजस्थान में कांग्रेस का शोर होने के बावजूद भाजपा जीत गई है। बताया जा रहा है कि इस जीत पर अंदरखाने भाजपा के लोगों को भी यकीन नहीं हो रहा है। मध्यप्रदेश में पिछली बार भी कांग्रेस की जीत हुई थी और उसके बाद ज्योतिरादित्य सिंधिया की बगावत के कारण सत्ता हाथ से निकल गई थी। कांग्रेस को उम्मीद थी कि इस सत्ता चोरी का जवाब जनता उसके हक में देगी। खुद श्री सिंधिया के साथ गए कई पूर्व कांग्रेसियों ने घरवापसी कर ली थी। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह भाजपा सरकार के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का नाम लेने से बचते रहे। जब उम्मीदवार खड़े करने की बारी आई तो भाजपा ने सात सांसदों को मैदान में उतारा। इस बीच आदिवासी पेशाब कांड, महाकाल में मूर्तियों का गिरना, तरह-तरह के घोटाले और धांधलियों के कारण भाजपा की छवि खराब हुई। इन सबसे यही समझ आ रहा था कि जीत कांग्रेस को ही मिलने वाली है। लेकिन कांग्रेस की यह उम्मीद झूठी साबित हुई। या तो कांग्रेस अतिआत्मविश्वास और कमलनाथ पर यकीन करने का शिकार हो गई, या फिर जैसा आरोप लगाया जा रहा है ईवीएम की गड़बड़ी के कारण उसे हार मिली। दिग्विजय सिंह और कमलनाथ ईवीएम में धांधलियों की शिकायत कर रहे हैं। लेकिन एक सच ये भी है कि मध्यप्रदेश में नरोत्तम मिश्रा जैसे नेता भी हार गए हैं। तो क्या ईवीएम की गड़बड़ी भी सोच-समझकर की गई है। ईवीएम को लेकर शिकायतें एक साल की बात नहीं है, हर साल, हर चुनाव में ईवीएम पर कई सवाल उठते हैं।

उत्पादन बढाने को क्षेत्रवार फसलों के हिसाब से करें खेतीः मंत्री

तीन मंडलों की हुई रबी उत्पादकता गोष्ठी

अखंड भारत संदेश

चित्रकूट। सूबे के कृषि शिक्षा एवं कृषि अनुसंधान मंत्री सूर्य प्रताप शाही के मुख्य आतिथ्य व कृषि उत्पादन आयुक्त मनोज कुमार सिंह की अध्यक्षता में मंडलीय रबी उत्पादकता गोष्ठी चित्रकूट धाम मंडल बांदा, झांसी व कानपुर मंडल की गोष्ठी राष्ट्रीय रामायण मेला परिसर में हुई।

शुक्रवार को कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही व कृषि उत्पादन आयुक्त समेत जनप्रतिनिधियों व वरिष्ठ अधिकारियों ने फीता काट एवं मां सरस्वती के चित्र पर माल्यार्पण कर दीप जलाकर शुभारम्भ किया। बतौर मुख्य अतिथि सूर्य प्रताप शाही ने कहा कि तीन मंडलों की रबी उत्पादकता गोष्ठी भगवान कामतानाथ की धरती पर हो रही है। उन्होंने कहा कि दलहन-तिलहन की पैदावार बढे, 71 हजार किसानों को तीन मंडलों में बीजों के मिनीकिट दिये गये हैं। आजादी से पहली बार प्रधानमंत्री व मुख्यमंत्री की अगुवाई में ये कार्य हुआ है। विकसित भारत यात्रा लागू कर गांव-गांव भारत सरकार व प्रदेश सरकार की योजनाओं का लाभ जनता को दिया जा रहा है। कृषि क्षेत्र को आगे बढ़ाने को रासायनिक उर्वरक का प्रयोग कम करें। प्राकृतिक खेती अपनायें, पेट्रोल-डीजल फर्टिलाइजर व तेल में अधिक पैसा लगता है। धान की लागत से बाजरा की फसल अच्छी है, बाजरा में कोई खाद का प्रयोग नहीं होता। चित्रकूट धाम मंडल बांदा, झांसी मंडल के मंडलायुक्त से कहा कि दोनों मंडल में बाजरा की खरीद्दारी बढाई जाये। दो लाख रुपए के किसान क्रेडिट कार्ड पशुओं की खरीद को दिये जा रहे हैं। किसानी के साथ किसान उद्यमी भी बने। मुख्यमंत्री ने किसानों की आय बढाने को खेत तालाब की मिट्टी से खेत की मेड बनाने, इमारती लकड़ी के वृक्ष, फल-फूल लगाने, मेड़ों पर अरहर की बुवाई करने, बुंदेलखंड में दलहन की फसल मुख्य है। प्रधानमंत्री ने 18 फसलों में रबी व खरीफ में एमएसपी में बढ़ोतरी की है।

कृषि उत्पादन आयुक्त मनोज कुमार सिंह ने कहा कि प्रदेश में छह लाख टन का उत्पादन विभिन्न फसलों खरीफ व रबी में हो रहा

सब्जियों का स्टाल देखते कृषि मंत्री आदि।

है, चार लाख टन रबी में फसलें होती है। गोष्ठी का मतलब ये है कि खेती को कैसे बढ़ावा दिया जाए, काफी लोगों ने खेती के बारे में बताया है। सचिव कृषि ने जिलों में खाद वितरण का औसत बढ़ा है। प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देकर स्वावलम्बी बनें। जिलाधिकारी महोबा व ललितपुर से कहा कि जो प्रोसेसिंग प्लांट लगाये हैं, उनका शुभारंभ जल्द शासन करने जा रही है। सही ढंग से चलायें, किसान 365 दिन में 300 दिन खेती कर रहे हैं, आमदनी कैसे दोगुनी हो, सरकार कार्य कर रही है। सूबे के सचिव/निदेशक कृषि डॉ राजशेखर ने मंत्री व कृषि उत्पादन आयुक्त का आभार जताया। निदेशक उद्यान खाद्य एवं प्रसंस्करण डॉ अतुल कुमार सिंह ने आधुनिक फसलों के बढ़ावा देने पर जोर दिया। कुलपति कृषि विश्वविद्यालय बांदा नरेन्द्र प्रताप सिंह ने कहा कि अन्ना प्रथा बुंदेलखंड में अधिक है, नस्ल सुधार किया जाए। प्रगतिशील किसानों को प्रशस्ति पत्र व चाबी बांटी गई। मंडलायुक्त बांदा बालकृष्ण त्रिपाठी ने मंत्री के प्रति आभार जताया। मंडलायुक्त कानपुर अमित गुप्ता ने कहा कि मंडल में रबी की फसल मुख्य है, बढ़ाने का प्रयास जारी है। मंडलायुक्त झांसी डॉ आदर्श सिंह ने कहा कि रबी की मुख्य फसल समेत चना, मसूर व सरसों है। बीज-खाद की पर्याप्त व्यवस्था है। रबी उत्पादकता गोष्ठी में विभिन्न जिलों हमीरपुर से राजबहादुर, बांदा से आलोक सिंह, चित्रकूट से रेवतीरमण त्रिपाठी, झांसी से कमलेश कुमार लंबरदार, कानपुर नगर से राजकिशोर, कानपुर देहात से बलजीत सिंह, फरुर्खाबाद से बबलू राजपूत, इटावा से अरविंद प्रताप सिंह, औरैया, कन्नौज आदि किसानों ने सुझाव दिए।

अंत में जिलाधिकारी अभिषेक आनन्द ने रबी उत्पादकता गोष्ठी में मंत्री, कृषि उत्पादन आयुक्त समेत अधिकारियों व जनप्रतिनिधियों तथा किसान भाइयों के प्रति आभार जताया। इसके पहले जिलाधिकारी अभिषेक आनन्द, सीडीओ अमृतपाल कौर, उपनिदेशक कृषि राजकुमार, जिला कृषि अधिकारी आरपी शुक्ला समेत अन्य अधिकारियों ने मंत्री समेत अतिथियों व वरिष्ठ अधिकारियों को पुष्प गुच्छ एवं स्मृति चिन्ह भेंटकर स्वागत किया। संचालन शिक्षक साकेत बिहारी शुक्ला ने किया। इस मौके पर विधायक मानिकपुर अविनाश चंद्र द्विवेदी, जिला पंचायत अध्यक्ष अशोक जाटव, भाजपा जिलाध्यक्ष लवकुश चतुर्वेदी, सांसद प्रतिनिधि शक्ति प्रताप सिंह तोमर, डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक अध्यक्ष पंकज अग्रवाल, नगर पालिका अध्यक्ष नरेंद्र गुप्ता, ब्लॉक प्रमुख पहाड़ी सुशील द्विवेदी, रामनगर गंगाधर मिश्रा आदि जनप्रतिनिधि व किसान मौजूद रहे। जिलाधिकारी व पुलिस अधीक्षक श्रीमती वृन्दा शुक्ला ने मंत्री व कृषि उत्पादन आयुक्त को पुष्प गुच्छ एवं माल्यार्पण कर देवांगना एयरपोर्ट पर स्वागत किया।

गुरु को प्रणाम करने में न करें शर्मः बलुआ महाराज

अखंड भारत संदेश

चित्रकूट। एसडीएम कालोनी में चल रही श्रीमद्भागवत कथा के चैथे दिन श्री कृष्ण प्राकोट्सव की कथा सुनाते हुए कथावाचक बलुआ महाराज ने कहा कि श्री मद्भागवत में लिखे मंत्र व श्लोक भगवान की आराधना व चरित्र का वर्णन ही नहीं है, बल्कि कथा में सारे तत्व हैं, जिनके माध्यम से जीव अपना कल्याण कर सकता है। जुडे लोगों का भी कल्याण होता है।

शुक्रवार को कथा वाचक बलुआ महाराज ने कहा कि जीवन में व्यक्ति को भागवत कथा सुनना चाहिए। बिना आमंत्रण के भी कहीं पर भागवत कथा हो रही है, वहां जाना चाहिए। इससे जीव का कल्याण होता है। आचार्य श्री ने

कथा बांचते बलुआ महाराज।

कृष्ण से संस्कार की सीख लेने की बात कही। श्रीकृष्ण जानते थे कि वह परमात्मा हैं, अपने माता-पिता व गुरुदेव के चरणों को प्रणाम करने में संकोच नहीं करते थे। ये सीख सभी को भगवान से लेनी चाहिए। युवा पीढी धन कमाने में लगी है, कुल धर्म व मयार्दा का पालन लोग कम कर रहे हैं। युवा पीढ़ी को माता-पिता व गुरु को प्रणाम करने में शर्म नहीं चाहिए। इस दौरान मुख्य यजमान रामसूरत पयासी, सावित्री देवी, राधेरमण पयासी, उमेश पयासी, निरंजन मिश्र, सत्यप्रकाश द्विवेदी, रोहित कुमार मिश्र, प्रशांत कुमार द्विवेदी, प्रभाकर द्विवेदी, अनिता द्विवेदी, सतरूपा मिश्रा, साधना मिश्रा आदि मौजूद रहे।

सुलह-समझौते से आज लगेगी लोक अदालतः जिला जज

अखंड भारत संदेश

चित्रकूट। नौ दिसम्बर शनिवार को होने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत के आयोजन को जनपद न्यायाधीश ने सभी न्यायिक अधिकारियों को सुलह-समझौते से अधिक से अधिक वाद निस्तारित करने को कहा।

शुक्रवार को जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष जनपद न्यायाधीश विकास कुमार प्रथम ने राष्ट्रीय लोक अदालत के नोडल अधिकारी अपर जिला जज दीपनारायण तिवारी व जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव अपर जिला जज फार्रुख इनाम सिद्दकी के साथ बैठक की। उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देश पर नौ दिसम्बर को दीवानी

बैठक करते जिला जज।

न्यायालय चित्रकूट समेत सभी राजस्व न्यायालय, बाह्य न्यायालय मऊ, ग्राम न्यायालय मानिकपुर में राष्ट्रीय लोक अदालत होगी। जिसमें शमनीय आपराधिक वाद, धारा-138 एनआई एक्ट, मोटर दुर्घटना दावा वाद, श्रम वाद, बैंक वसूली वाद, विद्युत अधिनियम और जल वाद, सेवा मामले, पारिवारिक/वैवाहिक वाद, भूमि अधिग्रहण वाद, राजस्व/चकबन्दीवाद, किरायेदारी वाद, सुखाधिकार वाद, स्थायी निषेधाज्ञा व सिविल वाद, राजस्व वसूलीवाद, मोटर वाहन ई-चालान, लघु आपराधिक वाद आदि का निस्तारण किया जाएगा। ऐसे वाद जो अभी न्यायालय के समक्ष नही आये हैं (विशेषकर पारिवारिक मामले), का निस्तारण प्री-लिटिगेशन के जरिए होगा। उपभोक्ता फोरम तथा आर्बिट्रेशन सम्बन्धित वाद भी निस्तारित होंगे।

जिला जज ने कहा कि सुलह-समझौते पर मुकदमों का निस्तारण कराने को बड़े पैमाने पर पक्षकारों को नोटिस व सम्मन भेजे गए है। किसी पक्षकार को नोटिस, सम्मन नहीं मिले तो पक्षकार सुलह-समझौते पर निस्तारण चाहते है तो सीधे राष्ट्रीय लोक अदालत में वाद निस्तारित करा सकते हैं। सुलह-समझौते पर निस्तारित मुकदमों में दोनों पक्षों की हार नहीं होती है। समाज में तालमेल बना रहता है।

बच्चों के विवाद में बडों में चले लाठी-डंडे, महिला समेत चार घायल

अखंड भारत संदेश

मानिकपुर/चित्रकूट। गढचपा गांव में बच्चों से शुरू हुई लड़ाई में महिला समेत चार लोग घायल हो गये। प्राथमिक इलाज के बाद घायलों को जिला अस्पताल रेफर किया है। शुक्रवार को मानिकपुर थाने के गढचपा गांव में स्कूली बच्चों के बीच गाली-गलौज से विवाद शुरू हुआ। पीड़ित पक्ष ने विपक्ष के बच्चों को गाली देने से मना किया। दोनों के बीच तू-तू, मै-मै हुई। समझौते के बाद मामला सुलझ गया। कुछ देर बाद दूसरा पक्ष लाठी-डंडे व कुल्हाडियों से लैस होकर पीड़ित पक्ष पर हमला बोल दिया। पीड़ित पक्ष के ननकौना पुत्र छेतानी, सन्तलाल पुत्र छेतानी, राजू पुत्र स्व चुक्कू व महिला सोनू पत्नी संगमलाल बुरी तरह घायल हो गए। सिर में ज्यादा चोंट लगने से हालत गंभीर होने पर तीन घायलों को जिला अस्पताल रेफर किया है। ननकौना कि स्थिति नाजुक बनी है। पीड़ितो के अनुसार राम प्रसाद, नन्हेवा, संतोष, रज्जू, राजा, मुन्नी व दो बहुओं ने कुल्हाड़ी व डंडो से हमला किया था, जबकि संतोष व राजा असलहे लिये थे। इस बाबत एएसपी चक्रपाणि त्रिपाठी ने बताया कि कल देर शाम बच्चों के बीच हुए विवाद को लेकर एक पक्ष ने थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। मामले की जांच कराकर आरोपियों को गिरफ्तार किया जायेगा।

खजुराहो फिल्म फेस्टिवल में जलवा बिखेरेंगी प्रतिभायें

अखंड भारत संदेश

चित्रकूट। 9वें खजुराहो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में चित्रकूट धाम मंडल के प्रतिभायें प्रस्तुति देने को ऑनलाइन आवेदन किया है। मुंबई की फिल्मी हस्तियों के सामने मंडल की प्रतिभायें हुनर का जलवा बिखेरेंगी। विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य करने वाले विशिष्टजनों का सम्मान होगा।

शुक्रवार को बुन्देली सेना जिलाध्यक्ष अजीत सिंह ने बताया कि लोककलाकार भी फेस्टिवल में प्रस्तुति देंगे। बुंदेली कला संस्कृति परवान चढ़ेगी। खजुराहो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल के

फाइल फोटो खजुराहो।

यूपी बुंदेलखंड प्रभारी अजीत सिंह ने बताया कि इसे यादगार बनाने को संयोजक राजा बुंदेला युद्धस्तर पर डटे हैं। श्री देवी को समर्पित इस आयोजन में दर्जनों फिल्में प्रदर्शित होंगी। नए फिल्म निमार्ताओं की बनाई फिल्में, लघु फिल्म, वृत्तचित्र आदि प्रदर्शित कर उन्हें प्रमाण पत्र सौंपे जाएंगे। यूपी-एमपी बुंदेलखंड के 17 जिलों से लाखों लोग सात दिवसीय आयोजन में शिरकत करते हैं। रोज दिन में टपरा टाकीजों में फिल्मों का प्रदर्शन होता है। शाम को रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत होते है। प्रत्येक दिन राजनैतिक हस्तियां और मुंबई के नए कलाकार मंच की शोभा बढ़ाते हैं।

इस बार फेस्टिवल में फिल्म अभिनेता असरानी, अनिल कपूर, नाना पाटेकर, राजबब्बर, गुलशन ग्रोवर समेत दर्जनों अभिनेता शिरकत करेंगे। अभिनेत्री उर्मिला मातोंडकर, मंदाकिनी, रवीना टंडन, जया प्रदा समेत कई अन्य फिल्मों व धारावाहिक की नामचीन अभिनेत्रियां शिरकत करेंगी। फेस्टिवल में युवा कलाकारों के लिए रोज कार्यशाला भी आयोजित की जावेंगी। अभिनेत्री सुष्मिता मुखर्जी, आरिफ शहडोली व अन्य कई अनुभवी कलाकार युवाओं को मार्गदर्शन देते हैं। मुंबई से शिरकत करने वाले अभिनेता व अभिनेत्रियों को अनुभव साझा करने का मौका मिलता है। दो चयनित होनहार कलाकारों को ओमपुरी फाउंडेशन स्कालरशिप देती है। फेस्टिवल मप्र के पर्यटन एवं संस्कृति विभाग करता है।

पहाडी ब्लाक में हो रहे मानकविहीन कार्य, बीडीसी ने लगाया आरोप

अखंड भारत संदेश

पहाड़ी/चित्रकूट। एक ओर मोदी-योगी सरकार भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाते हुए सरकारी कार्यों में गुणवत्ता के निर्देश दे रहे हैं, दूसरी ओर प्रधान-सचिव कमीशनखोरी कर रहे हैं। क्षेत्र पंचायत सदस्य मनोज पांडेय ने बताया कि चकौध में राज्यवित्त, 15वें वित्त योजना से देव कुमार के घर से मेनरोड तक स्टीमेट से हटकर मानकविहीन इंटरलॉकिंग कार्य हो रहा है।

शुक्रवार को क्षेत्र पंचायत सदस्य ने बताया कि साइड वॉल में घटिया ईट लगाई जा रही है। साइड वॉल मे क्रेशर डस्ट की बालू में कम मात्रा में सीमेंट का प्रयोग किया है। इंटरलॉकिंग के नीचे मोरम नहीं लगाई। नाम मात्र को गिट्टी डालकर डस्ट बिछाकर इंटरलॉकिंग की गई है। मजे की बात ये है नेशनल हाईवे में सीमांकन पत्थरगड़ी होने के बाद भी रोड तक इंटरलॉकिंग क्यों नहीं कराई जा रही। आठ साल पहले बने इंटरलॉकिंग से जोड़ते हुए 25 मीटर इंटरलॉकिंग का कार्य प्रधान-सचिव कर सरकारी धन को बर्बाद करने में लगें हैं। क्षेत्र पंचायत सदस्य मनोज पांडेय ने बताया कि तैनात सचिव अन्य विकास कार्य में बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार किया है। भ्रष्टाचार के आरोप में जेल तक जा चुका है। पहाड़ी ब्लाक में तैनाती होने के बाद भी गड़बड़ी से बाज नहीं आ रहा। खुलेआम घटिया काम कराने का आदी है। अमृत सरोवर तालाब में घटिया टीन शेड लगाया है। घटिया काम की अधिक धन निकासी की है। देखना है कि आकांक्षी जिला में घटिया काम करने वाले के खिलाफ क्या कार्यवाही होती है। इस बाबत अपर जिला पंचायत राज अधिकारी रमेश गुप्ता ने कहा कि वह मीटिंग में हैं।

काली घाटी में ई-रिक्शा पलटा, आधा दर्जन छात्र घायल

मानिकपुर/चित्रकूट। आदर्श इंटर कालेज मानिकपुर व सेम्स माडल स्कूल की छुट्टी होने के बाद ई-रिक्शा से गांव जा रहे आधा दर्जन छात्र-छात्रायें काली घाटी में ई-रिक्शा पलटने से घायल हो गये। सभी घायलों को सरैंया चैकी पुलिस ने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र मानिकपुर में भर्ती कराया। ये हादसा शुक्रवार को शाम चार बजे के बाद हुआ। बताया गया कि विनयनगर कालीघाटी में ई-रिक्शा अचानक पलट गया। चालक रोहित (25) पुत्र कमलेश डांडी छात्रों को लेकर जा रहा था। अचानक ई-रिक्शा के पलटने से छात्रा गुडिया (16) पुत्री समरजीत निवासी हनुवा, ऊषा देवी पुत्री कामता प्रसाद हनुवा, मोनू पुत्र शिवपाल सरैंया, प्रियांशू पुत्र राममनोहर, आकाश पुत्र रामगोपाल, सर्वेश पुत्र शिवबाबू घायल हो गये। घायल छात्रों को सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में भर्ती कराया। बताया गया कि चालक शराब के नशे में था। बच्चे स्कूल की छुट्टी के बाद रोज की भांति घर जा रहे थे। प्रियांशु को जिला अस्पताल रेफर किया है।

छात्रवृत्ति को नई समय सारिणी जारी

चित्रकूट। जिला समाज कल्याण अधिकारी ज्ञानेन्द्र सिंह भदौरिया ने बताया कि उप्र शासन से संचालित पूर्व दशम छात्रवृत्ति कक्षा 9-10 योजना से वित्तीय वर्ष/शैक्षिक 2023-24 में मास्टर डाटा, आनलाइन आवेदन से लेकर वितरण को छह दिसम्बर संशोधित समय सारिणी जारी की है। आठ से 11 दिसम्बर तक विद्यालय मास्टर डाटा तैयार करेंगे। 15 तक जिला विद्यालय निरीक्षक सत्यापन, दो जनवरी तक छात्र-छात्राओं के आनलाइन आवेदन, छात्र/छात्राओं के आनलाइन आवेदन पूरा करने, फाइनल प्रिन्ट आउट निकालने से पहले तीन कार्य दिवसों में छात्र/छात्रओं की त्रुटियां सुधार, फाइनल प्रिन्ट आउट निकालने से पहले तीन कार्य दिवसों में छह जनवरी तक हार्डकापी छात्र/छात्रओं के वांछित संलग्नकों समेत सम्बन्धित विद्यालय में जमा करना होगा। 15 जनवरी तक सम्बन्धित विद्यालय आवेदन पत्र को आनलाइन सत्यापित एवं अग्रसारित करेंगे। उन्होंने बताया कि योजना के तहत सभी संबंधित शिक्षण संस्थाओं एवं छात्र-छात्राओं को सूचित किया है।

कथा समाप्तः कलिकाल में होते हैं वर्जित विवाहः कथा व्यास

अखंड भारत संदेश

भरतकूप/चित्रकूट। रौली गांव में श्रीमद्भागवत कथा बांचते हुए कथा व्यास अवधेश पाण्डेय ने पं काशी प्रसाद मिश्रा सेवानिवृत्त शिक्षक को स्रोता बनाकर सात दिवसीय श्रीमद्भागवत कथा सुनाई। शुक्रवार को सातवें दिन कथा व्यास ने श्रीमद्भागवत महापुराण की पावन कथा सुनाते हुए कहा कि गोस्वामी तुलसीदास के पावन कला कौशल से रामचरितमानस की महत्ता रेखांकित की है। कामतानाथ की महिमा का वर्णन किया है। पावन भूमि समीप रौली में कथा सुनने व सुनाने का मौका मिला, जो ईश्वर की कृपा से सम्भव हुआ है। पतित पावनी मन्दाकिनी के तट पर स्थित रौली गांव की मरुधरा में रहने वाले

कथा व्यास अवधेश पाण्डेय।

धन्य हैं। कथा व्यास ने अंतिम दिन कथा का मनोहारी वर्णन किया। राजा नृग का संक्षिप्त परिचय दिया। भगवान श्री कृष्ण ने वृन्दावन में जो अलौकिक लीलायें की हैं, उन पर प्रकाश डाला। श्रीकृष्ण चरित्र को समझना सहज नहीं है। कथाव्यास ने योगेश्वर श्री कृष्ण की मनोहारी लीलाओं का वर्णन किया। कथा व्यास ने कहा कि शास्त्रों में आठ प्रकार के विवाह बताए गए हैं, चार प्रकार के विवाह को छोड़कर सभी विवाह कलिकाल में निषिद्ध हैं। दुर्भाग्य से जो विवाह धर्म शास्त्रों में निषिद्ध हैं, वह कलिकाल में आधुनिक समाज में शास्त्रों में निषिद्ध विवाह ज्यादा देखने को मिल रहे हैं।

सहयोगी आचार्य के सहयोग से वैदिक पद्धति से कथा ज्ञान यज्ञ समापन की पूजा-अर्चना हवन-पूजन से हुआ। कथा सुनने विभिन्न गांव के तमाम लोग मौजद रहे। कथा परिसर व्यवस्था आशीष मिश्रा, मनीष मिश्रा, संतोष मिश्रा, सन्तू, छोटेलाल मिश्रा, बैजनाथ मिश्रा, राधेश्याम, रामसजीवन मिश्रा आदि ने की।

एंटी रोमियो टीमें शोहदों-मनचलों पर करती हैं कार्यवाही

अखंड भारत संदेश

चित्रकूट। मिशन शक्ति-4 व शक्ति दीदी अभियान में पुलिस अधीक्षक श्रीमती वृंदा शुक्ला के निर्देश पर नोडल अधिकारी/मिशन शक्ति सीओ राजापुर/लाइन्स श्रीमती निष्ठा उपाध्याय की देखरेख में थाना क्षेत्रों में एंटी रोमियों टीमों ने सार्वजनिक स्थलों व गांवों में भ्रमण किया।

शुक्रवार को महिलाओं/बालिकाओं को मिशन शक्ति व शक्ति दीदी ने सार्वजनिक स्थलो चैराहे, बाजारों को अराजकतत्वों से मुक्त कराने व महिलाओ एवं बालिकाओं के साथ राह चलते छेडखानी, अभद्रता, अश्लील प्रदर्शन, अभद्र टिप्पणियां आदि

पम्पलेट बांटती एंटी रोमियो।

घटनाओं को रोकने को जागरुक किया। महिला/बालिकाओं को सुरक्षा बाबत फोन नम्बर बताये। महिलाओं/बालिकाओं को बताया कि सभी थानों में महिलाओं की सुरक्षा/सहायता को महिला हेल्पडेस्क है। महिला पुलिस कर्मी महिलाओं की शिकायत सुनकर निस्तारण करती हैं। महिलाओं/बालिकाओं को महिला सुरक्षा बाबत हेल्पलाइन नम्बरों के पंपलेट बांटे। महिलाओं/बालिकाओ को हेल्पलाइन नम्बर का निर्भीक होकर उपयोग करने, महिलाओ को आत्मनिर्भर बनने, क्षेत्र में कार्य करने/शिक्षा ग्रहण करने को प्रेरित किया। सोशल मीडिया में प्राइवेसी रखते हुये प्रयोग करने की सलाह दी। महिलाओं/बालिकाओ को जिले में गठित एंटी रोमियो स्क्वायड टीम के बारे में बताया। सादे वस्त्रों में व प्राइवेट वाहनों से सार्वजनिक स्थलों स्कूल, कालेज व कोचिंग संस्थान के आसपास शोहदो/मनचलो को चिन्हित कर कार्यवाही की जाती है।

पुलिस ने छह वारंटी दबोचे

पुलिस गिरफ्त में वारंटी।

अखंड भारत संदेश

चित्रकूट। पुलिस अधीक्षक श्रीमती वृन्दा शुक्ला के निर्देश पर वांछित/वारंटी की गिरफ्तारी को जारी अभियान में थानाध्यक्ष मारकुण्डी मनीष कुमार की अगुवाई में दरोगा प्रभाशंकर की टीम ने वन्य जीव संरक्षण अधिनियम के वारंटी कोदिया पत्नी झल्लर कोल, संती पत्नी शिवराज कोल, डोगिया पत्नी नत्थू, कोच्ची पत्नी दादूलाल, भूरी पत्नी लालमन कोल व बेलिया पत्नी लल्ली निवासी जारोमाफी डाडी कोलान को गिरफ्तार किया। टीम में दरोगा प्रभाशंकर, दरोगा रमजनी खां, सिपाही शिवलाल व महिला सिपाही मोहनी शामिल रहे।

करेडी नाला तक रसिन बांध को बढायेंः अनिल प्रधान

अखंड भारत संदेश

चित्रकूट। सपा के सदर विधायक अनिल प्रधान ने सूबे के मुख्यमंत्री को लिखे पत्र में कहा कि जिले के रसिन बांध में मधवा ताला सुदिनपुर से करेडी नाला तक लिंक नहर से मधवा ताला से गडरियन पुरवा रौली करेडी नाला तक जोडा जाये।

शुक्रवार को सदर विधायक अनिल प्रधान ने सूबे के मुख्यमंत्री को लिखे पत्र में कहा कि जिले के रसिन बांध से मधवा ताला सुदिनपुर तक बनी नहर में मधवा ताला से गडरियन पुरवा रौली करेडी नाला तक जनहित में जोडना जरूरी है। इसके तीन किमी निर्माण न होने से रौली, लूप, धौरही, ल्यौंझा, मऊ-ब समेत दर्जनों गांव सिंचाई से वंचित हैं। किसानों को सिंचाई को परेशानियों का सामना करना

सदर विधायक अनिल प्रधान।

पड़ता है। नहर के निर्माण से काफी हद तक क्षेत्र के किसानों की सिंचाई समस्या का निदान हो सकता है।

उन्होंने मांग किया कि इस मामले पर अविलम्ब ध्यान दिया जाये, ताकि रसिन बांध में मधवा ताला सुदिनपुर से करेडी नाला लिंक नहर निर्माण हो सके।

कहीं जेसीबी से कार्य, कहीं बिना कार्य के ही भुगतान, सेमरदहा गांव में गोलमाल

मानिकपुर/चित्रकूट। मानिकपुर ब्लाक के सेमरदहा गांव में विकास कार्यों के नाम पर धांधली हो रही है। मेडबंदी व समतलीकरण के नाम पर बड़ा खेल हो रहा है। कहीं जेसीबी से मेडबंदी व समतलीकरण के कार्य, तो कहीं बिना कार्य के ही भुगतान हुए है। शुक्रवार को सेमरदहा गांव के भ्रष्टाचार का खुलासा हुआ। बताया गया कि अपात्रों को काऊ शेड देकर सरकारी धन का मनमानी ढंग से बंदरबाट किया है। मनरेगा से कराए इंटरलाकिंग खड़ंजा निर्माण व बाउंड्री वॉल निर्माण में धांधली हुई है। प्रधान व सचिव की मिलीभगत से फर्जी भुगतान हुए है। तकनीकी सहायक की भूमिका संदिग्ध है। पिछले सप्ताह सोशल ऑडिट टीम ने जांच की थी। विकास कार्यों में धांधली की पोल खुली। सेमरदहा में पहले भी मनरेगा कार्यों में लूट हुई थी।

चोरी के फोन समेत दो चोर दबोचे

पुलिस गिरफ्त में चोर।

अखंड भारत संदेश

चित्रकूट। पुलिस अधीक्षक श्रीमती वृंदा शुक्ला के निर्देश पर अपराधियों के खिलाफ जारी अभियान में एएसपी चक्रपाणि त्रिपाठी व सीओ राजापुर श्रीमती निष्ठा उपाध्याय की देखरेख में प्रभारी निरीक्षक पहाड़ी श्याम प्रताप पटेल की अगुवाई में पुलिस ने मोबाइल दुकान से हुई चोरी का खुलासा कर दो चोरों को चोरी के दो मोबाइल फोन समेत गिरफ्तार किया।

ज्ञात है कि नौ अक्टूबर को पहाडी के प्रवीण कुमार श्रीवास्तव पुत्र राजेश श्रीवास्तव ने थाने में रिपोर्ट लिखाई कि कस्बा पहाड़ी राजापुर रोड पर सपना मोबाइल की दुकान से अज्ञात चोरों ने मोबाइल चोरी कर लिए हैं। पुलिस ने रिपोर्ट दर्जकर प्रभारी निरीक्षक पहाड़ी ने दरोगा रविकांत राय को घटना के खुलासे की जिम्मेदारी सौंपी। दरोगा राय की टीम ने वेद प्रकाश मिश्रा पुत्र स्व शारदा प्रसाद मिश्रा निवासी जोगी जोत बेलवरिया थाना धानेपुर जिला गोंडा व अजय राव पुत्र श्याम सुंदर निवासी फैजुल्ला जहरुल्ला थाना जीयनपुर जिला आजमगढ़ को चोरी के फोन समेत गिरफ्तार किया। माल बरामद की धारायें बढाई। टीम में दरोगा रविकांत राय, सिपाही सूर्यकांत यादव व जयप्रकाश विश्वकर्मा शामिल रहे।

राष्ट्रपति बाइडेन के बेटे हंटर को ग्रैंड जूरी ने कर चोरी का दोषी ठहराया

वाशिंगटन। राष्ट्रपति जो बाइडेन के पुत्र हंटर बाइडेन को अब कर चोरी के मामले में दोषी ठहराया गया है। अमेरिका के प्रमुख अखबार द न्यूयॉर्क टाइम्स के अनुसार कैलिफोर्निया में एक ग्रैंड जूरी ने 56 पन्नों के अभियोग पर सुनवाई की। अखबार के अनुसार ग्रैंड जूरी ने हंटर को मूल्यांकन की चोरी, कर दाखिल करने और भुगतान करने में विफलता और धोखाधड़ी वाले कर रिटर्न दाखिल करने के आरोप में दोषी ठहराया है। फिलहाल इस पर व्हाइट हाउस की कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। उल्लेखनीय है कि इससे पहले हंटर बाइडेन पर गन मामले में फंस चुके हैं।इस पर व्हाइट हाउस ने प्रतिक्रिया दी थी कि अगर हंटर को दोषी ठहराया जाएगा तो बाइडेन उन्हें माफ नहीं करेंगे।

काठमांडू एयरपोर्ट पर 14 किलोग्राम सोना बरामद, नहीं रुक रही तस्करी

काठमांडू। नेपाल में सोने की तस्करी रुक नहीं पा रही। काठमांडू में दो दिन पहले तस्करी कर लाए गए आठ किलोग्राम सोने की जांच चल ही रही थी कि रात 14 किलो सोने की तस्करी का एक नया मामला सामने आया है। पुलिस का कहना है कि गुरुवार रात 11:56 बजे फ्लाई दुबई की फ्लाइट एफजेड 573 से काठमांडू उतरे गोरखा जिला निवासी चंद्र बहादुर घले को गिरफ्तार कर लिया गया है। कस्टम टीम ने घले के पास से 14 किलोग्राम सोना बरामद किया गया है। साथ ही घले से पूछताछ के आधार पर काठमांडू के धुम्बाराही इलाके से मीन बहादुर घले को भी हिरासत में लिया गया है।

डेनमार्क में किसी भी धार्मिक ग्रंथ का अनादर करना गैरकानूनी कृत्य, संसद में कानून पारित

कोपेनहेगन। डेनमार्क में किसी भी देश के पवित्र ग्रंथ का अपमान करना गैरकानूनी बनाया गया है। डेनमार्क की संसद ने इस संबंध में एक नया कानून पारित किया है। यह कानून ऐसे समय पारित किया है, जब हाल में इस्लाम विरोधी कार्यकर्ताओं द्वारा सार्वजनिक रूप से कुरान का अपमान करने की घटना के बाद कई देशों में प्रदर्शन किए गए। स्कैंडिनेवियाई राष्ट्र को एक ऐसे स्थान के रूप में देखा जाता है जो अन्य देशों की संस्कृतियों, धर्मों और परंपराओं का अनादर करता है। न्याय मंत्रालय ने कहा है कि कानून का उद्देश्य 'सुनियोजित तरीके से आयोजित अनादर की घटनाओं' का मुकाबला करना है, जिसने अन्य बातों के अलावा, डेनमार्क में आतंकवाद के खतरे को बढ़ाया है। संसद ने इसे 77 के मुकाबले 94 मतों से मंजूर किया जबकि आठ सांसद अनुपस्थित रहे। नया कानून ''किसी समुदाय के लिए महत्वपूर्ण धार्मिक ग्रंथ या वस्तु का अनादर करना'' अपराध बना देगा। कला के तहत अभिव्यक्ति को कुछ शर्तों के साथ प्रतिबंध के दायरे से बाहर रखा गया है।

हमास से लड़ाई में भारतीय मूल के एक इजराइली सैनिक की मौत

यरुशलम। इजराइल और हमास के बीच गाजा पट्टी में संघर्ष के दौरान भारतीय मूल के इजराइली सैनिक की मौत हो गई। भारतीय यहूदी विरासत केंद्र के हवाले से यह जानकारी दी है। जानकारी के अनुसार मास्टर सार्जेंट (रिटायर्ड) गिल डेनियल की गाजा में हमास के आतंकियों ने हत्या कर दी। वह अशदोद के रहने वाले थे जहां बुधवार को उनका अंतिम संस्कार एक सैन्य कब्रिस्तान में किया गया। वहीं, इजराइली रक्षा बलों ने इसकी पुष्टि करते हुए कहा कि हमास के साथ लड़ाई के दौरान मारे गए दो और सैनिकों में गिल भी शामिल थे। भारतीय यहूदी विरासत केंद्र ने कहा कि हमास के साथ जारी युद्ध में इजराइल ने अभी तक कई सैनिकों को खो दिया है। हम इजराइल सेना की एक और सैनिक की मृत्यु पर शोक व्यक्त करते हैं। केंद्र के मुताबिक, गाजा में युद्ध शुरू होने के तुरंत बाद गिल 10 अक्टूबर को रिजर्व में गए थे। मालूम हो कि गिल ने हिब्रू यूनिवर्सिटी के स्कूल ऑफ फार्मेसी से मास्टर डिग्री हासिल की थी।

मालूम हो कि इजराइली हमले में अब तक 16,248 लोग मारे गए हैं, जिसमें 7,112 बच्चे और 4,885 महिलाएं शामिल हैं। वहीं, इजराइल ने कहा है कि हमास ने 100 से अधिक बंधकों को वापस किया है लेकिन 138 लोग अभी भी उसके कब्जे में हैं, जिनमें महिलाएं और बच्चे शामिल हैं। इजरायली सेना के प्रवक्ता डेनाइल हगरी ने अंतरराष्ट्रीय समुदाय से इन्हें छुड़ाने का आग्रह किया।

बगदाद में अमेरिकी दूतावास के पास विस्फोट, गाजा में इजराइल के दो सैनिक शहीद

बगदाद/गाजा। इराक की राजधानी बगदाद में आज (शुक्रवार) तड़के करीब चार बजे किलेबंदी वाले शांति क्षेत्र में अमेरिकी दूतावास के पास तेज विस्फोट हुआ है। इजराइल के प्रमुख अखबार द यरुशलम पोस्ट के अनुसार विस्फोट के बाद काफी समय तक चेतावनी सायरन बजते रहे। इस बीच इजराइल के दो सैनिक गाजा पट्टी में युद्ध के दौरान शहीद हो गए। इसकी पुष्टि इजराइली डिफेंस फोर्सेज (आईडीएफ) ने की है। द यरुशलम पोस्ट के अनुसार इस विस्फोट पर दूतावास ने टिप्पणी के अनुरोध का तुरंत कोई जवाब नहीं दिया। फिलहाल किसी भी सशस्त्र समूह ने अमेरिकी दूतावास के पास हुए विस्फोट की जिम्मेदारी नहीं ली है। उल्लेखनीय है कि अक्टूबर के मध्य से अब तक इराक और सीरिया में सैन्य ठिकानों और अमेरिकी बलों को 70 से अधिक हमलों का सामना करना पड़ा है। इनकी जिम्मेदारी इराकी शिया मुस्लिम सशस्त्र समूह के एक संगठन ने ली है। द यरुशलम पोस्ट के अनुसार आईडीएफ ने कल (गुरुवार) गाजा पट्टी में युद्ध में शहीद हुए दो सैनिकों के नामों का खुलासा किया है। साथ ही उनके परिवारों को इसकी सूचना दी है। आईडीएफ ने कहा है कि फिलिस्तीन के आतंकी संगठन हमास के साथ छिड़े युद्ध में तिबरियास के 41 वर्षीय मेजर कोबी द्वाश और यरुशलम के 28 वर्षीय मेजर इयाल मीर बर्कोविट्ज उत्तरी गाजा पट्टी में युद्ध में शहीद हो गए। इस अखबार ने कहा है कि एंटी डिफेमेशन लीग (एडीएल) के रब्बीनिक फेलो और हार्वर्ड डिवाइनिटी स्कूल के विजिटिंग स्कॉलर रब्बी डेविड वोल्पे ने शुक्रवार सुबह एक्स पर एक पोस्ट में घोषणा की कि उन्होंने हार्वर्ड में यहूदी विरोधी सलाहकार समिति से इस्तीफा दे दिया है।

इजराइल के दूसरे प्रमुख अखबार द टाइम्स ऑफ इजराइल के अनुसार फिलिस्तीनी कवि रेफैट अलारेर की गाजा पट्टी में युद्ध के दौरान मौत हो गई। कवि मोसाब अबू तोहा ने फेसबुक पर अपलोड पोस्ट में यह जानकारी देते हुए अपना दुख साझा किया है। अलालेर उत्तरी गाजा में रह रहे थे। अमेरिकी अखबार द न्यूयॉर्क टाइम्स के अनुसार इजराइल ने हमास पर 'मानवीय क्षेत्रों' से रॉकेट दागने का आरोप लगाया है। हमास के आतंकियों ने राफा के शिविरों से 14 रॉकेट दागे हैं। उल्लेखनीय है कि आज गाजा पट्टी में युद्ध के 63वें दिन घमासान मचा हुआ है।

इजराइली सुरक्षा बलों और हमास के आतंकियों के बीच भीषण लड़ाई चल रही है।

फिलीपींस : रविवार के स्कूल विस्फोट से जुड़े मामले में एक संदिग्ध गिरफ्तार

मनीला। फिलीपींस के सुरक्षा बलों ने रविवार को एक विश्वविद्यालय के जिम में हुए बम विस्फोट से जुड़े एक संदिग्ध को गिरफ्तार किया है। इस घटना में चार लोगों की मौत हो गई थी और 50 अन्य घायल हो गए थे। एक सैन्य प्रवक्ता ने शुक्रवार को यह जानकारी दी। फिलीपींस के सशस्त्र बल के

सार्वजनिक मामलों के प्रमुख जेरक्स त्रिनिदाद ने पुरुष संदिग्ध को 'सहयोगियों में से एक' करार दिया। उन्होंने संदिग्ध की गिरफ्तारी के विवरण के बारे में विस्तार से नहीं बताया। अधिकारियों ने पहले रुचि रखने वाले दो लोगों की पहचान की थी जिन्होंने कथित तौर पर मिंडानाओ द्वीप पर मरावी शहर में मिंडानाओ स्टेट यूनिवर्सिटी के जिम के अंदर एक सीट के नीचे विस्फोटक रखा था। विस्फोट में कैथोलिक सेवा में भाग लेने वाले सैकड़ों छात्रों और शिक्षकों को निशाना बनाया गया।

रूसी विदेशी खुफिया सेवा प्रमुख की चेतावनी, यूक्रेन के लिए अमेरिका बन जाएगा दूसरा वियतनाम

मॉस्को। अमेरिका के लिए यूक्रेन दूसरा वियतनाम बन जाएगा। यह चेतावनी रूस के विदेशी खुफिया सेवा प्रमुख (एसवीआर) के प्रमुख सर्गेई नारीशकिन ने दी है। सर्गेई ने अमेरिका और पश्चिमी देशों का यूक्रेन का समर्थन आने वाले वर्षों में वाशिंगटन को परेशान करेगा। ज्ञात रहे कि पिछले साल (2022) की शुरुआत में रूस-यूक्रेन युद्ध शुरू हुआ था, जो अभी तक जारी है। इस युद्ध में अभी तक हजारों लोगों की मौत हुई है और व्यापक पैमाने पर नुकसान हुआ है। रिपोर्ट के मुताबिक, पश्चिम ने यूक्रेन को अब तक 246 अरब डॉलर से अधिक की सहायता और व्यापक पैमान पर हथियार दे चुका है। बावजूद इसके यूक्रेन को ही नुकसान पहुंचा है। एवीआर प्रमुख ने अमेरिकी मदद को लेकर कहा कि यूक्रेन अधिक से अधिक संसाधनों को अवशोषित करने वाला 'ब्लैक होल' बन जाएगा। उन्होंने कहा कि आखिरकार, अमेरिका अपने लिए 'दूसरा वियतनाम' बनाने का जोखिम उठा रहा है। सर्गेई नारीशकिन ने कहा कि अमेरिकी प्रशासन को इससे निपटने के लिए कदम उठाना होगा।

वहीं, अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडन ने चेतावनी दी कि अगर नाटो और रूस का सीधा टकराव होता है, तो तीसरे विश्व युद्ध शुरू हो सकता है। वहीं, बार-बार यूक्रेन में अमेरिकी सैनिकों को भेजने से इनकार किया है। इससे पहले जो बाइडन ने रिपब्लिकन से यूक्रेन के लिए नए सिरे से सैन्य सहायता बढ़ाने का अनुरोध किया। बाइडन ने कहा कि अगर पुतिन यूक्रेन को जीत लेते हैं, तो वह वहां नहीं रुकेंगे। बाइडन ने भविष्यवाणी करते हुए कहा कि पुतिन, नाटो सहयोगी देशों पर हमला करेंगे।

इज़रायल की सेना ने गाजा में दर्जनों फ़िलिस्तीनियों को किया गिरफ़्तार

गाजा। इजरायली सेना ने उत्तरी गाजा पट्टी के बेत लाहिया शहर में कार्रवाई के दौरान दर्जनों फिलिस्तीनियों को गिरफ्तार कर लिया। फिलिस्तीनी सूत्रों ने यह जानकारी दी।

फिलिस्तीनी सुरक्षा सूत्रों ने 'शिन्हुआ' को बताया कि इजरायली सैनिकों ने बेइत लाहिया में आवासीय इलाकों पर हमले के दौरान गिरफ्तारियां कीं।

स्थानीय प्रत्यक्षदर्शियों ने कहा कि इजरायली सैनिकों ने पूछताछ के दौरान जानबूझकर बंदियों के कपड़े उतार दिए। इज़रायली सेना ने भी पुष्टि की कि उसके सैनिकों ने गाजा पट्टी में घुसपैठ के दौरान दर्जनों फिलिस्तीनी कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया। एक अन्य घटनाक्रम में इजरायली सेना ने घोषणा की कि कुछ दिन पहले एक इजरायली लड़ाकू विमान ने गाजा पट्टी में सभी टोही अभियानों के लिए जिम्मेदार हमास के सैन्य खुफिया प्रमुख अब्देल अजीज अल-रंतीसी को मार गिराया। अभी तक हमास ने इज़रायली दावे पर कोई टिप्पणी नहीं की है।

इज़राइल पर 7 अक्टूबर को हमास के अचानक हमले के जवाब में इज़रायल गाजा में बड़े पैमाने पर हवाई हमले और जमीनी हमले कर रहा है।

प्रधानमंत्री प्रचण्ड के खिलाफ अवमानना मामले में सुप्रीम कोर्ट ने 5 जनवरी तक फैसला टाला

काठमांडू। प्रधानमंत्री पुष्प कमल दाहाल प्रचंड के खिलाफ सात साल पुराने अदालत के अवमानना मामले में सुप्रीम कोर्ट ने अपना अंतिम फैसला एक बार फिर टाल दिया है। दो महीने पहले ही सुप्रीम कोर्ट ने 07 दिसम्बर को इस मामले में फैसला सुनाने की तारीख मुकर्रर की थी।

सुप्रीम कोर्ट ने गत 24 सितम्बर को अदालत अवमानना मामले का पुरानी फाइल खोलते हुए 07 दिसम्बर को अंतिम फैसला सुनाने की तारीख तय की थी। प्रधानमंत्री प्रचण्ड के खिलाफ दायर इस रिट पर आज ही फैसला आना था लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट ने 05 जनवरी 2024 तक के लिए इस फैसले को स्थगित कर दिया है।

सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश ईश्वर प्रसाद खतिवडा और कुमार रेग्मी की संयुक्त बेंच इस मामले की सुनवाई करते हुए 7 दिसम्बर को फैसले का दिन निश्चित किया था लेकिन आज इन्हीं दोनों न्यायाधीशों ने फैसले को टाल दिया। प्रचण्ड के खिलाफ अवमानना मामले में रिट दायर करने वाले वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी ने अदालत पर जानबूझकर फैसले में ढिलाई बरतने का आरोप लगाया है। यह मामला 2016 का है जब प्रचण्ड ने एक सार्वजनिक कार्यक्रम में अदालत के खिलाफ आपत्तिजनक बयान दिया था। माओवादी पार्टी के अध्यक्ष समेत रहे प्रचण्ड ने अपनी पार्टी के कुछ नेताओं के खिलाफ फैसला सुनाने को लेकर टिप्पणी करते हुए अदालत पर शांति प्रक्रिया को भंग करने की साजिश रचने का आरोप लगाया था।

प्रचण्ड ने उस समय कहा था कि सुप्रीम कोर्ट माओवादी के खिलाफ है और राजनीतिक दलों के साथ हुए विस्तृत शांति समझौते को तोड़ने के भयंकर षडयंत्र में सक्रिय है। प्रचण्ड ने ऐसे ही एक अन्य कार्यक्रम में कहा था कि यदि इसी तरह अदालत उनकी पार्टी के कार्यकर्ताओं के खिलाफ मुकदमा दर्ज करता रहा और फैसले सुनाता रहा तो माओवादी पार्टी उनके किसी फैसले को नहीं मानेगी और अदालत के खिलाफ सड़कों पर जनअदालत चलाएगी जिसमें सभी न्यायाधीशों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। न्यायाधीशों को धमकी देते हुए प्रचण्ड ने यहां तक कह दिया था कि माओवादी पार्टी के लड़ाकुओं ने बंदूक रखा है, चलाना नहीं भूला है। प्रचण्ड के इसी अभिव्यक्ति के खिलाफ अधिक्ता दिनेश त्रिपाठी ने अवमानना का मुकदमा दायर किया था। सुप्रीम कोर्ट में पिछले सात सालों से यह मुकदमा लम्बित है। उम्मीद थी कि इस पर आज फैसला आ सकता है लेकिन फैसला को एक महीने के लिए स्थगित कर दिया गया। नेपाल के कानून के मुताबिक यदि प्रचण्ड दोषी करार दिए जाते हैं तो उनका प्रधानमंत्री का पद स्वतः चला जाएगा।

अल्पसंख्यकों पर अत्याचार से अमेरिका नाराज, तीन चीनी कंपनियों से आयात करने पर लगाई रोक

वाशिंगटन

अमेरिका ने रविवार को आयोजित मानवाधिकार दिवस के अवसर पर अफगानिस्तान, चीन और ईरान जैसे कुछ देशों के दर्जनों पर मानवाधिकार हनन के आरोप में प्रतिबंध लगाने का फैसला किया है। इसके साथ ही अमेरिका ने उइगर मुसलमानों और अन्य अल्पसंख्यकों पर अत्याचार करने

पर तीन चीनी कंपनियों से भी आयात करने पर रोक लगा दी है।

इन चीनी कंपनियों पर अमेरिका ने लगाया प्रतिबंध

अमेरिका ने चीन की तीन प्रमुख कंपनियों कोफको शुगर होल्डिंग, शिजुआन जिंगवेदा टेक्नालिजी ग्रुप और एनहुई शिन्या से आयात पर रोक लगा दी है। श्रम कानूनों की अनदेखी के चलते चीनी उत्पादक कंपनी से लेकर धागा बनाने वाली कंपनी तक को प्रतिबंधित किया गया है। इन तीन कंपनियों पर रोक लगाने के बाद से अमेरिका ने अब तक कुल 30 चीनी कंपनियों पर प्रतिबंध लगा दिया है। इसके अलावा, अमेरिकी वित्त विभाग ने शुक्रवार को मानवाधिकार हनन के आरोप में नौ देशों के बीस से अधिक लोगों पर प्रतिबंध लगाया है।

अखंड भारत संदेश
स्वामी, प्रकाशक, मुद्रक
स्वामी श्री योगी सत्यम् फॉर
योग सत्संग समिति
द्वारा विपिन इण्टरप्राइजेज
1/6C माधव कुंज
कटरा प्रयागराज से मुद्रित
एवं
क्रियायोग आश्रम एण्ड अनुसंधान संस्थान
झूंसी, प्रयागराज उत्तर प्रदेश
से प्रकाशित।
सम्पादक
स्वामी श्री योगी सत्यम्
RNI No: UPHIN/2001/09025
ऑफिस मो.:
9565333000
Email:-
akhandbharatsandesh1@gmail.com
सभी विवादों का न्याय क्षेत्र
प्रयागराज होगा।

रिश्वत लेने के आरोपों में घिरे जापान के मुख्य कैबिनेट सचिव, बोले- अभी इस्तीफा देने का कोई इरादा नहीं

टोक्यो। जापान के मुख्य कैबिनेट सचिव हिरोकाजू मात्सुनो पर अपनी ही पार्टी द्वारा फंडरेजिंग इवेंट के दौरान 10 मिलियन येन की रिश्वत लेने का आरोप लगाया गया है। मात्सुनो सत्तारूढ़ पार्टी लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी (एलडीपी) के सबसे बड़े गुट से ताल्लुक रखते हैं। इन आरोपों पर मात्सुनो ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि उनका इस्तीफा देने का कोई इरादा नहीं है। मात्सुनो ने कहा, मैं जिम्मेदारी के साथ अपने कर्तव्य का पालन करुंगा। उन्होंने बताया कि उनका गुट फिलहाल आरोपों से जुड़े तथ्यों की पुष्टि करने में जुटा हुआ है। अभियोजकों ने शिकायत के बाद रिश्वत घोटाले की जांच शुरू कर दी है। प्रधानमंत्री फुमियो किशिदा गुट समेत पांच एलडीपी नेताओं के खिलाफ फंडरेजिंग पार्टियों से अपना राजस्व कम बताने का आरोप लगाया गया है।

100 में से 10 सांसदों को रिश्वत

सूत्रों के अनुसार, एलडीपी गुट ने पार्टी टिकटों के लिए अपने विधायकों का कोटा निर्धारित किया है, जिसकी कीमत 20 हजार येन होता है। उन्होंने आगे बताया कि अगर वो अपने लक्ष्य को पार कर जाते हैं तो उनकी अतिरिक्त कमाई कुछ इंट्रापार्टी समूहों के जरिए रिश्वत के तौर पर लौटा दी जाती है। सूत्रों के अनुसार 100 सांसदों में से 10 को रिश्वत मिली है। उनमें से कुछ को 10 मिलियन येन या उससे अधिक दी गई है।

बेघर अतिक्रमणकारी ने पहले की भारतीय मूल के मोटेल मालिक की हत्या, फिर खुद को कमरे में कैद कर मारी गोली

वाशिंगटन। अमेरिका के उत्तरी कैरोलिना में 46 वर्षीय भारतीय मूल के मोटेल मालिक को एक बेघर अतिक्रमणकारी ने गोली मारकर हत्या कर दी। हत्या करने के बाद आरोपी ने खुद को भी गोली मार ली। पुलिस ने बताया कि आरोपी अपनी जान लेने से पहले खुद को एक कमरे में कैद कर लिया था।

हत्या के बाद आरोपी ने खुद को मारी गोली

पुलिस ने बताया कि ठीक 10 बजे उन्हें एक कॉल आया जिसमें पुलिस को होस्टेज हाउस में एक व्यक्ति के अतिक्रमण होने की जानकारी दी गई। थोड़ी देर बाद दूसरा कॉल आया जिसमें बताया गया कि अतिक्रमणकारी ने खुद को गोली मार ली। आरोपी की पहचान टोरी केल्लम के तौर पर की गई है।

मोटेल मालिक के बाहर निकलने के बाद आपातकालीन कर्मी उन्हें इलाज के लिए कार्टेरेट हेल्थ केयर ले गए, जहां उन्हें बाद में मृत घोषित कर दिया गया। पुलिस ने बताया कि मोटेल मालिक यह व्यवसाय अपने परिवार के साथ चलाते थे।

पुलिस के अनुसार आरोपी की पहचान होस्टेज हाउस और अन्य क्षेत्रों में अवैध कब्जा करने वालों के तौर पर किया गया है। कई घंटों तक पुलिस और आरोपी के बीच बातचीत होती रही। स्पेशल रिस्पॉन्स टीम (एसआरटी) आरोपी को लगातार सरेंडर करने के लिए मना रहे थे। काटेरेट काउंटी शेरिफ आसा बक ने बताया, एसआरटी की टीम घटनास्थल पर पहुंची। हमने आसपास के स्कूलों को बंद रखने की बात की। क्योंकि, हम सुनिश्चित करना चाहते थे कि आरोपी उस कमरे में ही बंद हो। आरोपी के बाहर निकलने से इनकार करने पर एसआरटी की टीम कमरे के अंदर प्रवेश की, लेकिन तबतक उसने कमरे में ही खुद को गोली मार ली थी।